



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5—अगस्त 11, 2006 (श्रावण 14, 1928)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5—AUGUST 11, 2006 (SRAVANA 14, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय
वायु शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 05 अगस्त 2006

संख्या 386, दिनांक 10 जुलाई 2006—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को प्रदत्त औपवन्धिक अल्प सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा वायु सेना अनुदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत उनके नाम के सामने दी गई तिथि से स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना
मौसम विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर पी. निशांत (27191), हिमांशु सिंह (27631), दिनांक 19 जून 2004 से।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत स्थायी कमीशन परखाधीन प्रदान करते हैं।

भूतपूर्व फ्लाईट कैडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर राजकुमार शानमुगम (28038), राकेश कुमार (28039), हरीन्द्र सिंह (28040), शैलेश शर्मा (28041), सुजय विश्वास (28043), साजित कुमार नेरावतु (28044), वैकेटरामा राजू जी (28045),

एन. प्रवीण कुमार (28046), आनंद दूबे (28047), विवेक दीशवाल (28048), शिवा कुमार वी. (28049), अभिषेक राणा (28050), जगविन्द्र सिंह (28051), दिनेश त्यागी (28052), प्रवीण कुमार (28053), शेख याकुब अली (28054), सुमीत कुमार पाल (28055), विक्रान्त रावत (28056), कौंडालारो सेत्तीपाली (28057), अविनाश सिंह कालसी (28058), महेश सिंह राठौर (28059), संजीव कुमार महला (28060), श्रीजत सदासिवन (28061), चंद्र प्रकाश (28062), खिजार हुसैन जाना (28063), सिद्यार्थ कुमार (28064), विशाल चोपड़ा (28065), विजय यादव (28066), राहुल कुमार (28067), प्रशांत बी. (28068), दिनांक 19 जून 2004 से।

लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर धीरज हुडा (28069), परमजीत सिंह (28070), अमित मुखर्जी (28071), संतोष साहेबलाल मिश्रा (28072), तोजोमूर्तूला वैकेट सत्या सुब्रमण्यम् वीरभद्र सूर्यनारायणा विठ्ठल (28073), मनीष सांगवान (28074), राजेश आर. (28075), घुमारे संतोष नंदकुमार (28076), अभिषेक भुल्लर (28077), दिनांक 19 जून 2004 से।

शिक्षा विभाग

फ्लाईंग अफसर राकेश शर्मा (28078), गोडबोले विनायक रविदत्ता (28079), अजीत राधा कृष्णन (28080), भानू प्रकाश सी.एस. (28081), शानमुगम (28082), दिनांक 19 जून 2004 से।

मौसम विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर अरविंद मोहन वामसी गोविन्दु (28083), दिनांक 19 जून 2004 से।

एस. श्रीवास्तव
विंग कमांडर
जे.डी.पी.ओ.-3(डी)

वायु शाखा

संख्या 387, दिनांक 10 जुलाई 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से पुष्टि करते हैं।

भारतीय वायु सेना
प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर नवनीता सेनापति (28087), बसुन्दा कौशल (28088), जी.टी. अमूलया लिंगदोह (28089), अमनदीप धालिवाल (28090), दिनांक 19 जून 2004 से।

लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर शतांशु जग्गी (28091), मिनाक्षी अग्निहोत्री (28092), स्मिर्ति दिक्षीत (28093), विनय डी. अल्लूवालिया (28094), अभिषेका श्रीवास्तवा (28095), सिनी थौमस (28096), राजलक्षिम शंकर पाटिल (28097), आर्चिका चतुर्वेदी (28098), दिनांक 19 जून 2004 से।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर शालू लता चंदेल (28099), संगीता पाकलराज (28100), श्री काला जी (28101), सुनीता रानी (28102), देलशाद दरियस मास्टर (28103), दिनांक 19 जून 2004 से।

मौसम शाखा

फ्लाईंग अफसर पूजा घिलदियाल (27632), शबीना शहनाबाज (27633), दिनांक 19 जून 2004 से।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर जिन्हें स्थायी कमीशन परखाधीन प्रदान किया गया था कि पुष्टि उनके नाम के सामने दी गई तारीख से करते हैं।

भारतीय वायु सेना
उड़ान (नेविगेटर) शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर दत्ता सुकान्तो (27949), शरतचंद्र श्रीवास्तव (27974), वंगरखेम सुरेश सिंह (27984), नीरज (28014), मिश्रा सौमित्रा मुन्नुलाल (28018), हिमांशु तिवारी (28020), क्षितीज कपूर (28023), दिनांक 19 जून 2004।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था कि पुष्टि उनके नाम के सामने दी गई तारीख से करते हैं।

फ्लाईंग अफसर राजकुमार शानमुगम (28038), राकेश कुमार (28039), हरेन्द्र सिंह (28040), शैलेश शर्मा (28041), सुजय विश्वास (28043), साजित कुमार नेरावतु (28044), वैकेटरामा राजू जी (28045),

एन. प्रवीण कुमार (28046), आनंद दूबे (28047), विवेक देशवाल (28048), शिवा कुमार वी. (28049), अभिषेक राणा (28050), जागविन्द्र सिंह (28051), दिनेश त्यागी (28052), प्रवीण कुमार (28053), शोख याकुब अली (28054), सुमीत कुमार पाल (28055), विक्रान्त रावत (28056), कॉडालारो सेतीपाली (28057), अविनाश सिंह कालसी (28058), संजीव कुमार महला (28060), श्रीजत सदासिवन (28061), चंद्र प्रकाश (28062), खिजार हुसैन ज्ञाना (28063), सिद्धार्थ कुमार (28064), विशाल चोपड़ा (28065), विनय यादव (28066), राहुल कुमार (28067), प्रशांत बी. (28068), दिनांक 19 जून 2004 से।

लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर धीरज हुडा (28069), परमजीत सिंह (28070), अमित मुखर्जी (28071), संतोष साहेबलाल मिश्रा (28072), तोजोमूर्तूला वैकेट सत्या सुब्रमण्यम् वीरभद्र सूर्यनारायणा विठ्ठल (28073), मनीष संगवान (28074), राजेश आर. (28075), घुमारे संतोष नंद कुमार (28076), अभिषेक भुल्लर (28077), दिनांक 19 जून 2004 से।

शिक्षा विभाग

फ्लाईंग अफसर राकेश शर्मा (28078), गोडबोले विनायक रविदत्ता (28079), अजीत राधा कृष्णण (28080), भानू प्रकाश सी.एस. (28081), शानमुगम (28082), दिनांक 19 जून 2004 से।

मौसम विभाग शाखा

फ्लाईंग अफसर अरविंद मोहन वामसी गोविन्दु (28083), पी निशांत (27191), हिमांशु सिंह (27631) दिनांक 19 जून 2004 से।

संजीव श्रीवास्तव
विंग कमाण्डर
जे.डी.पी.ओ.-3(डी)

संख्या 388, दिनांक 03 जुलाई 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैंट्री

डोगरा रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बेनी चन्द (जेसी-518531एच), 21 दिसम्बर 2005

सूबेदार चतर सिंह ठाकुर (जेसी-518764के), 01 फरवरी 2006*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से)

सूबेदार सुख राम (जेसी-519154के), 02 फरवरी 2006*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से)

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार लिपिक कमलेश चन्द (जेसी-518543एक्स), 01 जनवरी 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुकर सिंह (जेसी-519486एन), 27 दिसम्बर 2005 *
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से।)

नायब सूबेदार मोहिन्द्र सिंह, शौर्य चक्र (जेसी-519488वाई), 10 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-519704एफ), 21 फरवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2005 से)

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-519798के), 03 मार्च 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2005 से)

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-519544एम), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार धनी राम (जेसी-519545पी), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार नील चन्द, शौर्य चक्र (जेसी-519651एन), 08 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से)

नायब सूबेदार बतन सिंह (जेसी-519643पी), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार करनल सिंह (जेसी-519547ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-519548एच), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार शौभा राम ठाकुर (जेसी-519564ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-519648एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राम किशन, सेना मैडल (जेसी-519660पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-519777एच), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द पटियाल (जेसी-519676ए), 28 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रछपाल सिंह (जेसी-519677एच), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार हंस राज, सेना मैडल (जेसी-519661के), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-519851के), 05 मार्च 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक कृष्ण कुमार (जेसी-519385ए), 29 अक्टूबर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से)

नायब सूबेदार लिपिक दान सिंह (जेसी-519427एफ), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक सुभाष चन्द राणा (जेसी-519498एच), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक सरवन कुमार ठाकुर (जेसी-519741पी), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक हंस राज (जेसी-519499एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक वीर शिरोमणी तिवारी (जेसी-519491वाई), 09 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से)

नायब सूबेदार लिपिक महेन्द्र प्रताप चौहान (जेसी-519565ए), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार लिपिक राजवीर सिंह (जेसी-519645ए), 13 जनवरी 2006

नायब सूबेदार लिपिक रमेश कुमार पटियाल (जेसी-519663एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार लिपिक किशोरी लाल (जेसी-519796वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार लिपिक प्रकाश चन्द शर्मा (जेसी-519815वाई), 09 मार्च 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हन्स राज (सं. 3984727एम अब जेसी-520287एम), 01 जून 2005

हवलदार गुरदाश राम (सं. 3984988ए अब जेसी-520288पी), 01 जुलाई 2005

हवलदार ठाकुर सिंह (सं. 3983540एन अब जेसी-520289एक्स), 07 नवम्बर 2005

हवलदार महिन्द्र सिंह (सं. 3985241एन अब जेसी-520290एम), 08 नवम्बर 2005

हवलदार ब्रिज लाल (सं. 3989821ए अब जेसी-520291पी), 04 जनवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 नवम्बर 05 से दी जायेगी)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 3984611डब्ल्यू अब जेसी-520292एक्स), 08 दिसम्बर 2005

हवलदार जगदीप सिंह (सं. 3984653एच अब जेसी-520293ए), 11 दिसम्बर 2005

हवलदार बिक्रम सिंह (सं. 3984670एच अब जेसी-520294एच), 06 मार्च 2006+

+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जनवरी 06 से दी जायेगी।

हवलदार नवीन कुमार (सं. 3387575के अब जेसी-520295एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक मदन लाल (सं. 3984607एन अब जेसी-520296एन) 01 फरवरी 2006

हवलदार लिपिक गुलजारी लाल (सं. 3984399के अब जेसी-520297डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार लिपिक तरसेम सिंह (सं. 3984759पी अब जेसी-520298वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ओमकार चंदेल (सं. 3987411एक्स अब जेसी-520299एफ), 31 जनवरी 2006

हवलदार संतोखा राम (सं. 3984416वाई अब जेसी-520300एल), 18 मार्च 2006+

+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 06 से दी जायेगी।

हवलदार कशमीर सिंह (सं. 3983148एन अब जेसी-520301एन), 05 मार्च 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक बिक्रम सिंह (सं. 3985341वाई अब जेसी-520302डब्ल्यू), 14 जनवरी 2006+

+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 05 से दी जायेगी।

हवलदार लिपिक सुरजीत सिंह जग्गी (सं. 3984220एल अब जेसी-520303वाई), 13 जनवरी 2006

हवलदार लिपिक सुशील कुमार शर्मा (सं. 3984720एच अब जेसी-520304एफ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कुलदीप चन्द (सं. 3984231एक्स अब जेसी-520254एफ), 24 जनवरी 2006+

+ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 फरवरी 05 से दी जायेगी)

हवलदार हरबंस लाल (सं. 3983165एन अब जेसी-520255के), 28 अगस्त 2005

हवलदार ज्ञान चन्द (सं. 3983902के अब जेसी-520256एम), 29 जनवरी 2006+

+ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जायेगी)

हवलदार विजय कुमार (सं. 3387104डब्ल्यू अब जेसी-520257पी), 19 अक्टूबर 2005

हवलदार रनवीर सिंह (सं. 2989085डब्ल्यू अब जेसी-520258एक्स), 18 जनवरी 2006+

+ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 05 से दी जायेगी)

हवलदार कुलदीप चन्द (सं. 3985064वाई अब जेसी-520259ए), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक भरत सिंह (सं. 3985706एच अब जेसी-520260पी), 23 नवम्बर 2005+

+ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक शिव कुमार (सं. 3985778एम अब जेसी-520261एक्स), 03 दिसम्बर 2005+

+ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक उधम चन्द (सं. 3983940ए अब जेसी-520262ए), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार यश पाल (सं. 3984235एन अब जेसी-520269के), 15 अगस्त 2005

हवलदार दौलत राम (सं. 3983865एफ अब जेसी-520270वाई), 15 अगस्त 2005

हवलदार ज्ञान चन्द (सं. 3984517एम अब जेसी-520271एफ), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार हरबन्स सिंह (सं. 3984537ए अब जेसी-520272के), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार हेम सिंह (सं. 3983878वाई अब जेसी-520273एम), 01 नवम्बर 2005

हवलदार रोमेश लाल (सं. 3983555डब्ल्यू अब जेसी-520274पी),
01 नवम्बर 2005

हवलदार खारेती लाल (सं. 3984168एन अब जेसी-520275एक्स),
01 नवम्बर 2005

हवलदार बन्सी लाल (सं. 3983286पी अब जेसी-520276ए),
01 नवम्बर 2005

हवलदार इन्द्रजीत (सं. 3984455एक्स अब जेसी-520277एच),
11 नवम्बर 2005

हवलदार संतोश पाल (सं. 3985500एल अब जेसी-520278एल),
17 नवम्बर 2005

हवलदार हाकम चन्द (सं. 3987149एन अब जेसी-520279एन),
25 नवम्बर 2005

हवलदार मोहन सिंह (सं. 3987707के अब जेसी-520280एच),
06 जनवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 05 से दी जायेगी।)

हवलदार भाग सिंह (सं. 3983506एन अब जेसी-520281एल),
15 दिसम्बर 2005

हवलदार विजय कुमार (सं. 3983767एफ अब जेसी-520282एन),
26 दिसम्बर 2005

हवलदार पूरन सिंह (सं. 3983001एक्स अब जेसी-520283डब्ल्यू),
01 जनवरी 2006

हवलदार रन्जीत सिंह (सं. 3983239एक्स अब जेसी-520284वाई),
01 जनवरी 2006

हवलदार बेसर राम (सं. 3387126पी अब जेसी-520285एफ),
09 जनवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 जनवरी 06 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक कमल देव (सं. 3985304एल अब जेसी-
520286के), 28 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 05 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार देस राज (सं. 3983146एक्स अब जेसी-520263एच),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार पवन कुमार (सं. 3983684डब्ल्यू अब जेसी-520264एल),
20 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 05 से दी जायेगी)

हवलदार सतीश कुमार (सं. 3983908एल अब जेसी-520265एन),
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक संकर दत्ता (सं. 3991308एक्स अब जेसी-
520266डब्ल्यू), 26 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 05 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक संजय कुमार (सं. 3984218एन अब जेसी-
520267वाई), 01 जनवरी 2006

हवलदार लिपिक दिले राम (सं. 3985303एच अब जेसी-
520268एफ), 01 जनवरी 2006

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार जी. डी. के रैंक में

हवलदार अजीत सिंह (सं. 13747515एक्स अब जेसी-580185ए),
04 दिसम्बर 2005*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जायेगी)

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 13747477एम अब जेसी-580186एच),
15 अक्टूबर 2005*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जायेगी)

हवलदार प्रीतम चन्द (सं. 13747479एक्स अब जेसी-580187एल),
18 नवम्बर 2005*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जायेगी)

हवलदार अमरीक सिंह (सं. 13749616के अब जेसी-580188एन),
04 जनवरी 2006*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 अक्टूबर 05 से दी जायेगी)

हवलदार शाम लाल (सं. 1374889वाई अब जेसी-580189डब्ल्यू),
06 दिसम्बर 2005*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 27 अक्टूबर 05 से दी जायेगी)

हवलदार मोहन सिंह (सं. 13749423के अब जेसी-580190एल), 06 दिसम्बर 2005*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अक्टूबर 05 से दी जायेगी)

हवलदार प्रीतम सिंह (सं. 13749598एम अब जेसी-580191एन), 20 दिसम्बर 2005*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अक्टूबर 05 से दी जायेगी)

हवलदार किशोरी लाल (सं. 13748371एम अब जेसी-580192डब्ल्यू), 29 दिसम्बर 2005*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 05 से दी जायेगी)

हवलदार हेम राज (सं. 13748785वाई अब जेसी-580193वाई), 06 दिसम्बर 2005*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 05 से दी जायेगी)

हवलदार पवन कुमार शर्मा (सं. 13749615एफ अब जेसी-580194एफ), 03 दिसम्बर 2005*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 05 से दी जायेगी)

हवलदार प्रव दयाल (सं. 13748895एन अब जेसी-580196एम), 19 दिसम्बर 2005*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 05 से दी जायेगी)

हवलदार जांगु राम (सं. 13749619एक्स अब जेसी-580197पी), 06 जनवरी 2006*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 05 से दी जायेगी)

हवलदार सेवा सिंह (सं. 13749176एफ अब जेसी-580198एक्स), 01 जनवरी 2006

हवलदार कुलवीर सिंह (सं. 13748882डब्ल्यू अब जेसी-580199ए), 01 जनवरी 2006

हवलदार कृष्ण सिंह (सं. 13747860एल अब जेसी-580200के), 01 जनवरी 2006

हवलदार निरमल सिंह (सं. 13748300एल अब जेसी-580201एम), 01 जनवरी 2006

हवलदा मोहन लाल (सं. 13748314एल अब जेसी-580202पी), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार जी. डी. लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक मालु राम (सं. 3385049एम अब जेसी-580195के), 01 दिसम्बर 2005

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रामभाऊ दानवे (जेसी-205511एक्स), 05 दिसम्बर 2005+
+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जाती है)

सूबेदार इंगवले हरिबा रामचंद्र (जेसी-222656वाई), 02 नवम्बर 2005+
+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 05 से दी जाती है)

सूबेदार पानालकर पांडुरंग भीमराव (जेसी-216495एल), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार देशमुख रावसाहेब सुखदेव (जेसी-488234एक्स), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार दशरथ बाबु चव्हाण (जेसी-220160एल), 01 जनवरी 2006

सूबेदार विजय अप्पासो सूर्यवंशी (जेसी-212864ए), 01 जनवरी 2006

सूबेदार बोरकर सुरेश एकनाथ (जेसी-216492वाई), 03 फरवरी 2006+
+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 06 से दी जाती है)

सूबेदार अर्जुन मलप्पा ताम्बुलुण्डे (जेसी-458150पी), 01 फरवरी 2006

सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार लिपिक वर्मा शिवाजी रामेश्वर (जेसी-458017एम), 01 मार्च 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गवस गुरुनाथ पांडुरंग (जेसी-459204एक्स), 30 सितम्बर 2005+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 04 से दी जाती है)

नायब सूबेदार महम्मद रहिमुद्दिन (जेसी-458922एफ), 17 दिसम्बर 2004+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 04 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोरे उदय रामचंद्र (जेसी-459159डब्ल्यू), 10 मई 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 05 से दी जाती है)	नायब सूबेदार राजेंद्र मोटे (जेसी-459189एन), 07 दिसम्बर 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जाती है)
नायब सूबेदार रमेश गोपाल सावंत (जेसी-458969एम), 22 नवम्बर 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 05 से दी जाती है)	नायब सूबेदार माने रमेश रामचंद्र (जेसी-459035एफ), 07 दिसम्बर 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 05 से दी जाती है)
नायब सूबेदार शिंदे विजय घनश्याम (जेसी-459086पी), 01 दिसम्बर 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 05 से दी जाती है)	नायब सूबेदार जगताप अशोक विठल (जेसी-459048वाई), 17 नवम्बर 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 05 से दी जाती है)
नायब सूबेदार ओम पाल शर्मा (जेसी-459064डब्ल्यू), 23 नवम्बर 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जुलाई 05 से दी जाती है)	नायब सूबेदार देशमुख बाजीराव गंगाराम (जेसी-459139एच), 16 जनवरी 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 05 से दी जाती है)
नायब सूबेदार गाडे विश्वास दत्तु (जेसी-458916एन), 12 दिसम्बर 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 05 से दी जाती है)	नायब सूबेदार श्री ग़ब्रल मिंज (जेसी-459125एच), 12 फरवरी 2006+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 05 से दी जाती है)
नायब सूबेदार बरडे रामराव दौलतराव (जेसी-458932एल), 26 नवम्बर 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जाती है)	नायब सूबेदार मनोहर कृष्णा निम्बालकर (जेसी-459222ए), 28 नवम्बर 2006+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 05 से दी जाती है)
नायब सूबेदार उमेश आर (जेसी-459000एल), 22 नवम्बर 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जाती है)	नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-459080एन), 27 दिसम्बर 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 05 से दी जाती है)
नायब सूबेदार बारण्जे कुमार शंकर (जेसी-459017वाई), 22 अक्टूबर 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जाती है)	नायब सूबेदार चव्हाण शांतिनाथ आनंदराव (जेसी-459087एक्स), 20 दिसम्बर 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 05 से दी जाती है)
नायब सूबेदार कमालकर बालु रामा (जेसी-459026के), 01 अक्टूबर 2005 +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जाती है)	नायब सूबेदार फोपले मचिन्द्रा प्रल्हाद (जेसी-458983वाई), 01 जनवरी 2006 नायब सूबेदार खामकर बाजीराव शंकर (जेसी-459182एक्स), 01 फरवरी 2006
नायब सूबेदार राउत दत्तात्रय तुकाराम (जेसी-459167पी), 10 दिसम्बर 2005+ +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जाती है)	नायब सूबेदार के रैंक में हवलदार मस्के भगवान दामु (सं. 2781333एच अब जेसी-459612एच), 01 फरवरी 2006+ +(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 सितम्बर 05 से दी जाती है)

हवलदार मंगे रविंद्र गंगाराम (सं. 2782769ए अब जेसी-459613एल),
07 फरवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जाती है)

हवलदार चुंगादी संजय रुद्रप्पा (सं. 2783842ए अब जेसी-
459614एन), 05 फरवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 05 से दी जाती है)

हवलदार तुपे भैरु तुलशीराम (सं. 2784098ए अब जेसी-
459615डब्ल्यू), 02 फरवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 05 से दी जाती है)

हवलदार शिंदे नामदेव वासुदेव (सं. 2782826डब्ल्यू अब जेसी-
459616वाई), 02 फरवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 05 से दी जाती है)

हवलदार मापारे बलभीम तुकाराम (सं. 2783409डब्ल्यू अब जेसी-
459617एफ), 13 फरवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 05 से दी जाती है)

हवलदार मेहर सिंह (सं. 2783201एन अब जेसी-459618के),
01 मार्च 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 जनवरी 06 से दी जाती है)

हवलदार बलवान सिंह (सं. 3177415एम अब जेसी-459619एम),
16 फरवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 06 से दी जाती है)

हवलदार टिमकेकर धोंडिबा बाबा (सं. 2783473एन अब जेसी-
459620एफ), 03 मार्च 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 06 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक बोराडे विजय श्रीरंग (सं. 2781267एल अब जेसी-
459621के), 03 मार्च 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 06 से दी जाती है)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मधुसुदन गुप्ता (सं. 2784172डब्ल्यू अब जेसी-459518वाई),
03 मार्च 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 सितम्बर 04 से दी जाती है)

हवलदार शिंदे राजाराम दत्तात्रय (सं. 2787041डब्ल्यू अब जेसी-
459519एफ), 04 मई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 04 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश भिवा गावडे (सं. 2780570ए अब जेसी-459520डब्ल्यू),
08 मई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 04 से दी जाती है)

हवलदार पंडुलिक भिकाप्पा पाटील (सं. 2782126एच अब जेसी-
459521वाई), 11 मई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 04 से दी जाती है)

हवलदार मलाप्पा सातेरी बेलगांवकर (सं. 2778010पी अब जेसी-
459522एफ), 08 मई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 05 से दी जाती है)

हवलदार पाटील हनुमंत भगवंत (सं. 2781753एच अब जेसी-
459523के), 19 अप्रैल 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 जनवरी 05 से दी जाती है)

हवलदार बंडगर बंडु विठोबा (सं. 2782852एक्स अब जेसी-
459524एन), 03 जून 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 05 से दी जाती है)

हवलदार मानकर लक्ष्मण आनंदा (सं. 2786234के अब जेसी-
459525पी), 03 जून 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 05 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश ज्ञानदेव शिंदे (सं. 2780306एम अब जेसी-
459526एक्स), 05 मई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 मार्च 05 से दी जाती है)

हवलदार मोरे भारत बालका (सं. 2780610डब्ल्यू अब जेसी-
459601डब्ल्यू), 20 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 05 से दी जाती है)

हवलदार पाटील सर्जेराव दिनकरराव (सं. 2784154एन अब जेसी-459602वाई), 20 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 05 से दी जाती है)

धुरी नारायण महादेव (सं. 2787461डब्ल्यू अब जेसी-459603एफ), 13 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 05 से दी जाती है)

हवलदार तायडे गंगाधर आनंदा (सं. 2779664एल अब जेसी-459604के), 19 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 05 से दी जाती है)

हवलदार पांडुरंग गवस (सं. 2785238पी अब जेसी-459605एम), 19 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 05 से दी जाती है)

हवलदार भरथन पी वी (सं. 2784229ए अब जेसी-459606पी), 23 जनवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 05 से दी जाती है)

हवलदार विजयाकुमार पी (सं. 2784254वाई अब जेसी-459607एक्स), 23 जनवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 05 से दी जाती है)

हवलदार हरेकर काशीराम रामा (सं. 2784260एम अब जेसी-459608ए), 23 जनवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 05 से दी जाती है)

हवलदार हावके सम्भाजी तुकाराम (सं. 8031095के अब जेसी-459611ए), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक क्रिस्टी फ्रांसिस (सं. 2781267एल अब जेसी-459609एच), 19 जनवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 06 से दी जाती है)

हवलदार लिपिक चव्हाण राजाराम शंकर (सं. 2781280पी अब जेसी-459610एक्स), 15 जनवरी 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 06 से दी जाती है)

जाट रेजीमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सोबरन सिंह खिरवार (जेसी-178262एक्स), 26 मई 2001 *
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2001 से दी जायेगी)

सूबेदार धर्म चन्द (जेसी-196484पी), 01 मई 2001

सूबेदार कृष्ण सिंह (जेसी-181763एच), 01 मई 2001

सूबेदार तेजा राम (जेसी-185181ए), 01 जून 2001

सूबेदार मुहार पाल सिंह (जेसी-164785एल), 01 जून 2001

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-185759एक्स), 01 जून 2001

सूबेदार रेखा राम (जेसी-185518एक्स), 01 जुलाई 2001

सूबेदार करनी राम (जेसी-168543ए), 01 जुलाई 2001

सूबेदार सूखा राम (जेसी-168866एच), 01 अगस्त 2001 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2001 से दी जायेगी)

सूबेदार रोहताश्व (जेसी-204066एक्स), 09 जुलाई 2001

सूबेदार शिव राम सिंह (जेसी-188660एम), 01 अगस्त 2001

सूबेदार नथू लाल जाट (जेसी-488121पी), 04 अगस्त 2001 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2001 से दी जायेगी)

सूबेदार चन्दगी राम जाट (जेसी-199244एच), 20 सितम्बर 2001

सूबेदार दूली चन्द (जेसी-168863पी), 01 नवम्बर 2001 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2001 से दी जायेगी)

सूबेदार जगदीश चन्द्र (जेसी-179350ए), 09 जनवरी 2002 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 नवम्बर 2001 से दी जायेगी)

सूबेदार रन सिंह (जेसी-184996पी), 19 नवम्बर 2001

सूबेदार करतार सिंह (जेसी-212941के), 08 फरवरी 2002 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 नवम्बर 2001 से दी जायेगी)

सूबेदार रामबीर बुधवार (जेसी-185179एच), 07 फरवरी 2002 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2002 से दी जायेगी)

सूबेदार याद राम (जेसी-208358एक्स), 06 मई 2002 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2002 से दी जायेगी)

- सूबेदार राम करन (जेसी-488527एच), 01 अगस्त 2002 *
- *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2002 से दी जायेगी)
- सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-201031डब्ल्यू), 23 मई 2002 *
- *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2002 से दी जायेगी)
- सूबेदार प्रेम सिंह सिंहरोआ (जेसी-188666एन), 11 जून 2002 *
- *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)
- सूबेदार जगजीत सिंह (जेसी-192936पी), 30 जुलाई 2002 *
- *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)
- सूबेदार सुभाष चन्द्र सिंगर (जेसी-196229एच), 01 अक्टूबर 2002
- सूबेदार अमीर सिंह (जेसी-205920एम), 16 दिसम्बर 2002 *
- *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)
- सूबेदार अमर सिंह सैपुवार (जेसी-179355वाई), 20 फरवरी 2003 *
- *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)
- सूबेदार शिव सिंह रावत (जेसी-205927पी), 01 दिसम्बर 2002
- सूबेदार मोहन राम (जेसी-201997डब्ल्यू), 10 मार्च 2003 *
- *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)
- सूबेदार सत्यबीर सिंह (जेसी-205570के), 01 दिसम्बर 2002
- सूबेदार फले सिंह (जेसी-183000एल), 29 मार्च 2003 *
- *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)
- सूबेदार राम कुमार (जेसी-205930पी), 01 अगस्त 2003
- सूबेदार राज सिंह (जेसी-208080एफ), 01 सितम्बर 2003
- सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-211094एम), 06 अक्टूबर 2003 *
- *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जायेगी)
- सूबेदार राज सिंह (जेसी-488137ए), 08 अक्टूबर 2003 *
- *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जायेगी)
- सूबेदार गजेन्द्र सिंह (जेसी-216835एच), 20 अक्टूबर 2003 *
- *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जायेगी)
- सूबेदार संतोष कुमार (जेसी-224413एम), 01 दिसम्बर 2003
- सूबेदार बलराज सिंह (जेसी-488160एन), 01 दिसम्बर 2003
- सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में
- सूबेदार (लिपिक) बनी सिंह (जेसी-205575एच), 01 मई 2001
- सूबेदार (लिपिक) गजराज सिंह यादव (जेसी-205776एल), 19 नवम्बर 2001
- सूबेदार (लिपिक) रणधीर सिंह महलावत (जेसी-216536के), 01 फरवरी 2002
- सूबेदार (लिपिक) सूबे सिंह यादव (जेसी-216832पी), 01 दिसम्बर 2002
- सूबेदार (लिपिक) जोगा राम चौधरी (जेसी-220960के), 01 फरवरी 2003
- सूबेदार (लिपिक) हिम्मत सिंह (जेसी-220961एम), 01 मई 2003
- सूबेदार (लिपिक) जय नारायण (जेसी-218273पी), 01 जुलाई 2003
- सूबेदार (लिपिक) धन सिंह (जेसी-220969वाई), 14 जनवरी 2004 *
- *(सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार के रैंक में
- हवलदार राजबीर सिंह (सं. 3176620एफ अब जेसी-489778वाई), 03 जनवरी 2006 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)
- हवलदार सरजीत सिंह (सं. 3179630डब्ल्यू अब जेसी-489779एफ), 01 अगस्त 2005
- हवलदार विक्रम सिंह (सं. 3180165एफ अब जेसी-489780डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005
- हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 3185885एम अब जेसी-489781वाई), 01 सितम्बर 2005
- हवलदार कर्मबीर (सं. 3176806एल अब जेसी-489782एफ), 26 सितम्बर 2005
- हवलदार रनबीर सिंह (सं. 3180181वाई अब जेसी-489783के), 28 अक्टूबर 2005
- हवलदार भीम सिंह (सं. 3177551एच अब जेसी-489784एम), 01 नवम्बर 2005
- हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 3179852एल अब जेसी-489785पी), 01 नवम्बर 2005
- हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3176832एम अब जेसी-489786एक्स), 06 नवम्बर 2005
- हवलदार सबर जीत सिंह (सं. 3184519डब्ल्यू अब जेसी-489787ए), 01 फरवरी 2006

हवलदार जगबीर सिंह (सं. 3176563एल अब जेसी-489788एच),
01 फरवरी 2006

हवलदार थान सिंह (सं. 3179668ए अब जेसी-489789एल),
01 फरवरी 2006

हवलदार सुखबीर (सं. 3177571डब्ल्यू अब जेसी-489790ए),
01 फरवरी 2006

हवलदार कुलदीप (सं. 3186724डब्ल्यू अब जेसी-489791एच),
01 फरवरी 2006

हवलदार राम निवास (सं. 3176961एम अब जेसी-489792एल),
01 नवम्बर 2005

हवलदार सत्यबीर (सं. 3178766एन अब जेसी-489793एन), 01
नवम्बर 2005

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3177014एक्स अब जेसी-489794डब्ल्यू),
01 फरवरी 2006

हवलदार सत्यवीर सिंह (सं. 3183004के अब जेसी-489795वाई),
01 फरवरी 2006

हवलदार रोहितासव नेहरा (सं. 3177241एक्स अब जेसी-489796एफ),
17 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार लिखमा राम (सं. 3176255एल अब जेसी-489797के),
06 नवम्बर 2005

हवलदार राजन कुमार (सं. 3191973वाई अब जेसी-489798एम),
16 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 3185051ए अब जेसी-489799पी),
01 मार्च 2006

हवलदार अजीत सिंह (सं. 3183443पी अब जेसी-489800वाई),
01 मार्च 2006

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 3179240एन अब जेसी-489801एफ), 01
मार्च 2006

हवलदार बलराम (सं. 3177110एम अब जेसी-489802के), 01 मार्च
2006

हवलदार अमर सिंह (सं. 3178591डब्ल्यू अब जेसी-489803एम),
01 मार्च 2006

हवलदार रामेश्वर लाल जाट (सं. 3178142एफ अब
जेसी-489804पी), 29 जनवरी 2006

हवलदार रमेश चन्द (सं. 3178180एक्स अब जेसी-489805एक्स),
29 जनवरी 2006

हवलदार राम पाल (सं. 3178921के अब जेसी-489806ए),
29 जनवरी 2006

हवलदार राम निवास सोलंकी (सं. 3182294ए अब जेसी-489807एच),
29 जनवरी 2006

हवलदार परतू राम (सं. 3179594डब्ल्यू अब जेसी-489808एल),
29 जनवरी 2006

हवलदार जय सिंह (सं. 3179602के अब जेसी-489809एन),
01 मार्च 2006

5 जी आर (एफ एफ)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार तारा पति पौडल (सं. 5450290एफअब जेसी-617767ए),
28 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार लाल बहादुर राणा (सं. 5448928के अब जेसी-617775वाई),
13 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार तिल बहादुर थापा (सं. 5448971एल अब
जेसी-617776एफ), 13 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार देव बहादुर थापा (सं. 5449928डब्ल्यू अब जेसी-617777के),
09 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अनिल कुमार राणा (सं. 5449040एन अब जेसी-617779पी),
05 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार याम बहादुर राणा (सं. 5450067एक्स अब जेसी-617780के),
13 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जित बहादुर मल्ल (सं. 5449451एम अब जेसी-617751पी),
01 सितम्बर 2005

हवलदार नीर शमसेर गुरूंग (सं. 5449220डब्ल्यू अब जेसी-617753ए),
25 सितम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 16 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार कमल बहादुर प्रधान (सं. 5449353एम अब
जेसी-617754एच), 25 सितम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार याम बहादुर गुरुंग (सं. 5449624वाई अब जेसी-617755एल),
20 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अम्मीर सिंह थापा (सं. 5449981एफ अब
जेसी-617756एन), 06 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार दधि राम कंडेल (सं. 5450293पी अब जेसी-617768एच),
28 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार कुल बहादुर श्रेष्ठ (सं. 5450311एम अब
जेसी-617769एल), 28 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार टिका राम पुन (सं. 5450370वाई अब जेसी-617770ए),
28 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हुम बहादुर थापा (सं. 5450326पी अब जेसी-617771एच),
28 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बल बहादुर गुरुंग (सं. 5450419के अब जेसी-617772एल),
28 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार भक्त बहादुर गुरुंग (सं. 5449573डब्ल्यू अब
जेसी-617762एफ), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार टेक बहादुर सिंह राणा (सं. 5751178ए अब जेसी-617763के),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार गंजा बहादुर गुरुंग (सं. 5449441एच अब
जेसी-617764एम), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार देव बहादुर मगर (सं. 5449828एल अब जेसी-617765पी),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार चंद्र बहादुर पुन (सं. 5449911एच अब
जेसी-617766एक्स), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार गंगा बहादुर थापा (सं. 5448842एल अब
जेसी-617757डब्ल्यू), 21 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जित बहादुर प्रधान (सं. 5449513एफ अब
जेसी-617758वाई), 01 नवम्बर 2005

हवलदार आनंद राम गुरुंग (सं. 5449548एक्स अब
जेसी-617759एफ), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार झलक बहादुर गुरुंग (सं. 5449462वाई अब
जेसी-617760डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार धल बहादुर राना (सं. 5449454ए अब जेसी-617761वाई),
20 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार/लिपिक (जीडी) के रैंक में

हवलदार/लिपिक दल बहादुर गुरुंग (सं. 5449686वाई अब
जेसी-617781एम), 01 मार्च 2006

हवलदार/लिपिक शशि कांत कुमार शर्मा (सं. 5449670एन अब
जेसी-617752एक्स), 01 सितम्बर 2005

हवलदार/लिपिक इर्शाद अहमद (सं. 5449878डब्ल्यू अब
जेसी-617774डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

हवलदार/लिपिक दिनेश कुमार यादव (सं. 5449884के अब
जेसी-617778एम), 01 जनवरी 2006

8 जी आर

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार बल बहादुर प्रधान (सं. 5751408एच अब जेसी-623661के),
12 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बन बहादुर पुन (सं. 5750530एम अब जेसी-623667एल),
01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रत्ना बहादुर राना (सं. 5750475पी अब जेसी-623670एल),
25 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ओम बहादुर थापा (सं. 5750623एफ अब जेसी-623671एन),
25 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार इंद्रा सिंह गुरुंग (सं. 5751538एल अब जेसी-623672डब्ल्यू),
25 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बीर बहादुर गुरुंग (सं. 5751223पी अब जेसी-623668एन),
09 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार टेल बहादुर राना (सं. 5750928पी अब जेसी-623643एफ),
06 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार डुबल सिंह आले (सं. 5751679ए अब जेसी-623644के),
06 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार धन बहादुर थापा (सं. 5751576एफ अब जेसी-623645एम),
15 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सन्त प्रसाद थापा (सं. 5751629पी अब जेसी-623646पी),
19 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मिन बहादुर आले मगर (सं. 5751762एक्स अब
जेसी-623647एक्स), 19 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रोम बहादुर राना (सं. 5750525एफ अब जेसी-623648ए),
17 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार दल बहादुर थापा (सं. 5750384एक्स अब
जेसी-623659एम), 09 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ढाका राम चपगौन (सं. 5751734एल अब जेसी-623665ए),
24 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गनेश बहादुर गुरुंग (सं. 5750781डब्ल्यू अब
जेसी-623660एफ), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार भुपाल गुरुंग (सं. 5751908ए अब जेसी-623662एम),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार गोबर्धन प्रधान (सं. 5750464पी अब जेसी-623663पी),
09 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राजेंद्र बहादुर श्रेष्ठ (सं. 5751935के अब जेसी-623666एच),
12 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लिपिक (जी डी) के रैंक में

हवलदार दल बहादुर गुरुंग (सं. 5751186वाई अब जेसी-623640एन),
21 सितम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सिर बहादुर बनिया (सं. 5752404वाई अब
जेसी-623641डब्ल्यू), 21 सितम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार/लिपिक तरुन चंद्र शर्मा (सं. 5750481पी अब
जेसी-623642वाई), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार जगत बहादुर थापा (सं. 5750587एफ अब
जेसी-623649एच), 17 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बिन बहादुर थापा (सं. 5751214एन अब जेसी-623650एक्स),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार गंगा बहादुर सारु (सं. 5752486एम अब जेसी-623651ए),
17 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पांडु कुमार थापा (सं. 5751235डब्ल्यू अब
जेसी-623652एच), 01 नवम्बर 2005

हवलदार चेत्र बहादुर थापा (सं. 5751429वाई अब जेसी-623654एन),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार नरेंद्र सिंह बिष्ट (सं. 5751444एन अब जेसी-623655डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार तारा बहादुर थापा, एस एम (सं. 5751936एम अब
जेसी-623664एक्स), 07 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार थोज बहादुर गुरुंग (सं. 5751552एक्स अब
जेसी-623656वाई), 01 नवम्बर 2005

हवलदार यू बहादुर राना (सं. 5750709ए अब जेसी-623657एफ),
26 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार/लिपिक शिओ मंगल सिंह यादव (सं. 5750521एल अब
जेसी-623658के), 12 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार तरलोक सिंह (जेसी-498066एक्स), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार दिदार सिंह (जेसी-498583पी), 01 फरवरी 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बिन्दर सिंह (जेसी-499324वाई), 01 दिसम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2004)

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-499109ए), 01 जनवरी 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005)

नायब सूबेदार गुरमेज सिंह (जेसी-499067एम), 19 जनवरी 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006)

नायब सूबेदार हरदीप सिंह (जेसी-499220एक्स), 23 जनवरी 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006)

नायब सूबेदार माखन सिंह (जेसी-499306डब्ल्यू), 18 जनवरी 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006)

नायब सूबेदार हरमिन्दर सिंह (जेसी-499272एन), 01 मार्च 2006

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क संजय प्रसाद सिंह (जेसी-499073ए), 01 मार्च
2006

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-498166एच), 10 दिसम्बर 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005)

सूबेदार सन्तोख सिंह (जेसी-498562वाई), 01 जनवरी 2006

सूबेदार नाहर सिंह (जेसी-498782एच), 01 जनवरी 2006

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क राजाभूषणन के ऐ (जेसी-498268वाई), 01 जनवरी
2006

सूबेदार क्लर्क राज बहादुर ढाका (जेसी-498339पी), 01 जनवरी
2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-499158डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2005)

नायब सूबेदार दविन्दर सिंह (जेसी-499129एफ), 02 जनवरी 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005)

नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जेसी-499270एच), 21 दिसम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
16 अक्टूबर 2005)

नायब सूबेदार सलिनन्दर सिंह (जेसी-499279एक्स), 26 दिसम्बर
2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005)

नायब सूबेदार हरदेव सिंह (जेसी-499349एल), 31 दिसम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005)

नायब सूबेदार तरलोचन सिंह, एस एम (जेसी-499010डब्ल्यू),
03 जनवरी 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005)

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-499301एक्स), 17 जनवरी 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
28 दिसम्बर 2005)

सूबेदार (संगीतज्ञ) के रैंक में

नायब सूबेदार (संगीतज्ञ) लाल सिंह (जेसी-499184एक्स), 14
दिसम्बर 2005

[सूबेदार (संगीतज्ञ) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005]

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (आर टी) दलेर सिंह (जेसी-498343एक्स), 29 दिसम्बर
2005

[सूबेदार (आर टी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005]

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क ओम प्रकाश (जेसी-499070एम), 01 दिसम्बर
2005

(सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005)

नायब सूबेदार क्लर्क चन्द्रन के (जेसी-499071पी), 01 जनवरी 2006
नायब सूबेदार क्लर्क हरी शंकर ठाकुर (जेसी-499080डब्ल्यू),
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 3386856एन अब जेसी-499690एच),
15 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
28 दिसम्बर 2005)

हवलदार रूपिन्दर सिंह (सं. 3386199पी अब जेसी-499691एल),
24 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006)

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं. 3387960एन अब जेसी-499692एन),
27 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006)

हवलदार तरलोक सिंह (सं. 3386938डब्ल्यू अब जेसी-499693डब्ल्यू),
25 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
17 जनवरी 2006)

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं. 3387317के अब जेसी-499694वाई),
25 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
17 जनवरी 2006)

हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 3387496पी अब जेसी-499695एफ),
25 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
17 जनवरी 2006)

हवलदार अनूप सिंह (सं. 3387215एन अब जेसी-499696के),
01 मार्च 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क दक्षिणामूर्ती ई (सं. 3386621एफ अब
जेसी-499697एम), 16 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2006)

हवलदार क्लर्क शेलके पांडुरंग श्रीपति (सं. 4467182एक्स अब
जेसी-499698पी), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 3386831एफ अब जेसी-499673एच),
29 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
11 अगस्त 2005)

हवलदार हरबन्स सिंह (सं. 3386855एल अब जेसी-499674एल),
15 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005)

हवलदार राम सिंह (सं. 3387560एफ अब जेसी-499675एन),
09 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005)

हवलदार पूरन सिंह (सं. 3381287एफ अब जेसी-499676डब्ल्यू),
15 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3384537एच अब जेसी-499677वाई),
24 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005)

हवलदार प्रधान सिंह (सं. 3383824ए अब जेसी-499678एफ),
12 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
10 दिसम्बर 2005)

हवलदार पपिन्दर सिंह (सं. 3386643ए अब जेसी-499679के),
25 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क बिक्कर सिंह (सं. 3386244डब्ल्यू अब
जेसी-499680वाई), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भजन सिंह (सं. 3382625ए अब जेसी-499681एफ),
06 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005)

हवलदार राजा सिंह (सं. 3385979एन अब जेसी-499682के),
06 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005)

हवलदार अमरीक सिंह (सं. 3386042पी अब जेसी-499683एम),
11 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
08 अक्टूबर 2005)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 3386666एफ अब जेसी-499684पी),
06 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
14 अक्टूबर 2005)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3387224पी अब जेसी-499685एक्स),
23 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005)

हवलदार सरवन सिंह (सं. 3385756डब्ल्यू अब जेसी-499686ए),
26 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005)

हवलदार बिकर सिंह (सं. 3380285के अब जेसी-499687एच),
23 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006)

हवलदार मनजीत सिंह (सं. 3386844वाई अब जेसी-499688एल),
30 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006)

हवलदार मघर सिंह (सं. 3386906एन अब जेसी-499689एन),
19 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006)

मद्रास रेजीमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार आर बलरामन (जेसी-438060एम), 01 जनवरी 2006×

×(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार ए वासुदेवन (जेसी-438183वाई), 17 फरवरी 2006×

×(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार के उन्नीकृष्णन, एसएम (जेसी-438184एफ), 18 मार्च
2006

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क) थोमस बेनाडिक्ट (जेसी-438456डब्ल्यू), 17 मार्च
2006×

×(सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दिवाकरन ई (जेसी-439309ए), 06 मार्च 2006×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्रीकुमार एस (जेसी-439271एफ), 18 मार्च 2006×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

दि राजपूत रेजीमेंट

नायब सूबेदार लिपिक के रूप में

हवलदार लिपिक एस. यू. गोविंदाराजा शंकर (सं. 2984708एल अब
जेसी-479716एल), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार लिपिक आर. क्रिश्ना मूर्ति (सं. 2984711एल अब
जेसी-479717एन), 17 दिसम्बर 2005, ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से
वेतन तथा भत्ते पर प्रकाश डाले बिना।

हवलदार लिपिक बैसाख लाल (सं. 2984756एल अब
जेसी-479718डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

हवलदार लिपिक क्रिशन पाल (सं. 2984768ए अब
जेसी-479719वाई), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार लिपिक दशरथ कुमार साधुखान (सं. 2984861एफ अब
जेसी-479720एन), 01 जनवरी 2006

हवलदार लिपिक सुनील कुमार राय (सं. 2984872एन अब
जेसी-479721डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

हवलदार लिपिक लक्ष्मन प्रसाद (सं. 2984873डब्ल्यू अब
जेसी-479722वाई), 01 जनवरी 2006

हवलदार लिपिक करम सिंह कारकी (सं. 2984986वाई अब
जेसी-479723एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार लिपिक सुरेश सिंह (सं. 2985044पी अब
जेसी-479724के), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार के रूप में

हवलदार देवेन्द्र कुमार (सं. 2982395वाई अब जेसी-479725एम),
2005

हवलदार महावीर प्रसाद (सं. 2982979के अब जेसी-479726पी),
13 दिसम्बर 2005, ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से वेतन तथा भत्तों पर
प्रकाश डाले बिना।

हवलदार हरकेश गूजर (सं. 2982953पी अब जेसी-479727एक्स),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 2985109एक्स अब जेसी-479728ए),
15 अक्टूबर 2005

हवलदार धर्मबीर सिंह यादव (सं. 2981950पी अब
जेसी-479729एच), 01 नवम्बर 2005

हवलदार राकेश सिंह (सं. 2992374डब्ल्यू अब जेसी-479730एक्स), 22 नवम्बर 2005, ज्येष्ठता 02 नवम्बर 2005 से वेतन तथा भत्तों पर प्रकाश डाले बिना।

हवलदार ऋषि राज (सं. 2985704एफ अब जेसी-479731ए), 11 नवम्बर 2005

हवलदार उदय सिंह (सं. 2982102एच अब जेसी-479732एच), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार सत्यवीर (सं. 2982684एच अब जेसी-479733एल), 25 दिसम्बर 2005

हवलदार करन सिंह (सं. 2982653एन अब जेसी-479734एन), 25 दिसम्बर 2005

हवलदार बिशनु सिंह (सं. 2982654डब्ल्यू अब जेसी-479735डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

हवलदार बिरेन्द्र सिंह यादव (सं. 2982153डब्ल्यू अब जेसी-479736वाई), 01 जनवरी 2006

हवलदार परमेश्वर दीन (सं. 2983590एच अब जेसी-479737एफ), 01 जनवरी 2006

हवलदार भोज राज सिंह राठौर (सं. 2987078एफ अब जेसी-479738के), 01 जनवरी 2006

हवलदार छोटे खान (सं. 2982187के अब जेसी-479739एम), 01 जनवरी 2006

हवलदार राम प्रवेश सिंह (सं. 2983156एक्स अब जेसी-479740एफ), 08 जनवरी 2006

हवलदार बलवान सिंह (सं. 2981917वाई अब जेसी-479741के), 11 जनवरी 2006

हवलदार धर्म सिंह गूजर (सं. 2982374एच अब जेसी-479742एम), 14 जनवरी 2006

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 2983421एफ अब जेसी-479743पी), 18 जनवरी 2006

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 2989114ए अब जेसी-479744एक्स), 31 जनवरी 2006

हवलदार उपेन्द्र बहादुर सिंह (सं. 2983063एफ अब जेसी-479745ए), 01 फरवरी 2006

हवलदार यश पाल सिंह (सं. 2982486एच अब जेसी-479746एच), 01 फरवरी 2006

हवलदार जीत सिंह (सं. 2987115के अब जेसी-479747एल), 01 फरवरी 2006

हवलदार सुनील कुमार शर्मा (सं. 2990287के अब जेसी-479748एन), 01 फरवरी 2006

हवलदार गिरधारी सिंह (सं. 2983183ए अब जेसी-479749डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

हवलदार किशोर सिंह शेखावत (सं. 2985727एक्स अब जेसी-4797590एल), 01 फरवरी 2006

हवलदार हरकेश कुमार (सं. 2981359एफ अब जेसी-479751एन), 01 फरवरी 2006

हवलदार तसव्वर हुसैन (सं. 2982243एक्स अब जेसी-479752डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार अनिल कुमार (सं. 2983388पी अब जेसी-479753वाई), 01 मार्च 2006

मद्रास रेजीमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जोर्ज सीटी (जेसी-439142एफ), 05 दिसम्बर 2005×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हिल्लरी फर्नान्डेज ए (जेसी-439270वाई), 01 जनवरी 2006×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रवीन्द्र शिवप्पा अब्दुलपुर (जेसी-439255के), 12 जनवरी 2006×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुवर्नन वटक्कनमार वीटिल (जेसी-439026वाई), 05 दिसम्बर 2005×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार के आर गोपालन (जेसी-439091वाई), 16 दिसम्बर 2005×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार वाई मारुथी उमा महेश्वरा राव (जेसी-439103एच), 24 फरवरी 2006×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बी केसवन (जेसी-439130एम), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार जड्डू अप्पला राजू (जेसी-439239एम), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार सुरेन्द्रन वी (जेसी-439204डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार एन ससीधरन पिल्लै (जेसी-439181ए), 01 मार्च 2006

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) पी कृष्णा मूर्थी (जेसी-439030एफ),
01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) पी रवीन्द्र बाबू (जेसी-439053एच),
01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) साइरिमेश केवी (जेसी-439131पी),
01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) सदासिवन पीआर (जेसी-439132एक्स),
06 फरवरी 2006*

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार वी रामाकृष्णन (सं. 2591390एन अब जेसी- 439663पी),
18 जनवरी 2006*

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार नापन्दा सी सुब्रामनी (सं. 2590954वाई अब जेसी-
439657एफ), 01 नवम्बर 2005

हवलदार विजया कुमारन बीएस (सं. 2586471के अब जेसी-
439681एक्स), 02 दिसम्बर 2005

हवलदार ए चिन्ना चामी (सं. 8031498के अब जेसी- 439680पी),
01 जनवरी 2006

हवलदार राजेन्द्रन पिल्लै केबी (सं. 2588601ए अब जेसी-
439683एच), 01 जनवरी 2006

हवलदार जी बास्कर (सं. 2589380एल अब जेसी- 439685एन), 13
फरवरी 2006*

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार मुरलीधरन पीपी (सं. 2589588एन अब जेसी-
439686डब्ल्यू), 13 फरवरी 2006*

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राजन पिल्लै वी (सं. 2588757वाई अब जेसी- 439676एम),
22 दिसम्बर 2005*

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गोविन्दन कुलिन्ही (सं. 2589373पी अब जेसी- 439665ए),
12 दिसम्बर 2005*

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार डेविस एजे (सं. 2590217एक्स अब जेसी- 439668एन),
12 जनवरी 2006*

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अदुसुमल्ली राम बाबू (सं. 2589189के अब जेसी-
439671एन), 01 अगस्त 2005

हवलदार वी अबिरामन (सं. 2587223ए अब जेसी- 439677पी),
20 अगस्त 2005

हवलदार सुनील कुमार जीएस (सं. 2589392ए अब जेसी-
439678एक्स), 01 जनवरी 2006*

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पद्माकुमार वीबी (सं. 2588038वाई अब जेसी- 439679ए),
05 अक्टूबर 2005

गढ़वाल राइफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार काशी राम (सं. 4066099ए अब जेसी- 529969वाई),
01 नवम्बर 2006

हवलदार दिनेश सिंह (सं. 4065780एच अब जेसी- 529970एन),
22 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार मानवेन्द्र सिंह (सं. 4066551के अब जेसी- 529971डब्ल्यू),
21 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार हरीश चन्द्र ढोडियाल (सं. 4065676पी अब जेसी-
529972वाई), 25 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार केशर सिंह (सं. 4068684वाई अब जेसी- 529973एफ),
17 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार कलम सिंह (सं. 4067858एफ अब जेसी- 529974के),
27 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार पुष्कर सिंह (सं. 4067103के अब जेसी- 529975एम),
27 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार लाल सिंह (सं. 4065993डब्ल्यू अब जेसी- 529976पी),
01 फरवरी 2006

हवलदार खुशाल सिंह (सं. 4063128वाई अब जेसी- 529977एक्स),
17 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार खिलाप सिंह गरिया (सं. 4066041एच अब जेसी- 529978ए),
01 फरवरी 2006

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 4064895के अब जेसी- 529979एच),
01 फरवरी 2006

हवलदार शिशुपाल सिंह (सं. 4065855पी अब जेसी- 529980एक्स),
01 फरवरी 2006

हवलदार दलेब सिंह (सं. 4066901एल अब जेसी- 529981एम),
13 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 4066970एफ अब जेसी- 529982एच),
01 फरवरी 2006

हवलदार ज्ञान सिंह (सं. 4065373ए अब जेसी- 529983एल),
14 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार सोबन सिंह (सं. 4065515एम अब जेसी- 529984एन),
01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

रिक्कूट (धर्म शिक्षक) अम्बिका दत्त चतुर्वेदी (अब जेसी- 529577एल),
17 जुलाई 2004

रिक्कूट (धर्म शिक्षक) बिजेन्द्र प्रसाद पंत (अब जेसी- 529578एन),
17 जुलाई 2004

सिपाही बमदेव प्रसाद चमोली (अब जेसी- 1488629पी अब
जेसी-529985डब्ल्यू), 10 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अबल सिंह (सं. 4065081एक्स अब जेसी- 529952एल),
12 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार बचन सिंह (सं. 4065464के अब जेसी- 529953एन),
12 सितम्बर 2005

हवलदार सैन सिंह रावत (सं. 4064993के अब जेसी- 529954डब्ल्यू),
12 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार धर्म सिंह (सं. 4065132ए अब जेसी- 529955वाई),
31 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार काम सिंह (सं. 4063469के अब जेसी- 529956एफ),
12 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 4065915वाई अब जेसी- 529957के),
01 जनवरी 2006

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

नायब सूबेदार मनमोहन सिंह (जेसी- 508783एफ), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी- 508757ए), 19 मार्च 2005

नायब सूबेदार सुरिंदरपाल सिंह (जेसी- 508881एफ), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार जोगा सिंह (जेसी- 508945एफ), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार बिकर सिंह (जेसी- 509033पी), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी- 509034एक्स), 28 मई 2005

नायब सूबेदार गुरदियाल सिंह (जेसी- 509027एफ), 01 जून 2005

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी- 509001एम), 03 जून 2005

नायब सूबेदार चंद सिंह (जेसी- 509043वाई), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार बलविन्द्र सिंह (जेसी- 508802एफ), 18 जुलाई 2005

नायब सूबेदार दलबारा सिंह (जेसी- 509010एन), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी- 509019एच), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी- 509002पी), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार अजैब सिंह (जेसी- 509020एक्स), 04 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार करमजीत सिंह (जेसी- 508409वाई), 11 सितम्बर
2005

नायब सूबेदार गुरमुख सिंह (जेसी- 508855ए), 21 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार गुरमुख सिंह (जेसी- 508880वाई), 21 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी- 509004ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सवरनजीत सिंह (जेसी- 509006एल), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार तेजपाल सिंह (जेसी- 509049ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार दिदार सिंह (जेसी- 509063एम), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी- 509115एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार निरबैल सिंह (जेसी- 508453एच), 02 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार बेबर सिंह (जेसी- 508856एच), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रणजीत सिंह सेना मैडल (जेसी- 508906एच), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी- 508799एम), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार लखवीर सिंह (जेसी- 509021ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार चमन सिंह (जेसी- 509023एल), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी- 508677एच), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार गुरचरन सिंह (जेसी- 509039डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी- 509040एल), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राजीन्द्र सिंह (जेसी- 508680एच), 03 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार हरमेश सिंह (जेसी- 509841एन), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जसपाल सिंह (जेसी- 508936ए), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी- 508954एच), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जेसी- 508891एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 4464214के अब जेसी- 509315एन), 28 दिसम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मुख्तियार सिंह (सं. 4467425एक्स अब जेसी- 509316डब्ल्यू), 24 जनवरी 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जगतार सिंह (सं. 4464239डब्ल्यू अब जेसी- 509317वाई), 24 जनवरी 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार फरियाद सिंह (सं. 4463230पी अब जेसी- 509318एफ), 10 जनवरी 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुखमिंदर सिंह (सं. 2986338पी अब जेसी- 509321एफ), 02 जनवरी 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी.डी.) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) राम सरूप त्रिपाठी (सं. 4464579वाई अब जेसी- 509319के), 19 दिसम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) राजेन्द्र कुमार (सं. 4463300एच अब जेसी- 509320वाई), 29 दिसम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) राजेन्द्र सिंह (सं. 4465639पी अब जेसी- 509322के), 01 जनवरी 2006

हवलदार (क्लर्क) जय दयाल (सं. 4465767एम अब जेसी- 509323एम), 02 जनवरी 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं. 4465982एक्स अब जेसी- 509324पी), 31 दिसम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हरवंश सिंह (सं. 4465435एच अब जेसी- 509325एक्स), 21 जनवरी 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जगशीर सिंह (सं. 4467373एम अब जेसी- 509326ए), 19 जनवरी 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हरमेश सिंह (सं. 4467374पी अब जेसी- 509327एच), 19 जनवरी 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 4468572एम अब जेसी- 509328एल), 28 जनवरी 2006×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गुरवचन सिंह (सं. 4469328वाई अब जेसी- 509329एन),
21 जनवरी 2006*

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार नविंदर सिंह (सं. 4463815एच अब जेसी- 509330एच),
22 जनवरी 2006*

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी.डी.) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) सत्या नारायण (सं. 4465766के अब जेसी-
509331एल), 07 जनवरी 2006*

×(नायब सूबेदार (क्लर्क जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) दीपक मजूमदार (सं. 4465779एफ अब जेसी-
509332एन), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार गुरसेवक सिंह सेना मैडल (सं. 4467458एच अब जेसी-
509310पी), 15 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 06 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 4464686ए अब जेसी- 509313एन),
06 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जगजीत सिंह (सं. 4465352एक्स अब जेसी- 509314एल),
19 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (म्यूजीशियन) के रैंक में

हवलदार (म्यूजीशियन) गुरदेव सिंह (सं. 4463343एक्स अब जेसी-
509311एक्स) 19 अक्टूबर, 2005*

*(नायब सूबेदार (म्यूजीशियन) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी.डी.) के रैंक में

हवलदार(क्लर्क) सतबीर सिंह (सं. 4464375एम अब जेसी-
509312ए), 15 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार (क्लर्क जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

दि राजपूत रैजीमेंट

सूबेदार मेजर लिपिक के रूप में

सूबेदार मेजर लिपिक दधीचि राय (जेसी-478318एक्स), 01 जनवरी
2006

सूबेदार मेजर के रूप में

सूबेदार मेजर असागर हुसैन (जेसी-478400एन), 02 अक्टूबर 2005

सूबेदार मेजर सतीश चन्द (जेसी-478518एन), 02 नवम्बर 2005

सूबेदार मेजर बीर सिंह चौहान (जेसी-478789एल), 10 नवम्बर 2005

सूबेदार मेजर धन राज (जेसी-478271एक्स), 14 जनवरी 2006

सूबेदार मेजर भारत सिंह (जेसी-478668के), 18 जनवरी 2006

सूबेदार मेजर धन सिंह (जेसी-478089एक्स), 20 जनवरी 2006

सूबेदार लिपिक के रूप में

सूबेदार लिपिक पाटिल संजय बाबु राव (जेसी-478934एक्स),
01 अक्टूबर 2005

सूबेदार लिपिक हरजिन्दर सिंह (जेसी-478935ए), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार लिपिक राज किशोर सिंह (जेसी-478980एम), 01 दिसम्बर
2005

सूबेदार लिपिक राम स्वरूप (जेसी-478981पी), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार लिपिक महाबीर सिंह (जेसी-478982एक्स), 01 जनवरी 2006

सूबेदार लिपिक श्री क्रिशन (जेसी-478983ए), 01 फरवरी 2006

सूबेदार लिपिक ओम सिंह भाटी (जेसी-479058एक्स), 01 मार्च 2006

सूबेदार के रूप में

सूबेदार तभ्राधबज (जेसी-479096ए), 01 जनवरी 2005

सूबेदार हरबीर सिंह (जेसी-479136डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

सूबेदार प्रभा शंकर शुक्ल (जेसी-479242पी), 01 जनवरी 2006

सूबेदार ब्रिज मोहन (जेसी-479218वाई), 11 जनवरी 2006

सूबेदार विजय कुमार सिंह (जेसी-479154एक्स), 01 फरवरी 2006

सूबेदार राम फल (जेसी-478869एच), 30 अप्रैल 2005

सूबेदार नरेश चन्द शर्मा (जेसी-478914एम), 02 मई 2005

सूबेदार रोहिताश्व वर्मा (जेसी-478966ए), 01 जून 2005

सूबेदार सरमन सिंह (जेसी-479016एक्स), 01 जुलाई 2005

सूबेदार ओमकार सिंह (जेसी-479146ए), 01 जुलाई 2005

सूबेदार गुमान सिंह (जेसी-479221वाई), 01 जुलाई 2005

सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-479305एम), 26 जुलाई 2005

सूबेदार पाला राम (जेसी-478988वाई), 01 अगस्त 2005

सूबेदार उदय भान सिंह (जेसी-479222एफ), 01 अगस्त 2005

सूबेदार उदय सिंह (जेसी-479258ए), 01 अगस्त 2005	हवलदार गबर सिंह (सं. 4064966ए अब जेसी-529942एफ), 19 सितम्बर 2005
सूबेदार मन्यत राम गूजर (जेसी-479274एक्स), 01 अगस्त 2005	हवलदार डूँगर राम (सं. 4066133पी अब जेसी-529943ए), 01 अक्टूबर 2005
सूबेदार उदय राम (जेसी-479279डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005	हवलदार सतीश चन्द्र (सं. 4067301पी अब जेसी-529944एम), 05 दिसम्बर 2005*
सूबेदार रोहताश सिंह (जेसी-479328एन), 01 अगस्त 2005	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)
सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-479181एफ), 01 सितम्बर 2005	हवलदार धनपाल सिंह (सं. 4066707डब्ल्यू अब जेसी-529945पी), 31 अक्टूबर 2005*
सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-479193एक्स), 01 सितम्बर 2005	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)
सूबेदार अवधेश कुमार सिंह (जेसी-479201एल), 01 सितम्बर 2005	हवलदार सुन्दर सिंह (सं. 4065349के अब जेसी-529946एक्स), 01 अक्टूबर 2005
सूबेदार राम कुमार सिंह भदौरिया (जेसी-479224एम), 01 सितम्बर 2005	हवलदार बलबीर सिंह (सं. 4065921एम अब जेसी-529948एच), 01 नवम्बर 2005
सूबेदार बलबीर सिंह राजपूत (जेसी-479321के), 01 सितम्बर 2005	हवलदार भागवत सिंह (सं. 4065721डब्ल्यू अब जेसी-529949एल), 01 नवम्बर 2005
सूबेदार बिशन सिंह (जेसी-479297वाई), 01 सितम्बर 2005	हवलदार गिरीश चन्द्र सिंह (सं. 4065331एन अब जेसी-529950ए), 17 नवम्बर 2005*
सूबेदार रनवीर सिंह (जेसी-479161पी), 01 अक्टूबर 2005	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)
सूबेदार शिव हरी गूजर (जेसी-479236एफ), 01 अक्टूबर 2005	हवलदार गुमान सिंह, सेना मैडल (सं. 4065499ए अब जेसी-529951एच), 07 दिसम्बर 2005*
सूबेदार शिव दिनेशवर सिंह (जेसी-479381वाई), 01 अक्टूबर 2005	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)
सूबेदार शिव शंकर सिंह (जेसी-479061के), 03 अक्टूबर 2005	नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में
सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-479122डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005	हवलदार (लिपिक) बलदेव सिंह (सं. 3383336एक्स अब जेसी-529947ए), 12 नवम्बर 2005*
सूबेदार किशोर कुमार (जेसी-479147एच), 01 नवम्बर 2005	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)
सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-479298एफ), 01 नवम्बर 2005	नायब सूबेदार के रैंक में
सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-479062एन), 01 दिसम्बर 2005	हवलदार मान सिंह (सं. 4061725पी अब जेसी-529958एम), 01 जनवरी 2006*
सूबेदार भीषम सिंह (जेसी-479062एम), 01 दिसम्बर 2005	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)
सूबेदार सालिक प्रसाद (जेसी-479071एन), 01 दिसम्बर 2005	हवलदार मान सिंह (सं. 4065913एन अब जेसी-529959पी), 01 जनवरी 2006*
सूबेदार ओम पाल सिंह (जेसी-479144पी), 01 दिसम्बर 2005	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)
सूबेदार जगत सिंह भाटी (जेसी-479148एल), 01 दिसम्बर 2005	
सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-479351एफ), 01 दिसम्बर 2005	
सूबेदार लखी राम (जेसी-479141एफ), 11 जनवरी 2006	
गढ़वाल राइफल्स	
नायब सूबेदार के रैंक में	
हवलदार ताजबर सिंह (सं. 4064030एक्स अब जेसी-529939एफ), 01 दिसम्बर 2005*	
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)	
हवलदार राजमोहन सिंह (सं. 4066860एम अब जेसी-529940डब्ल्यू), 05 जुलाई 2005	
हवलदार मनजीत सिंह (सं. 4067428एक्स अब जेसी-529941वाई), 02 नवम्बर 2005*	
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अगस्त 2005 से दी जायेगी)	

हवलदार भजन सिंह (सं. 4066044डब्ल्यू अब जेसी-529961एम),
01 जनवरी 2006

हवलदार हीरा सिंह, सेना मैडल (सं. 4066298एन अब जेसी-
529962पी), 01 जनवरी 2006

हवलदार धर्मेन्द्र सिंह (सं. 4066652एक्स अब जेसी-529963एच),
16 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार ज्योति प्रकाश (सं. 4066124एन अब जेसी- 529964ए),
01 जनवरी 2006

हवलदार सुन्दर सिंह चौहान (सं. 4066917डब्ल्यू अब जेसी-
529965एच), 01 जनवरी 2006

हवलदार हरीश चन्द्र (सं. 4065868एम अब जेसी- 529966एल),
20 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार उज्ज्वल सिंह (सं. 4067986वाई अब जेसी-529987एन),
01 जनवरी 2006

हवलदार कुन्दन सिंह (सं. 4067837एल अब जेसी-529968डब्ल्यू),
07 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) कृष्ण पाल (सं. 4062788के अब जेसी-
529960के), 01 जनवरी 2006

महार रेजीमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सलिक राम नपित (जेसी-225856ए), 01 जून 2005

सूबेदार सुभाष दत्त होनमारे (जेसी-568164एक्स), 07 जुलाई 2005
@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

सूबेदार पिताबसा महापात्रा (जेसी-568056एन), 16 अगस्त 2005
@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005)

सूबेदार नैन सिंह (जेसी-568144के), 03 अगस्त 2005
@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005)

सूबेदार चन्दन सिंह (जेसी-568076एफ), 01 अगस्त 2005

सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-568145एम), 01 अगस्त 2005

सूबेदार सत्ते सिंह (जेसी-568019ए), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार करमबीर सिंह (जेसी-568275पी), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार भीम सिंह गुर्जर (जेसी-211309ए), 01 जनवरी 2004

सूबेदार हरमीत सिंह (जेसी-211289एक्स), 17 फरवरी 2004@
@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004)

सूबेदार अतनु कुमार मित्रा (जेसी-203819एम), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार गोपाल सिंह गौत्रा (जेसी-203832डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार करतार सिंह (जेसी-208433डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-216937वाई), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार साठे जग्गू चन्द्रू (जेसी-568323के), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार चौकरी देव गम (जेसी-568121एच), 13 दिसम्बर 2004@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004)

सूबेदार डेडे वसन्त काशीनाथ (जेसी-218075के), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार बाबू लाल (जेसी-224588पी), 06 दिसम्बर 2004@@@

@@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004)

सूबेदार सुनील कुमार बख्ता (जेसी-224465एच), 20 दिसम्बर 2004#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004)

सूबेदार गनेश प्रसाद उरमिला (जेसी-224293वाई), 01 जनवरी 2005##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004)

सूबेदार मदन लाल (जेसी-568143एफ), 07 अप्रैल 2005###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005)

सूबेदार धेन्डे मानिक नाना (जेसी-568163पी), 02 मई 2005\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005)

सूबेदार कुरदा राम खेदर (जेसी-568223वाई), 01 मई 2005

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चन्दन सिंह (जेसी-569052के), 13 अक्टूबर 2004@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2004)

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-569196एम), 01 अक्टूबर 2004

नयाब सूबेदार राम फल (जेसी-569147के), 02 मार्च 2005@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005)

नायब सूबेदार काम्बले गंगाराम गनपति (जेसी-569158डब्ल्यू),
31 मार्च 2005@@@

@@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005)

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-569202पी), 11 मार्च 2005#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005)

नायब सूबेदार गोबिन्द सिंह (जेसी-569209वाई), 06 मार्च 2005##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005)

नायब सूबेदार पुरूषोत्तम चन्द (जेसी-569245के), 16 मार्च 2005### ###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005)	नायब सूबेदार अवधेष सिंह (जेसी-569164के), 02 मई 2005** **(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 15 अप्रैल 2005)
नायब सूबेदार खैरात बाबा साहेब प्रहलाद (जेसी-569223एल), 19 अप्रैल 2005\$ \$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005)	नायब सूबेदार मदन मोहन (जेसी-569165एम), 15 अप्रैल 2005 नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-569128वाई), 07 मई 2005*** ***(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 25 अप्रैल 2005)
नायब सूबेदार जाधव अजबराव तुकाराम (जेसी-569233पी), 01 मार्च 2005 नायब सूबेदार प्रकाश कुरूजी जाधव (जेसी-569345पी), 13 मार्च 2005\$\$ \$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005)	नायब सूबेदार तारा चन्द (जेसी-569102के), 01 मई 2005 नायब सूबेदार मसके लक्ष्मण वीमबकराव (जेसी-569159वाई), 27 जून 2005@ @(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005)
नायब सूबेदार राम नारायण रथ (जेसी-568995डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005 नायब सूबेदार शिव हरि (जेसी-569100वाई), 18 अप्रैल 2005\$\$\$ \$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005)	नायब सूबेदार बनसोड प्रहलाद लक्ष्मण (जेसी-569278पी), 03 मई 2005@@ @@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005)
नायब सूबेदार देवाकुले बाबासाहेब अकरम (जेसी-569155एच), 15 मई 2005% %(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005)	नायब सूबेदार पुरन चन्द्र (जेसी-569357के), 01 मई 2005 नायब सूबेदार धन देव (जेसी-569247पी), 18 अगस्त 2005@@@ @@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005)
नायब सूबेदार लाखन सिंह तौमर (जेसी-569172एच), 01 अप्रैल 2005 नायब सूबेदार बिरेंद्र सिंह गुसाई (जेसी-569293के), 01 अप्रैल 2005 नायब सूबेदार रघुवर दत्त (जेसी-569298एच), 01 अप्रैल 2005 नायब सूबेदार हरि बाहदुर गुरूंग (जेसी-569299एल), 20 अप्रैल 2005%% %%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005)	नायब सूबेदार महादेव गणेश गायकवाड (जेसी-569103एम), 02 जुलाई 2005@ @बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005।
नायब सूबेदार वानखेडे सियोदास गनपत (जेसी-569237एल), 04 अप्रैल 2005%% %%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005)	नायब सूबेदार हिरा लाल गुजर (जेसी-569104पी), 01 जून 2005 नायब सूबेदार धूप सिंह (जेसी-569085पी), 01 जून 2005 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-569125एल), 01 जून 2005 नायब सूबेदार बालू राम गुर्जर (जेसी-569134एम), 18 जुलाई 2005@@ @@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005।
नायब सूबेदार गोवरधन महादेव राव मोहोद (जेसी-569261एफ), 04 अप्रैल 2005& &(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005)	नायब सूबेदार उत्तम गनपति उबाले (जेसी-569190एल), 16 जुलाई 2005@@@ @@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 24 जून 2005।
नायब सूबेदार मोहन चन्द्रा (जेसी-569355वाई), 20 अप्रैल 2005&& &&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005)	नायब सूबेदार जोशफ खेस (जेसी-569386वाई), 05 सितम्बर 2005# #बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 28 जून 2005।
नायब सूबेदार तरक नाथ दास (जेसी-569001डब्ल्यू), 09 मई 2005&& &&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 07 अप्रैल 2005)	नायब सूबेदार दिलिप राय (जेसी-569021के), 04 जुलाई 2005## ##बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005।
नायब सूबेदार प्रदीप रामगन गायकवाड (जेसी-569367एन), 07 अप्रैल 2005 नायब सूबेदार शंकर सिंह (जेसी-569054पी), 12 मई 2005* *(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 12 अप्रैल 2005)	नायब सूबेदार तारा चन्द (जेसी-569077डब्ल्यू), 25 जुलाई 2005### ###बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005। नायब सूबेदार सीस राम (जेसी-569107एच), 01 जुलाई 2005 नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-569203एक्स), 29 जुलाई 2005\$ \$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005।

- नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-569340डब्ल्यू), 09 जुलाई 2005\$\$
 \$\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005।
- नायब सूबेदार आजाद सिंह (जेसी-569065एफ), 22 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार काम्वले दथानन्द बाबूराव (जेसी-569175डब्ल्यू),
 01 अगस्त 2005
- नायब सूबेदार राजेश काम्वले (जेसी-569176वाई), 01 अगस्त 2005
- नायब सूबेदार लोहाकरे दानेश्वर वीन्डिबा (जेसी-569194एफ),
 23 अगस्त 2005\$\$\$
- \$\$\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005।
- नायब सूबेदार सुन्दर राम (जेसी-569217एक्स), 01 अगस्त 2005
- नायब सूबेदार आनन्द सिंह मेहता (जेसी-569218ए), 01 अगस्त
 2005
- नायब सूबेदार बाबर दगडू सदाशिव (जेसी-569281पी), 06 अगस्त
 2005%
- %बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005।
- नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-569224एन), 13 अगस्त 2005%%
- %%बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005।
- नायब सूबेदार गुलाब सिंह (जेसी-569234एक्स), 01 अगस्त 2005
- नायब सूबेदार महाबीर सिंह, सेना मैडल (जेसी-569335एल),
 13 अगस्त 2005%%%
- %%%बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005।
- नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-569348एच), 12 अगस्त 2005&
 &बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005।
- नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-569181के), 08 अगस्त 2005
- नायब सूबेदार बिरेंद्र सिंह (जेसी-569192डब्ल्यू), 03 सितम्बर
 2005&&
- &&बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 अगस्त 2005।
- नायब सूबेदार के बैंक में
- हवलदार मुल्ख राज (सं. 4554075एम अब जेसी-569717पी),
 08 मार्च 2006@
- @बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 28 अक्टूबर 2005।
- हवलदार चेत राम (सं. 4553771एक्स अब जेसी-569718एक्स),
 21 जनवरी 2006@@
- @@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 जनवरी 2006।
- हवलदार राम स्वरूप (सं. 4555035एक्स अब जेसी-569719ए),
 01 जनवरी 2006
- हवलदार राम कृष्णा (सं. 4554536एल अब जेसी-569720पी),
 22 फरवरी 2006@@@
- @@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 29 जनवरी 2006।
- हवलदार रणजीत सिंह (सं. 4553602डब्ल्यू अब जेसी-569721एक्स),
 01 फरवरी 2006
- हवलदार राम सिंह चौहान (सं. 4553762डब्ल्यू अब जेसी-569722ए),
 01 फरवरी 2006
- हवलदार गुरभेज सिंह (सं. 4553492एम अब जेसी-569723एच),
 01 फरवरी 2006
- हवलदार धर्मन्द्र सिंह (सं. 4555515पी अब जेसी-569724एल),
 11 फरवरी 2006#
- #बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006।
- हवलदार कमल कुमार यादव (सं. 4555591एन अब
 जेसी-569725एन), 11 फरवरी 2006##
- ##बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006।
- हवलदार हरीश कुमार (सं. 4555811एम अब जेसी-569726डब्ल्यू),
 11 फरवरी 2006###
- ###बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006।
- हवलदार यश पाल सिंह (सं. 4555871एफ अब जेसी-569727वाई),
 11 फरवरी 2006\$
- \$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006।
- हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 4557433एक्स अब जेसी-569728एफ),
 01 फरवरी 2006
- हवलदार कैलाश चन्द्रा (सं. 4557625पी अब जेसी-569729के),
 01 फरवरी 2006
- हवलदार अजित सिंह (सं. 4554435एक्स अब जेसी-569730वाई),
 04 फरवरी 2006\$\$
- \$\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006।
- हवलदार शीश पाल (सं. 4554539वाई अब जेसी-569731एफ),
 03 मार्च 2006\$\$\$
- \$\$\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2006।
- हवलदार शीश राम (सं. 4553593ए अब जेसी-569696के),
 01 जनवरी 2006
- हवलदार रामा रतन (सं. 4555419एम अब जेसी-569677एम),
 03 जनवरी 2006@
- @बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006।
- हवलदार जितेंद्र राय (सं. 4554632ए अब जेसी-569698पी),
 01 जनवरी 2006

हवलदार बैजनाथ सिंह (सं. 4554238पी अब जेसी-569699एक्स),
01 जनवरी 2006

हवलदार नेमी चन्द (सं. 4553475एम अब जेसी-569700एफ),
02 जनवरी 2006@@

@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006।

हवलदार बलबन्त सिंह (सं. 4553481ए अब जेसी-569701के),
02 जनवरी 2006@@@

@@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006।

हवलदार सूनित सिंह (सं. 4557061एक्स अब जेसी-569702एम),
01 जनवरी 2006

हवलदार समुन्दर सिंह (सं. 4557353ए अब जेसी-569703पी),
08 जनवरी 2006#

#बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006।

हवलदार दरवान सिंह (सं. 4554368एक्स अब जेसी-569704एक्स),
02 जनवरी 2006##

##बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006।

हवलदार राम चन्द्र (सं. 4559260के अब जेसी-569705ए),
05 जनवरी 2006###

###बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006।

हवलदार पेमा राम (सं. 4559274के अब जेसी-569706एच),
05 जनवरी 2006\$

\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006।

हवलदार साले प्रकाश रोहिदास (सं. 4559141एन अब
जेसी-569677वाई), 20 सितम्बर 2005@

@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 07 अप्रैल 2005।

हवलदार लहाने रामदास दौलत राव (सं. 4559390एम अब
जेसी-569678एफ), 20 सितम्बर 2005@@

@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2005।

हवलदार हिम्मतराव पंडूरंग पैठाने (सं. 4558662पी अब
जेसी-569679के), 08 नवम्बर 2005@@@

@@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005।

हवलदार रामधनी (सं. 4554734डब्ल्यू अब जेसी-569680वाई),
10 दिसम्बर 2005#

#बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005।

हवलदार रतनपाल सिंह (सं. 4554791एक्स अब जेसी-569681एफ),
02 सितम्बर 2005##

##बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 अगस्त 2005।

हवलदार सोलांकी अशोक तुकाराम (सं. 4557247एफ अब
जेसी-569682के), 01 नवम्बर 2005

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 8031463एन अब जेसी-569683एम),
17 नवम्बर 2005###

###बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005।

हवलदार गोबिन्द सिंह (सं. 4554168एफ अब जेसी-569684पी),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार खैम सिंह (सं. 4554528एम अब जेसी-569685एक्स),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार गुरुमीत सिंह (सं. 4554619डब्ल्यू अब जेसी-569686ए),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार हजारी सिंह (सं. 2983754एन अब जेसी-569687एच),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार देवीन्दर चन्द (सं. 4554868पी अब जेसी-569688एल),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार सरबेसवर भोई (सं. 4554770एफ अब जेसी-569689एन),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार बाल किशन (सं. 4556943एम अब जेसी-569690एच),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार भूपाल सिंह बोरा (सं. 4557063एच अब जेसी-569691एल),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार चौधरी प्रदीप कुमार दास (सं. 4554121डब्ल्यू अब
जेसी-569653पी), 02 सितम्बर 2005@

@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005।

हवलदार चैन सिंह (सं. 4554686एफ अब जेसी-569654एक्स),
02 सितम्बर 2005@@

@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005।

हवलदार उमराव सिंह (सं. 4554577पी अब जेसी-569655ए),
13 सितम्बर 2005@@@

@@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005।

हवलदार प्रकाश सतवा सरोडे (सं. 4558007डब्ल्यू अब
जेसी-569656एच), 01 सितम्बर 2005#

#बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 10 जुलाई 2005।

हवलदार जगबीर सिंह (सं. 4554578एक्स अब जेसी-569657एल),
02 सितम्बर 2005##

##बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 अगस्त 2005।

हवलदार गायकचाड मरोहर रांकर (सं. 4554598एल अब
जेसी-569658एन), 29 सितम्बर 2005###

###बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 18 अगस्त 2005।

हवलदार राजन लाल (सं. 4556788डब्ल्यू अब जेसी-569659डब्ल्यू),
29 सितम्बर 2005\$

\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 18 अगस्त 2005।

हवलदार जाधव शरद आन्नदा (सं. 4558334एफ अब जेसी-569660एल), 21 सितम्बर 2005\$\$

\$\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2005।

हवलदार रोपुसा भरत कुमार लक्ष्मन भाई (सं. 4554523एन अब जेसी-569661एन), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार जतेश्वर भूर्इयां (सं. 4554650एच अब जेसी-569662डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार देवरे बालासाहेब जनारदन (सं. 4556880पी अब जेसी-569663वाई), 16 अक्टूबर 2005%

%बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005।

हवलदार रामवीर सिंह (सं. 4554467ए अब जेसी-569664एफ), 21 अक्टूबर 2005%%

%%बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005।

हवलदार लोखंडे दीपक शंकर (सं. 4560931पी अब जेसी-569665के), 06 अक्टूबर 2005%%%

%%%बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005।

हवलदार राज कुमार शर्मा (सं. 4557198के अब जेसी-569707एल), 09 जनवरी 2006

बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005।

हवलदार त्याडे मानिक दौलत (सं. 4559229एक्स अब जेसी-569708एन), 11 जनवरी 2006@

@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005।

हवलदार पालेकर अरुण लक्ष्मन (सं. 4558715एच अब जेसी-569709डब्ल्यू), 09 जनवरी 2006@@

@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006।

हवलदार रमेश चन्द (सं. 4553601एन अब जेसी-569710एल), 01 जनवरी 2006

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 4554679एल अब जेसी-569711एन), 30 जनवरी 2006@@@

@@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006।

हवलदार गुलजार सिंह (सं. 4554707एम अब जेसी-569712डब्ल्यू), 18 जनवरी 2006#

#बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006।

हवलदार अजित सिंह (सं. 4554709एक्स अब जेसी-569713वाई), 18 जनवरी 2006##

##बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006।

हवलदार अनिल कुमार सिंह (सं. 2983437एम अब जेसी-569714एफ), 01 जनवरी 2006

हवलदार पटेल वेलजी अमर जी (सं. 4555632एम अब जेसी-569715के), 01 जनवरी 2006##

हवलदार कमलेश वन्सि लाल (सं. 4556150के अब जेसी-569716एम), 01 जनवरी 2006###

पैराशूट रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार पूरना राम (जेसी-412184के), 01 जून 2005

सूबेदार कमल किशोर बहरा (जेसी-412100एल), 01 जुलाई 2005

सूबेदार हनुमाना राम (जेसी-412204एम), 01 जुलाई 2005

सूबेदार अर्जुन सिंह (जेसी-412079एन), 01 जुलाई 2005

सूबेदार शेर बहादुर सिंह (जेसी-412206एक्स), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार खीम सिंह (जेसी-412088पी), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्यार सिंह (जेसी-412775एल), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-412795वाई), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राम किशन (जेसी-412707एक्स), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार विनय चौहान (जेसी-412609एक्स), 04 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राजबीर, एस. सी. (जेसी-412642के), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार मुल्ख राज (जेसी-412661ए), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-412640के), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार सुरेश चन्दर (जेसी-412621वाई), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार तुशार कान्ति महान्ती (जेसी-412622एफ), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार भजन लाल (जेसी-412722एम), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गोपाल दत्त पंत (सं. 13614733एफ अब जेसी-413023एन), 18 सितम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005)

हवलदार सत्यावीर सिंह (नं. 13616592डब्ल्यू अब जेसी-413024डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

हवलदार सुखदेव राज (नं. 13617127डब्ल्यू अब जेसी-413025वाई), 04 नवम्बर 2005

हवलदार राजेन्द्रा सिंह (सं. 13617225डब्ल्यू अब जेसी-413026एफ), 12 दिसम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005)

- हवलदार दलवीर सिंह (सं. 13616187वाई अब जेसी-413027के),
01 दिसम्बर 2005*
- *(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005)
- हवलदार गुलशन कुमार (सं. 13616626वाई अब जेसी-413038एम),
26 दिसम्बर 2005*
- *(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 नवम्बर 2005)
- हवलदार गुमान सिंह (सं. 1069470पी अब जेसी-413029पी),
24 नवम्बर 2005
- हवलदार महेश कुमार (सं. 3179620एम अब जेसी-413030के),
01 दिसम्बर 2005
- हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 3386857डब्ल्यू अब जेसी-413031एम),
31 दिसम्बर 2005
- हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 13614988एफ अब जेसी-413032पी),
01 नवम्बर 2005
- हवलदार कुबीर क्षेत्री (सं. 13615108एन अब जेसी-413033एकर),
01 नवम्बर 2005
- हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 13615523एन अब जेसी-413034ए),
12 अक्टूबर 2005
- हवलदार पुराकर दस्त (सं. 13616208के अब जेसी-413035एच),
30 नवम्बर 2005*
- *(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 नवम्बर 2005)
- हवलदार हुकम सिंह पुन (सं. 13615394वाई अब जेसी-413042वाई),
01 फरवरी 2006**
- ** (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006)
- हवलदार जीत सिंह फरत्याल (सं. 13615714एच अब जेसी
413043एफ), 01 फरवरी 2006**
- ** (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006)
- हवलदार जंग बहादुर थापा (सं. 13615792ए अब जेसी-413044के),
01 फरवरी 2006
- हवलदार अर्जुन बहादुर थापा (सं. 13616843पी अब
जेसी-413045एम), 20 फरवरी 2006**
- ** (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005)
- हवलदार रविन्दर कुमार (सं. 3985786एल अब जेसी-413046पी),
01 फरवरी 2006
- हवलदार योगेन्द्र सिंह रायौर (सं. 13615764एन अब जेसी
413036एन), 28 अक्टूबर 2005*
- *(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005)
- हवलदार राजिन्दर कुमार (सं. 13616831ए अब जेसी-413037एन),
01 जनवरी 2006
- हवलदार काली कुमारा अर्जुन (सं. 13616547एच अब
जेसी-413038डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005
- हवलदार गमोला राम (सं. 13616636एच अब जेसी-413039वाई),
09 नवम्बर 2005
- हवलदार शिव पाल सिंह (सं. 13616654एल अब जेसी-413940एन),
01 जनवरी 2006
- हवलदार परशु कुमार (सं. 13616211के अब जेसी-413041डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2005
- 11 जी. आर.
सूबेदार गंजक के रैंक में
- सूबेदार विनेश कुमार राई (जेसी-634022एच), 01 अक्टूबर 2005
- सूबेदार किरन लामा (जेसी-218097एन), 01 नवम्बर 2005
- सूबेदार चंदा बहादुर सुब्बा (जेसी-634033पी), 01 नवम्बर 2005
- सूबेदार लक्ष्मण राई (जेसी-634060वाई), 01 नवम्बर 2005
- सूबेदार राम कुमार सिन्धू (जेसी-634064पी), 01 जनवरी 2006
- नायब सूबेदार राम बहादुर सुब्बा (जेसी-634509डब्ल्यू), 23 अप्रैल
2005
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005)
- नायब सूबेदार कर्ण बहादुर तामंग (जेसी-634452एम), 17 जुलाई
2005
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)
- नायब सूबेदार रत्ना थापा (जेसी-634529के), 01 अगस्त 2005
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)
- नायब सूबेदार/लिपिक एम एस अखतर (जेसी-634362एल),
01 अक्टूबर 2005
- नायब सूबेदार कपिल राई (जेसी-634531एफ), 27 अक्टूबर 2005
- (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005)
- नायब सूबेदार खोबा बहादुर राई (जेसी-634450एफ), 01 नवम्बर
2005
- नायब सूबेदार सुकबीर तामंग (जेसी-634451के), 01 नवम्बर 2005
- नायब सूबेदार/लिपिक अशोक कुमार गुप्ता (जेसी-634363एन),
01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार टंक राज राई (जेसी-634454एक्स), 01 नवम्बर 2005
नायब सूबेदार/लिपिक रामायण मिश्रा (जेसी-634364डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार महेन्द्र मान राई (जेसी-634394एन), 09 जनवरी 2006
(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दुर्गा बहादुर थापा (सं. 9417938एल अब जेसी
634672डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

हवलदार बिक्रम राई (सं. 9418032एफ अब जेसी-634673वाई),
01 जुलाई 2005

हवलदार बिनय राई (सं. 9417676ए अब जेसी-634674एफ),
01 जुलाई 2005

हवलदार प्रदीप कुमार राई (सं. 9419111एन अब जेसी-634675के),
01 जुलाई 2005

हवलदार गोपाल सिंह बिष्ट (सं. 9417524वाई अब जेसी-634676एम),
01 जुलाई 2005

हवलदार जीवन राई (सं. 9417733डब्ल्यू अब जेसी-634677पी),
12 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

हवलदार बुधा शेरपा (सं. 9418403के अब जेसी-634678एक्स),
07 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

हवलदार चंद्र प्रसाद लिम्बू (सं. 9417961वाई अब जेसी-634679ए),
12 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

हवलदार देव प्रकाश लिम्बू (सं. 9419657एन अब जेसी-634680पी),
01 जुलाई 2005

हवलदार टीका मान चामलिंग (सं. 9420047एन अब जेसी-
634681एक्स), 12 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

हवलदार बल राम सिंह लिम्बू (सं. 9417871एक्स अब जेसी-
634682ए), 12 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

हवलदार मनोज कुमार राई (सं. 9418406एक्स अब जेसी-
634683एच), 23 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

हवलदार तिलक बहादुर राई (सं. 9418381डब्ल्यू अब जेसी-
634684एल), 03 अगस्त 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

हवलदार राम बहादुर तमंग (सं. 9418387एक्स अब जेसी-
634685एन), 23 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

हवलदार असल कुमार लिम्बू सेना मेडल (सं. 9418472ए अब जेसी-
634686डब्ल्यू), 23 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

हवलदार भद्रन कुमार राई (सं. 9418478एफ अब जेसी-634687वाई),
31 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

हवलदार राम काजी राई (सं. 9418190एफ अब जेसी-634688एफ),
07 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

हवलदार पद्म बहादुर सुब्बा (सं. 9418185डब्ल्यू अब जेसी-
634689के), 01 अगस्त 2005

हवलदार राम कुमार मौक्तान (सं. 9417171के अब जेसी-
634690वाई), 01 अगस्त 2005

हवलदार गजेंद्र बहादुर लिम्बू (सं. 9418358एच अब जेसी-
634691एफ), 01 अगस्त 2005

हवलदार पद्म बहादुर राई (सं. 9419648एम अब जेसी-
634692के), 24 सितम्बर 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005)

हवलदार हिम बहादुर सुब्बा (सं. 9418417के अब जेसी-634693एम),
20 सितम्बर 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2005)

हवलदार/लिपिक मेवा लाल गुप्ता (सं. 9417978एम अब जेसी-
634694पी), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार पंच बहादुर राई (सं. 9420003डब्ल्यू अब जेसी-
634695एक्स), 13 अक्टूबर 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)

हवलदार नवीन राई (सं. 9418026वाई अब जेसी-634696ए),
28 जनवरी 2006

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार राम प्रसाद लिम्बू (सं. 9417391एन अब जेसी-634697एच), 24 अक्टूबर 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार तिलक बहादुर तमंग (सं. 9417438एन अब जेसी-634698एल), 03 नवम्बर 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार संजय कुमार राई (सं. 9419816ए अब जेसी-634699एन), 19 नवम्बर 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार/लिपिक सुबाश यादव (सं. 9417979पी अब जेसी-634700एक्स), 23 नवम्बर 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005)

हवलदार धर्गिंदर कुमार श्रेष्ठा (सं. 9417400के अब जेसी-634701ए), 01 नवम्बर 2005

हवलदार लोकेंद्र लिम्बू (सं. 9418144एम अब जेसी-634702एच), 01 नवम्बर 2005

हवलदार लोक बहादुर लिम्बू (सं. 9418378डब्ल्यू अब जेसी-634703एल), 01 नवम्बर 2005

हवलदार युव राज लिम्बू (सं. 9417991डब्ल्यू अब जेसी-634704एन), 28 नवम्बर 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 11 नवम्बर 2005)

हवलदार/लिपिक बच्चवा पाठक (सं. 9417988डब्ल्यू अब जेसी-634705डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार दिल कुमार लिम्बू (सं. 9417608एम अब जेसी-634706वाई), 23 जनवरी 2006

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005)

हवलदार बाजा हंग लिम्बू (सं. 9417953ए अब जेसी-634707एफ), 23 जनवरी 2006

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005)

हवलदार सुरेश कुमार पोखरेल (सं. 9417603एन अब जेसी-634708के), 13 फरवरी 2006

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005)

हवलदार बल बहादुर राई (सं. 9418022एच अब जेसी-634709एम), 03 दिसम्बर 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005)

हवलदार खडगा बहादुर राई (सं. 9420028एच अब जेसी-634710एफ), 24 दिसम्बर 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005)

हवलदार/लिपिक राधे श्याम सिंह (सं. 9417997एक्स अब जेसी-634711के), 01 जनवरी 2006

हवलदार नैना लाल राई (सं. 9418290एच अब जेसी-634712एम), 01 जनवरी 2006

हवलदार सुरेंद्र कुमार राई (सं. 9417211ए अब जेसी-634713पी), 01 जनवरी 2006

राजपूताना राईफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रोटान सिंह (जेसी-216791डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

सूबेदार शुभ करन सिंह (जेसी-468105डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

सूबेदार कुंजिल सिंह (जेसी-468088एफ), 01 अगस्त 2004

सूबेदार सत्य विजय सिंह राघव (जेसी-468097एच), 06 अगस्त 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-220733के), 15 अक्टूबर 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार सतवीर सिंह (जेसी-216785एच), 21 अक्टूबर 2004

सूबेदार भँवर लाल जाट (जेसी-468273पी), 16 नवम्बर 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार सुरेन्द्र सिंह राठौड (जेसी-468127पी), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार राम अवतार (जेसी-468089के), 11 दिसम्बर 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार ईश कुमार (जेसी-468340पी), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार राम रूप सिंह (जेसी-468092के), 18 मार्च 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार गिरवर सिंह शेखावत (जेसी-212575एल), 23 मार्च 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार लिपिक विजय सिंह (जेसी-468308ए), 01 मई 2005

सूबेदार लिपिक बलबीर सिंह (जेसी-468309एच), 01 मई 2005

सूबेदार जेन सिंह तोमर (जेसी-468096ए), 01 मई 2005

सूबेदार महावीर सिंह तँवर (जेसी-468228एच), 01 जून 2005	नायब सूबेदार के रैंक में
सूबेदार शरीफ खान (जेसी-208309पी), 01 जून 2005	हवलदार हदमान राम (सं. 2880257के अब जेसी-469845एक्स), 01 अक्तूबर 2005/01 सितम्बर 2005*
सूबेदार ग्यानी राम राठी (जेसी-468756एम), 01 जून 2005	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)
सूबेदार शंकर सिंह (जेसी-468524एन), 01 जून 2005	हवलदार रामधन लाल गुजर (सं. 2879921एम अब जेसी-469846ए), 01 अक्तूबर 2005
सूबेदार धनपत सिंह (जेसी-468327एल), 01 जून 2005	हवलदार राम बाबू (सं. 2879694एक्स अब जेसी-469847एच), 15 नवम्बर 2005/17 अक्तूबर 2005*
सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-226185एन), 02 जून 2005	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्तूबर 2005 से दी जायेगी)
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)	हवलदार सुभाश चंद (सं. 3988809एम अब जेसी-469848एल), 01 दिसम्बर 2005
सूबेदार गुगन सिंह (जेसी-468302वाई), 01 जुलाई 2005	हवलदार धर्मबीर सिंह (सं. 2880693एफ अब जेसी-469849एन), 21 दिसम्बर 2005
सूबेदार मंगली राम मलिक (जेसी-468329डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005	हवलदार क्लर्क नरेन्द्रपाल सिंह शाक्य (सं. 2881573पी अब जेसी-469850एच), 01 फरवरी 2006
सूबेदार ऋषि राज (जेसी-468488एन), 02 जुलाई 2005	हवलदार क्लर्क जगदीश सिंह (सं. 2881574एक्स अब जेसी-469851एल), 01 फरवरी 2006
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)	हवलदार भवानी सिंह (सं. 2879378वाई अब जेसी-469852एन), 01 फरवरी 2006
सूबेदार फजरू खान (जेसी-216783एक्स), 02 अगस्त 2005	हवलदार मो. असलम अंसारी (सं. 2882494एम अब जेसी-469835एन), 16 सितम्बर 2005/01 अगस्त 2005*
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)
सूबेदार नारायण सिंह राजपूत (जेसी-468023एन), 01 अगस्त 2005	हवलदार लाजपत सिंह (सं. 2879585एन अब जेसी-469836डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005
सूबेदार भँवर सिंह राठीड (जेसी-468111के), 08 अगस्त 2005	हवलदार रनबीर सिंह (सं. 2883714एक्स अब जेसी-469837वाई), 01 दिसम्बर 2005
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)	हवलदार हरपालसिंह (सं. 2879227ए अब जेसी-469838एफ), 01 दिसम्बर 2005
सूबेदार रेवत सिंह (जेसी-468125के), 06 अगस्त 2005	हवलदार महेश कुमार सिंह (सं. 2881033डब्ल्यू अब जेसी-469839के), 01 दिसम्बर 2005
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)	हवलदार अजीत सिंह (सं. 2881546एल अब जेसी-469840वाई), 01 दिसम्बर 2005
सूबेदार सूरज भान सिंह लाम्बा (जेसी-468251डब्ल्यू), 25 अक्तूबर 2005	हवलदार ब्रिजा नन्द सिंह (सं. 2884446एल अब जेसी-469841एफ), 01 दिसम्बर 2005
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)	हवलदार सर्फुद्दीन अहमद (सं. 2878850एक्स अब जेसी-469842के), 01 जनवरी 2006
सूबेदार जगदीश सिंह शेखावत (जेसी-468204वाई), 01 अक्तूबर 2005	
सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-468314एन), 01 अक्तूबर 2005	
सूबेदार हिम्मत सिंह (जेसी-468227ए), 01 अक्तूबर 2005	
सूबेदार प्रभु सिंह शेखावत (जेसी-468110एफ), 02 नवम्बर 2005	
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)	
सूबेदार भवानी सिंह शेखावत (जेसी-468306पी), 01 नवम्बर 2005	
सूबेदार छोटू लाल (जेसी-468853के), 01 नवम्बर 2005	
सूबेदार दीना राम, वी एस एम (जेसी-196204डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006	

हवलदार घनश्याम सिंह (सं. 2880205एन अब जेसी-469133एन),
01 जनवरी 2006

हवलदार जबर सिंह (सं. 2879352के अब जेसी-469844एन)
01 जनवरी 2006

2. चौ आर

नामक गुण्यदार के रैंक में

हवलदार एक बहादुर गुरंग (सं. 5043156ए अब जेसी-602634एन),
06 सितम्बर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2005)

हवलदार रिम बहादुर थापा (सं. 5043185पी अब जेसी-602635पी),
06 सितम्बर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2005)

हवलदार खडगा बहादुर थापा (सं. 5043414एम अब
जेसी-602636एक्स), 01 सितम्बर 2005

हवलदार हरशा बहादुर थापा (सं. 5043517एन अब जेसी-602637ए),
01 सितम्बर 2005

हवलदार मनजीत राना (सं. 5043674ए अब जेसी-602638एच),
01 सितम्बर 2005

हवलदार अरुण कुमार थापा (सं. 5043257एन अब
जेसी-602639एल), 06 सितम्बर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2005)

हवलदार चन्द्रा बहादुर थापा (सं. 5043275डब्ल्यू अब
जेसी-602640ए), 06 सितम्बर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2005)

हवलदार पदम बहादुर थापा (सं. 5043488के अब
जेसी-602641एच), 07 अक्टूबर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 20 सितम्बर 2005)

कम्पनी हवलदार मेजर वीरेंद्र बहादुर थापा (सं. 5043802एन अब
जेसी-602642एल), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार सुर्या बहादुर गुरंग (सं. 5043925वाई अब
जेसी-602643एन), 01 नवम्बर 2005

कम्पनी क्वार्टरमास्टर हवलदार खीम बहादुर थापा (सं. 5043940एन
अब जेसी-602644डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

हवलदार चौप बहादुर थापा (सं. 5043970एल अब
जेसी-602645वाई), 01 नवम्बर 2005

हवलदार बीशान बहादुर गुरंग (सं. 5043971एन अब
जेसी-602646एफ), 01 नवम्बर 2005

कम्पनी क्वार्टरमास्टर हवलदार राज कुमार प्रधान (सं. 5043241एच
अब जेसी-602647के), 07 नवम्बर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 11 सितम्बर 2005)

कम्पनी क्वार्टरमास्टर हवलदार लल्लु राम नर्मण (सं. 5043299एल
अब जेसी-602648एन), 02 जनवर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार हरि बहादुर गुरंग (सं. 5043486वाई अब जेसी-602649पी),
23 अक्टूबर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार लाल बहादुर गुरंग (सं. 5043504डब्ल्यू अब
जेसी-602650के), 14 नवम्बर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार मनोज कुमार श्रेष्ठा (सं. 5043586के अब
जेसी-602651एम), 17 नवम्बर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार एक बहादुर गुरंग (सं. 5043545ए अब जेसी-602652पी),
23 अक्टूबर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार अइता पाठे गुरंग (सं. 5043567वाई अब
जेसी-602653एक्स), 23 अक्टूबर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार भगवान सिंह पुन (सं. 5043342डब्ल्यू अब
जेसी-602654वाई), 02 नवम्बर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2005)

हवलदार मोहन बहादुर थापा (सं. 5043305एफ अब
जेसी-602655एच), 02 नवम्बर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2005)

हवलदार होम बहादुर थापा (सं. 5043749एम अब
जेसी-602656एल), 18 नवम्बर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार योग राज रासकोटी (सं. 5043354एल अब
जेसी-602657एल), 08 दिसम्बर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2005)

हवलदार बीश्वो किरण श्रेष्ठा (सं. 5043442एफ अब
जेसी-602658डब्ल्यू), 05 दिसम्बर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2005)

हवलदार रमेश कुमार थापा (सं. 5043353एच अब
जेसी-602659वाई), 08 दिसम्बर 2005

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2005)

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैंट्री

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 9086774एक्स अब जेसी-593359एन),
31 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 मार्च 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अर्जुन कुमार (सं. 9095579एफ अब जेसी-593360एच),
11 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 12 मार्च 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार तीर्थ राम (सं. 9087336एफ अब जेसी-593361एल),
14 मई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 13 मार्च 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार बोध राज (सं. 9086018एल अब जेसी-593362एन),
11 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अप्रैल 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अब्दुल सत्तार नजर (सं. 9086598एल अब
जेसी-593363डब्ल्यू), 15 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अप्रैल 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार विजय कुमार (सं. 9087160एफ अब जेसी-593364वाई),
01 अप्रैल 2005

हवलदार रमेश चंद्र शर्मा (सं. 9085718एम अब जेसी-593400वाई),
29 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 नवम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शिव राम (सं. 9087501एफ अब जेसी-593401एफ),
29 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 08 अक्टूबर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार नाक मोहम्मद (सं. 9085475एम अब जेसी-593402के),
23 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 नवम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार दर्शन कुमार (सं. 9088341वाई अब जेसी-593352के),
14 दिसम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 09 सितम्बर 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 9087494डब्ल्यू अब जेसी-593353एम),
02 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार प्यार लाल शर्मा (सं. 9087629एम अब जेसी-593354पी),
02 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 16 अक्टूबर 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार गुलजार अहमद मीर (सं. 9087184एल अब
जेसी-593355एक्स), 02 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 नवम्बर 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार गोपाल दास (सं. 9087600के अब जेसी-593356ए),
15 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 दिसम्बर 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मो. काजिम (सं. 9086970एक्स अब जेसी-593357एच),
04 मई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 06 जनवरी 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार बानू राम (सं. 9087864एल अब जेसी-593358एल),
03 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 फरवरी 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार (म्यूजिसीयन) के रैंक में

हवलदार/म्यूजिसीयन के. धर्मा राव डोरा (सं. 4261904वाई अब
जेसी-559440एन), 11 मई 2005/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार गन्द्रा ओराँव (सं. 4262346पी अब जेसी-559519पी),
24 नवम्बर 2005/01 जून 2005(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
सांकेतिक ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर राम कैलाश प्रसाद (सं. 4261742वाई अब
जेसी-559520एल), 13 दिसम्बर 2005/06 अगस्त 2005(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 06 अगस्त 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर बिन्दा सिंह (सं. 4262609एच अब
जेसी-559521एन), 19 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर जय प्रकाश तिवारी (सं. 4261425एक्स अब
जेसी-559522डब्ल्यू), 19 अक्टूबर 2005/26 सितम्बर 2005(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 26 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक बिन्ध्याचल प्रसाद (सं. 4264311एक्स अब
जेसी-559523वाई), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (जी.डी) के रैंक में

कम्पनी हवलदार मेजर रामाकान्त मोहन्ता (सं. 4262471वाई अब जेसी-559524एफ), 04 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार क्वार्टर मास्टर सोम्रा ओरॉव (सं. 4266745डब्ल्यू अब जेसी-559525के), 17 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार राफेल धान (सं. 4267630पी अब जेसी-559526एम), 08 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार अम्बिका राय (सं. 4262517डब्ल्यू अब जेसी-559527पी), 25 नवम्बर 2005/03 अक्टूबर 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 03 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार क्वार्टर मास्टर राज कुमार मेहता (सं. 4262646डब्ल्यू अब जेसी-559528एक्स), 26 नवम्बर 2005/03 अक्टूबर 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 03 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर राम ईकबाल सिंह (सं. 4261263एक्स अब जेसी-559529ए), 01 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार दया शंकर मिश्र (सं. 4262906डब्ल्यू अब जेसी-559530पी), 08 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर विष्णु देव राय (सं. 4261264ए अब जेसी-559531एक्स), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार जॉनसन साँगा (सं. 4266417एच अब जेसी-559532ए), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार राम बहादुर सिंह (सं. 4263045एक्स अब जेसी-559533एच), 26 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2004ज्येष्ठता *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में काल्पनिक ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार मनधोरन नायक (सं. 4268446डब्ल्यू अब जेसी-559534एल), 23 अगस्त 2005/13 मई 2005ज्येष्ठता *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 13 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 4262994एक्स अब जेसी-559535एन), 29 अगस्त 2005/01 जून 2005ज्येष्ठता *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हरिहर प्रसाद राय (सं. 4262104एम अब जेसी-559536डब्ल्यू), 26 सितम्बर 2005/09 जुलाई 2005ज्येष्ठता *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 09 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मनोरंजन कुम्हार (सं. 4262876के अब जेसी-559537वाई), 26 जून 2005/09 जुलाई 2005ज्येष्ठता *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 09 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पवन कुमार सिंह (सं. 4263436एच अब जेसी-559538एफ), 28 सितम्बर 2005/09 जुलाई 2005ज्येष्ठता *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 09 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार महेन्द्र प्रताप सिंह (सं. 4265534एफ अब जेसी-559539के), 28 सितम्बर 2005/09 जुलाई 2005ज्येष्ठता *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 09 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार विक्रम किस्कू (सं. 4262635के अब जेसी-559540वाई), 30 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005ज्येष्ठता *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार शंकर ठाकुर (सं. 4260048ए अब जेसी-559541एफ), 05 दिसम्बर 2005/07 अक्टूबर 2005ज्येष्ठता *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 07 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम चन्द्र बेशरा (सं. 4264852वाई अब जेसी-559542के), 05 दिसम्बर 2005/07 अक्टूबर 2005ज्येष्ठता *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 07 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार दीन दयाल सिंह (सं. 4261795एक्स अब जेसी-559543एम), 30 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005ज्येष्ठता *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार करुणाकर मौड़ी (सं. 4263233वाई अब जेसी-559544पी),
15 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 4263380एफ अब
जेसी-559545एक्स), 15 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हेमन्त कुमार मोहन्ता (सं. 4263547ए अब जेसी-559546ए),
18 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

कम्पनी हवलदार मेजर रामायण महतो (सं. 4263750डब्ल्यू अब
जेसी-559547एच), 20 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुमन्त कुमार सुमन (सं. 4260567एच अब जेसी
559548एल), 30 दिसम्बर 2005/23 दिसम्बर 2005*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 23 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

कुमाऊँ रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार धन सिंह (सं. 4179146ए अब जेसी-539799एन),
28 जुलाई 2005/01 जुलाई 2004*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 जुलाई 2004 से दी गई)

सी क्यू एम एच हरीश चन्द्र काण्डपाल (सं. 4177448एन अब
जेसी-539800एक्स), 28 जुलाई 2005/24 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 24 अप्रैल 2005 से दी गई)

हवलदार नारायण सिंह (सं. 4177741एल अब जेसी-539801ए),
28 जुलाई 2005/24 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 24 अप्रैल 2005 से दी गई)

हवलदार दिनेश सिंह चमयाल (सं. 14701742पी अब जेसी-539827पी),
03 अक्टूबर 2005/24 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 24 अप्रैल 2005 से दी गई)

हवलदार किशन सिंह (सं. 4177785एच अब जेसी-539802एच),
28 जुलाई 2005/24 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 24 अप्रैल 2005 से दी गई)

हवलदार लाल सिंह (सं. 4179208पी अब जेसी-539828एक्स),
17 अगस्त 2005/24 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 24 अप्रैल 2005 से दी गई)

हवलदार जगत सिंह (सं. 4178222पी अब जेसी-539874एम),
03 अक्टूबर 2005/26 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 26 जून 2005 से दी गई)

हवलदार सोबन सिंह राठौर (सं. 4177196एम अब जेसी-539829ए),
08 अक्टूबर 2005/01 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 अगस्त 2005 से दी गई)

सी एच एम गंगा सिंह (सं. 4177197पी अब जेसी-539830पी),
06 सितम्बर 2005/01 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 अगस्त 2005 से दी गई)

सी एच एम हरीश चन्द (सं. 4177332एक्स अब जेसी-539831एक्स),
06 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार मोहन गिरी (सं. 4177345पी अब जेसी-539832ए),
06 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार खुशाल सिंह (सं. 4177368डब्ल्यू अब जेसी-539875पी),
11 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार भैरव दत्त (सं. 4178742ए अब जेसी-539876एक्स),
13 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

सीएचएम दरवान सिंह (सं. 4177789एल अब जेसी-539877ए),
09 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार सुन्दर सिंह (सं. 4179386एक्स अब जेसी-539833एच),
10 सितम्बर 2005/01 मई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 मई 2005 से दी गई)

हवलदार मोहन चन्द (सं. 4188181के अब जेसी-539834एल),
18 अगस्त 2005/14 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 14 जून 2005 से दी गई)

हवलदार पान सिंह (सं. 4176835डब्ल्यू अब जेसी-539808के),
04 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी गई)

सी एच एम चन्द्र सिंह (सं. 4176838के अब जेसी-539809एम),
04 अगस्त 2005/05 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 05 जुलाई 2005 से दी गई)

हवलदार दिनेश चन्द्र (सं. 4181550एन अब जेसी-539810एफ),
04 अगस्त 2005/08 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 08 जुलाई 2005 से दी गई)

हवलदार हेमचन्द्र हरबोला (सं. 4187017पी अब जेसी-539878एच),
12 दिसम्बर 2005/08 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 08 जुलाई 2005 से दी गई)

हवलदार धरमेन्द्र सिंह (सं. 3178605एल अब जेसी-539820एल),
01 सितम्बर 2005

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 4177533डब्ल्यू अब जेसी-539857डब्ल्यू),
21 नवम्बर 2005/30 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 30 सितम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार मोहन चन्द्र (सं. 4177327एम अब जेसी-539858वाई),
09 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार मंगल सिंह रावत (सं. 4179518ए अब जेसी-539859एक्स),
21 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार कबिन्दर सिंह बफीला (सं. 4177403एन अब
जेसी-539879एल), 04 दिसम्बर 2005/10 दिसम्बर 2004*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 10 दिसम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार रजेन्द्र सिंह (सं. 4179543वाई अब जेसी-539880ए),
04 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार शीर सिंह कपकोटी (सं. 4177484वाई अब
जेसी-539791एफ), 03 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी गई)

हवलदार रमेश सिंह राठौर (सं. 4179572एन अब जेसी-539861पी),
07 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार ध्यान सिंह बजवाल (सं. 4177277एम अब
जेसी-539860एम), 07 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार उमेश चन्द्र उपध्याय (सं. 4182038एफ अब जेसी
539881एच), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार शीश राम यादव (सं. 4181287एन अब जेसी-539863ए),
19 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 4179719वाई अब जेसी-539826एक्स),
11 अक्टूबर 2005/29 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 29 अप्रैल 2005 से दी गई)

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 4177504एफ अब जेसी-539864एच),
26 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार सूरज मल (सं. 4177724एल अब जेसी-539865एल),
26 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 4183466एम अब जेसी-539882एल),
27 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार अमर सिंह (सं. 4177753ए अब जेसी-539883एन),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार गोपाल सिंह सुगार (सं. 4181276एफ अब जेसी-539867डब्ल्यू),
21 अक्टूबर 2005/10 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 10 सितम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार जगत सिंह (सं. 4178188ए अब जेसी-539866एन),
21 अक्टूबर 2005/10 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 10 सितम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार पान सिंह मेहरा (सं. 4178397एक्स अब जेसी-539884डब्ल्यू),
25 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार दिवान सिंह (सं. 4182671एफ अब जेसी-539885वाई),
25 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार नारायण सिंह (सं. 4183524एल अब जेसी-539886एफ),
25 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार नरेश कुमार यादव (सं. 4182116एन अब जेसी-539887के),
25 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार चिम्न लाल (सं. 4181374एफ अब जेसी-539836डब्ल्यू),
08 सितम्बर 2005/13 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 13 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार सुभाष चन्द्र सिंह यादव (सं. 4177103एम अब जेसी-539837वाई), 08 सितम्बर 2005/13 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 13 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार धरमबीर सिंह (सं. 4178335एफ अब जेसी-539838एफ),
26 सितम्बर 2005/03 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 03 सितम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार हर सिंह (सं. 4177791डब्ल्यू अब जेसी-539839के),
26 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार मान सिंह (सं. 4178135एफ अब जेसी-539888ए),
06 दिसम्बर 2005/05 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 05 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 4178180एन अब जेसी-539840एम),
22 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी गई)

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 4178385एन अब जेसी-539841पी),
14 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार जोगेन्द्र सिंह (सं. 4179778एल अब जेसी-539842एक्स),
14 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार किशन सिंह (सं. 4179231एच अब जेसी-539843एक्स),
10 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार पान सिंह गौरा (सं. 4175354एक्स अब जेसी-539844पी),
10 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार हवा सिंह यादव (सं. 4178805एफ अब जेसी-539868वाई),
02 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 4177140ए अब जेसी-539845एक्स),
01 सितम्बर 2005

हवलदार खडक सिंह (सं. 4176670एच अब जेसी-539869एफ),
25 सितम्बर 2005/07 सितम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 07 सितम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार ललित सिंह परिहार (सं. 4180473एक्स अब जेसी-539871एम), 08 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार महेन्द्र सिंह सोंटियाल (सं. 4176723डब्ल्यू अब जेसी-539870के), 08 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार रामऔतार यादव (सं. 4180610एल अब जेसी-539872पी),
08 नवम्बर 2005/06 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 06 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार दिवान सिंह (सं. 4178567डब्ल्यू अब जेसी-539889पी),
01 दिसम्बर 2005/15 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 15 नवम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 4181633वाई अब जेसी-539890के),
01 दिसम्बर 2005

सी एच एम गणेश सिंह (सं. 4175615ए अब जेसी-539846ए), 07 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी गई)

सी एच एम बसन्त राम यादव (सं. 4180453के अब जेसी-539847एच),
01 सितम्बर 2005

सी एच एम लक्ष्मण सिंह (सं. 4175957एन अब जेसी-539891एम),
24 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार श्याम दत्त (सं. 4176774के अब जेसी-539813पी),
23 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी गई)

हवलदार किशन सिंह (सं. 4177136एक्स अब जेसी-539848एल),
08 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी गई)

नागा रेजिमेन्ट

हवलदार हरीश चन्द (सं. 14701093पी अब जेसी-590171एन),
01 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार मोहन कुमार थापा (सं. 14701006डब्ल्यू अब जेसी-590173वाई), 21 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार टेक बहादुर क्षेत्री (सं. 14701019एन अब जेसी-590174एफ),
21 नवम्बर 2005/06 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 06 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार नवनीत कुमार थापा (सं. 14701028पी अब जेसी-590175के),
09 दिसम्बर 2005/16 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 16 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार भूपाल सिंह (सं. 4177904एम अब जेसी-590172डब्ल्यू),
20 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

हवलदार तिआतेमसू (सं. 14701045पी अब जेसी-590176एम),
23 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी गई)

हवलदार मान बहादुर थापा (सं. 14701081ए अब जेसी-590177पी),
23 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी गई)

प्रेनेडियर्स

सूबेदार के रैंक में

रैंक व नाम, नम्बर व दिनांक

- नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-449561एम), 09 जून 2004
 नायब सूबेदार गौरी शंकर बदसरा (जेसी-449410एन), 19 जून 2004
 नायब सूबेदार पदम सिंह (जेसी-449456डब्ल्यू), 22 जून 2004
 नायब सूबेदार रनवीर सिंह (जेसी-449613एक्स), 22 जून 2004
 नायब सूबेदार जीत बहादुर सिंह (जेसी-449362वाई), 01 अक्टूबर 2004
 नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-449458एफ), 01 अक्टूबर 2004
 नायब सूबेदार सरवन सिंह (जेसी-449508एफ), 01 अक्टूबर 2004
 नायब सूबेदार राम निवास ढाका (जेसी-449424एन), 03 अक्टूबर 2004
 नायब सूबेदार अनीश खान (जेसी-449305एक्स), 01 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-449395के), 01 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार बीरेन्द्र सिंह (जेसी-449398एक्स), 01 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार चौहान दशरथ भाई जेता भाई (जेसी-449460वाई), 01 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-449459के), 01 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार नन्द लाल मीना (जेसी-449494एम), 01 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार नारायण दास (जेसी-449503एच), 01 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह, एस एम (जेसी-449148डब्ल्यू), 07 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार गोपाल सिंह शेखावत (जेसी-449150एन), 07 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार जय सिंह (जेसी-449428के), 07 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-449486एन), 07 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार जनक राज (जेसी-449261एफ), 10 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-449016एच), 16 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-449532एक्स), 20 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार झुंमर सिंह (जेसी-449466ए), 20 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार चुन्नी लाल (जेसी-449014एक्स), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार सोमवीर (जेसी-449035एन), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार हीरा लाल (जेसी-449254पी), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार प्रकाश (जेसी-449439एम), 01 दिसम्बर 2004

- नायब सूबेदार संत कुमार, एस एम (जेसी-449468एल), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र (जेसी-449470एच), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार जादव शंकर किशन (जेसी-449471एल), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार भँवर सिंह (जेसी-449539एफ), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार सतीश (जेसी-449457वाई), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार देवी सिंह (जेसी-449389डब्ल्यू), 07 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार उधम सिंह (जेसी-449402ए), 07 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार लाखन सिंह (जेसी-449519एन), 07 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार ओदेदरा देवा राजू (जेसी-449566एल), 07 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार खीमा खतल (जेसी-449602एल), 07 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जेसी-449578ए), 07 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार सालंकी अजीत दान संग (जेसी-449620एन), 07 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार सत्यवान (जेसी-449645ए), 07 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार सिम्भू दयाल रावत (जेसी-449608एम), 07 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-449614ए), 07 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-449640एफ), 07 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार रामेश्वर लाल (जेसी-449675एक्स), 07 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-449684पी), 07 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार तरसीम सिंह (जेसी-449162एन), 09 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार अलादीन खान (जेसी-449358डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार बाबू लाल (जेसी-449425डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार भूप सिंह चौहान (जेसी-449511एफ), 19 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार प्रेम नाथ (जेसी-449447पी), 30 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह परीहार (जेसी-449104एल), 31 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार छोटू (जेसी-449209एच), 01 जनवरी 2005
 नायब सूबेदार प्रह्लाद सिंह चौहान, एस एम (जेसी-449289एल), 01 जनवरी 2005
 नायब सूबेदार अकबल अहमद खान, एस एम (जेसी-449270एम), 01 जनवरी 2005

- नायब सूबेदार हबीब खान (जेसी-449378के), 01 जनवरी 2005
- नायब सूबेदार मोहम्मद हरनून (जेसी-449419एच), 01 जनवरी 2005
- नायब सूबेदार दिवान सिंह राना (जेसी-449485एल), 01 जनवरी 2005
- नायब सूबेदार भूमि देव (जेसी-449493के), 01 जनवरी 2005
- नायब सूबेदार रोहतास (जेसी-449516ए), 01 जनवरी 2005
- नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-449546एक्स), 01 जनवरी 2005
- नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-449551एच), 08 जनवरी 2005
- नायब सूबेदार अयूब खान (जेसी-449211ए), 01 फरवरी 2005
- नायब सूबेदार बजरंग सिंह (जेसी-449587एफ), 01 फरवरी 2005
- नायब सूबेदार बच्चन लाल (जेसी-449355एच), 01 फरवरी 2005
- नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-449361डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005
- नायब सूबेदार मोहम्मद सलीम (जेसी-449383पी), 01 फरवरी 2005
- नायब सूबेदार मीर खान (जेसी-449555वाई), 01 फरवरी 2005
- नायब सूबेदार नावाब अली (जेसी-449487डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005
- नायब सूबेदार तारा चन्द गाँधी (जेसी-449498डब्ल्यू), 12 फरवरी 2005
- नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-449652डब्ल्यू), 15 फरवरी 2005
- नायब सूबेदार सुशील कुमार एस सी (जेसी-449202वाई), 01 मार्च 2005,
- नायब सूबेदार गिरधारी लाल (जेसी-449243एच), 01 मार्च 2005
- नायब सूबेदार युद्धवीर सिंह (जेसी-449277डब्ल्यू), 01 मार्च 2005
- नायब सूबेदार हकम अली खान (जेसी-449444एफ), 01 मार्च 2005
- नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-449588के), 06 मार्च 2005
- नायब सूबेदार सूर्यभान सिंह (जेसी-449536एन), 28 मार्च 2005
- नायब सूबेदार इन्द्र पाल सिंह (जेसी-449099वाई), 31 मार्च 2005
- नायब सूबेदार भागीरथ (जेसी-449152वाई), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-449453एन), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार पतेह चन्द (जेसी-449497ए), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार सत्यवीर (जेसी-449500पी), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार देवी सिंह (जेसी-449513एम), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार ब्रज लाल मीना (जेसी-449542एफ), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार मधु लाल मीना (जेसी-449543के), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार युनस अली (जेसी-449576पी), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार अमीन चन्द (जेसी-449589एच), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार मोहम्मद सफीक (जेसी-449662ए), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार पुरुषोत्तम सिंह (जेसी-449667वाई), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार हरबंस लाल (जेसी-449203एल), 23 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार राय सिंह (जेसी-449615डब्ल्यू), 25 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार रोहतास सिंह (जेसी-449434एक्स), 01 मई 2005
- नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-449418पी), 01 मई 2005
- नायब सूबेदार रन सिंह (जेसी-449483ए), 01 मई 2005
- नायब सूबेदार दया नन्द (जेसी-449047एच), 04 मई 2005
- नायब सूबेदार गजेन्द्र सिंह (जेसी-449388एम), 04 मई 2005
- नायब सूबेदार ओनेद सिंह (जेसी-449545पी), 07 मई 2005
- नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-449207एक्स), 11 मई 2005
- नायब सूबेदार राम बाबू सिंह (जेसी-448994एक्स), 01 जून 2005
- नायब सूबेदार ब्रज मोहन सिंह (जेसी-449538वाई), 01 जून 2005
- नायब सूबेदार श्रीमान राणा (जेसी-449639एम), 01 जून 2005
- नायब सूबेदार रमेश कुमार सिंह (जेसी-449679एच), 28 जून 2005
- नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद जोशी (जेसी-449167एफ), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार लेख राज (जेसी-449323एक्स), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार मिसरी लाल (जेसी-449382एम), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार करनेल सिंह (जेसी-449385ए), 01 जुलाई 2005,
- नायब सूबेदार शेर बहादुर सिंह (जेसी-449548एच), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार अनिल चन्द (जेसी-449547ए), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार हमीद खान (जेसी-449554डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार गोपाल किशन (जेसी-449636वाई), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-449665एन), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार फूल चन्द (जेसी-449676ए), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-449681एल), 01 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार बिशन दास (जेसी-449448एक्स), 07 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह सेन, एस एम (जेसी-449629एच), 29 जुलाई 2005
- नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-449495पी), 01 अगस्त 2005
- नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-449504एल), 01 अगस्त 2005
- नायब सूबेदार सूरत सिंह (जेसी-449562पी), 01 अगस्त 2005
- नायब सूबेदार सँवर मल (जेसी-449564ए), 01 अगस्त 2005
- नायब सूबेदार देव राज (जेसी-449582एच), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह, एस एम (जेसी-449592एम), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-449643पी), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सनकाथा प्रसाद सिंह (जेसी-449670वाई), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार राम सिंह यादव (जेसी-449292एल), 08 अगस्त 2005

नायब सूबेदार शंकर सिंह (जेसी-449015ए), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार हाफीज खान (जेसी-449237एफ), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार सोकत अली (जेसी-449323ए), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार रनजीत खान (जेसी-449327डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार जगदीश राज (जेसी-449411डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार जबर सिंह (जेसी-449426वाई), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार विधा धर (जेसी-449517एच), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह कोयल (जेसी-449518एल), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-449528पी), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार भंडारी राम (जेसी-449550ए), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार कन सिंह (जेसी-449570एन), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-449573एफ), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार धाना लाला मीना (जेसी-449622के), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार मान सिंह सेजवार (जेसी-449627एक्स), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार बंसी लाल (जेसी-449685एफ), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-449688पी), 03 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार मोहिन्द्र सिंह (जेसी-449551एच), 18 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार राजेन्द्र (जेसी-449238एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार छोटे कटाट (जेसी-449455एन), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार ब्रज किशोर सिंह (जेसी-449481पी), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार वानकर दवांक भाई राती भाई (जेसी-449662एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार दिनेश सिंह (जेसी-449484एच), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-449520एच), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार पायने लाल (जेसी-449537डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सिरताज अहमद (जेसी-449583एल), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार हेम राज (जेसी-449600ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार मदन लाल पट्टनिया (जेसी-449605वाई), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार बोध राज (जेसी-449625एम), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार चन्द्र पाल वर्मा (जेसी-449629ए), 27 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सलीमुद्दीन (जेसी-449328वाई), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार अमेद सिंह जाखड (जेसी-449406एल), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार नानक चन्द्र (जेसी-449443वाई), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार सूबे सिंह (जेसी-449467एच), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार सत्य भान सिंह (जेसी-449531पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राम प्रकाश बागेल (जेसी-449571डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार सुभास चन्द्र (जेसी-449603एन), 12 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार मनवार अली (जेसी-449366पी), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार खादीम हुसेन (जेसी-449435ए), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार सोकत अली (जेसी-449445के), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार सूखा राम घोटीया (जेसी-449509के), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-449510वाई), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार सतेन्द्र ठाकुर (जेसी-449538एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार राम अवतार सिंह (जेसी-449496एक्स), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार अलीयास (जेसी-449540डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार बजीर सिंह (जेसी-449558एम), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जगबीर (जेसी-449659ए), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार चन्द्र सिंह (जेसी-449672के), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार लियाकत अली (जेसी-449593पी), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार मियाज मोहम्मद (जेसी-449631ए), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-449697डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार दया राम (जेसी-449335एफ), 23 जनवरी 2006

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार/क्लर्क रामफल बनवाला (जेसी-449236एम), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार/क्लर्क कुलदीप सिंह कपूर (जेसी-449267एम),
01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार/क्लर्क बाबू लाल दत्त (जेसी-449368पी), 01 फरवरी
2005

नायब सूबेदार/क्लर्क बीरेन्द्र सिंह (जेसी-449314वाई), 01 फरवरी
2005

नायब सूबेदार/क्लर्क सुरेन्द्र सिंह बागल (जेसी-449318एफ), 01 अप्रैल
2005

नायब सूबेदार/क्लर्क तिलक राज (जेसी-449334एम), 01 जून 2005

नायब सूबेदार/क्लर्क महेन्द्र सिंह (जेसी-449335पी), 01 जून 2005

नायब सूबेदार/क्लर्क विजय कुमार (जेसी-449336एक्स), 01 जुलाई
2005

नायब सूबेदार/क्लर्क रतन सिंह (जेसी-449337ए), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार/क्लर्क विमल प्रसाद मोहपातरा (जेसी-449351एम),
01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार/क्लर्क राजपाल सिंह (जेसी-449391एन), 01 अगस्त
2005

नायब सूबेदार/क्लर्क रविन्द्र कुमार (जेसी-449393वाई), 01 अगस्त
2005

नायब सूबेदार/क्लर्क चन्द्र दत्त चहल (जेसी-449394एफ),
01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार/क्लर्क हमीद खान (जेसी-449409वाई), 01 सितम्बर
2005

नायब सूबेदार/क्लर्क सत्यवीर सिंह (जेसी-449441एन), 01 सितम्बर
2005

नायब सूबेदार/क्लर्क मोहन लाल (जेसी-449450पी), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार/क्लर्क सन्तोष कुमार शर्मा (जेसी-449472एन),
01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार/क्लर्क सुरेन्द्र कुमार ठाकुर (जेसी-449473डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार/क्लर्क दिनकर जोशी (जेसी-449474वाई), 01 जनवरी
2006

नायब सूबेदार/क्लर्क राजेन्द्र सिंह कुशावाह (जेसी-449475एफ),
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार/क्लर्क बाबू राम (जेसी-449476के), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार/क्लर्क जयपाल सिंह (जेसी-449477एम), 01 फरवरी
2006

नायब सूबेदार/क्लर्क बच्चू सिंह तोमर (जेसी-449478पी), 01 फरवरी
2006

नायब सूबेदार/क्लर्क विजय बहादुर सिंह (जेसी-449479एक्स),
01 मार्च 2006

नायब सूबेदार/क्लर्क विरेन्द्र सिंह (जेसी-449490डब्ल्यू), 01 मार्च
2006

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार/क्लर्क महावीर प्रसाद (जेसी-448711एल), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार महावीर प्रसाद मील (सं. 2575975एम अब जेसी-450033पी),
31 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005)

हवलदार राम अवतार (सं. 2673572एन अब जेसी-450034एक्स),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार मोहम्मद अशरफ अली (सं. 26761825डब्ल्यू अब
जेसी-450035ए), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार बलवान सिंह (सं. 2677875ए अब जेसी-450036एच),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार बघेला विजय भाई नाथू राम (सं. 2679283पी अब
जेसी-450037एल), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार राम नारायण सिंह (सं. 2679672पी अब जेसी-450038एन),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार हरी राम सियाम (सं. 2680523एम अब जेसी-450039डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार भंवर लाल थोरी (सं. 2680524डब्ल्यू अब जेसी-450040एल),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार हरी सिंह (सं. 2679421एल अब जेसी-450041एन),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार बनवारी लाल (सं. 2683846एफ अब जेसी-450042डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार कशमीर सिंह (सं. 2676847एफ अब जेसी-450043वाई),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 2673742एम अब जेसी-450044एफ),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार राम नरेश सिंह (सं. 8031702एक्स अब जेसी-450045के),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार देश राज (सं. 2680517ए अब जेसी-450046एम),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 2677187एफ अब जेसी-450047पी),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार हाकिम सिंह (सं. 2680748डब्ल्यू अब जेसी-450048एक्स),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार करनेल सिंह (सं. 2678965एन अब जेसी-450049ए),
14 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005)

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 2677376एल अब जेसी-450050पी),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार सोलंकी गोविन्द भाई सोमा भाई (सं. 2683893वाई अब
जेसी-450051एक्स), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 2676794एन अब जेसी-450052ए),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार देव राज (सं. 2676712ए अब जेसी-450053एच),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार बचन लाल (सं. 2677068एल अब जेसी-450054एल),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार रावल सिंह (सं. 2677288पी अब जेसी-450055एन),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार खेम सिंह (सं. 2678504के अब जेसी-450056डब्ल्यू),
18 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005)

हवलदार पंवार अशोक कुमार जोग पाल सिंह (सं. 26834725डब्ल्यू
अब जेसी-450057वाई), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार राम सिंह (सं. 2677933वाई अब जेसी-450058एफ),
12 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
04 अक्टूबर 2005)

हवलदार रमजान खान (सं. 2679326वाई अब जेसी-450059के),
05 अक्टूबर 2005

हवलदार मेजर खान ताक (सं. 2677119एन अब जेसी-450061एफ),
02 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005)

हवलदार महेन्द्र सिंह राठौर (सं. 2676076एक्स अब जेसी-450062के),
29 अक्टूबर 2005

हवलदार सत्यपाल सिंह चौहान (सं. 2676079एल अब
जेसी-450063एम), 29 अक्टूबर 2005

हवलदार अमी लाल (सं. 2673749डब्ल्यू अब जेसी-450064पी),
01 नवम्बर 2005

हवलदार खेम राज मीणा (सं. 2677214ए अब जेसी-450065एक्स),
01 नवम्बर 2005

हवलदार लभ चन्द्र मीणा (सं. 2679296एम अब जेसी-450066ए),
01 नवम्बर 2005

हवलदार रहीमन अली (सं. 2676213एल अब जेसी-450067एच),
01 नवम्बर 2005

हवलदार राम रतन सिंह (सं. 2679388वाई अब जेसी-450068एल),
01 नवम्बर 2005

हवलदार मियाज मोहम्मद (सं. 2676628ए अब जेसी-450069एन),
01 नवम्बर 2005

हवलदार कमल सिंह (सं. 2678086ए अब जेसी-450070एच),
01 नवम्बर 2005

हवलदार गजेन्द्र सिंह सेंगर (सं. 2676057एम अब जेसी-450071एल),
01 नवम्बर 2005

हवलदार प्रभात चन्द, एस एम (सं. 2678105ए अब जेसी-450072एन),
01 नवम्बर 2005

हवलदार तेजा सिंह (सं. 2677630के अब जेसी-450073डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2005

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 2678139एन अब जेसी-450074वाई),
01 नवम्बर 2005

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 2678971एफ अब जेसी-450075एफ),
01 नवम्बर 2005

हवलदार दलजीत सिंह (सं. 2676313डब्ल्यू अब जेसी-450076के),
06 नवम्बर 2005

हवलदार तेज सिंह (सं. 2676379एम अब जेसी-450077एम),
09 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
06 नवम्बर 2005)

हवलदार शौकत खान (सं. 2676084डब्ल्यू अब जेसी-450078पी),
12 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक ओम प्रकाश (सं. 2676846वाई अब
जेसी-450079एक्स), 01 जनवरी 2006

हवलदार/लिपिक हीरा लाल गुजर (सं. 2677576एफ अब जेसी-450080एम), 01 जनवरी 2006

हवलदार/लिपिक रमेश चन्द्र सिंह (सं. 2678650के अब जेसी-450081पी), 01 जनवरी 2006

हवलदार/लिपिक सुरेश कुमार (सं. 2678690एल अब जेसी-450082एक्स), 01 फरवरी 2006

हवलदार/लिपिक करन सिंह (सं. 2678781पी अब जेसी-450083ए), 01 फरवरी 2006

हवलदार/लिपिक अफसर अली खान (सं. 2679411एफ अब जेसी-450084एच), 01 मार्च 2006

पंजाब रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार आज्ञा सिंह (सं. 2477942डब्ल्यू अब जेसी-429919वाई), 24 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार रशपाल चन्द (सं. 2475150एक्स अब जेसी-429910के), 01 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार दुर्गा दास (सं. 2474280एन अब जेसी-429911एम), 19 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार जनक सिंह (सं. 2475172डब्ल्यू अब जेसी-429929एच), 14 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार प्रकाश चन्द (सं. 2475163पी अब जेसी-429930एक्स), 14 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार निशान सिंह (सं. 2479173डब्ल्यू अब जेसी-429912पी), 19 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 2474997पी अब जेसी-429913एक्स), 09 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार हेम राज सिंह (सं. 2478518ए अब जेसी-429914ए), 04 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार मोहन लाल (सं. 2474684डब्ल्यू अब जेसी-429931ए), 22 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 2475487ए अब जेसी-429932एच), 26 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार यश पाल (सं. 2475559वाई अब जेसी-429915एच), 07 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार शिव चरण सिंह (सं. 2475264एच अब जेसी-429916एल), 30 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार तारा सिंह (सं. 2477500एक्स अब जेसी-429917एन), 18 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार राजिन्द्र सिंह (सं. 2478778एल अब जेसी-429918डब्ल्यू), 26 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार श्याम सुन्दर (सं. 2475553एक्स अब जेसी-429920एन), 03 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार मलकीत सिंह (सं. 2478888ए अब जेसी-429933एल),
12 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार टिकेश्वर सिंह (सं. 2475555एच अब जेसी-429934एन),
27 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
06 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार बलवान सिंह (सं. 2477555एफ अब जेसी-429921डब्ल्यू),
07 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 2677036वाई अब जेसी-429936वाई),
06 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 2476420एन अब जेसी-429935डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं. 2475674वाई अब जेसी-429922वाई),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार बाबु राम (सं. 2474314डब्ल्यू अब जेसी-429923एफ),
05 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार बलदेव राज (सं. 2475681पी अब जेसी-429937एफ),
12 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दिवाकर
अवर सचिव

सं. 389, दिनांक 4 जुलाई 2006-- राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों
को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
मेजर से ले कर्नल

सं. आई सी नाम आर्म

39624 पी एम बाली, इन्फैन्ट्री

सं. आई सी/एस एल नाम व आर्म

आई सी-45566 अजय शर्मा, सिग्नल्स

एस एल-3830 आनन्द कुमार थपलियाल, एस एल क्यू एम

दिनांक 16 दिसम्बर 2004

कप्तान से मेजर

सं. आई सी नाम आर्म

53613 मनोज शर्मा, इन्फैन्ट्री

55274 राजेश शर्मा, आर्टी

55473 राजेश कुमार शुक्ला, इन्फैन्ट्री

55579 आदित्य सिंह, आर्टी

56033 राकेश यादव, ए ओ सी

दिनांक 16 दिसम्बर 2004

59215 अजित सिंह तवर, आर्टी

दिनांक 11 दिसम्बर 2005

शिव राम बैरवा

उप निदेशक

एम एस 8-सी

सं. 390, दिनांक 4 जुलाई 2006--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष
पदोन्नति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक नं. नाम आर्म मूल रैंक की तिथि

आई सी-39114 भरत कुमार, ए. ए. डी., 01.02.2005

आई सी-35901 ए.के. एस. सेनार, गार्ड्स, 31.10.2004

आई सी-35213 अभय गुप्ता, आर्टी, 01.08.2003

अजय गोयल

उप निदेशक

एम एस-8ए

सं. 391, दिनांक 10 जुलाई 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
मूल रैंक में करते हैं:--

भारतीय वायुसेना

लेखा शाखा

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (Time Scale) में

ए एल मुखर्जी (14071), वाई पी जिंदल (14543), पी के वर्मा
(14548), ए के नरेंद्रा (14981), एफ जॉर्ज (14988), आर चड्ढा
(14991), के वी करूनानिधि (145374), एम एस मूर्ती (145380),
ओम प्रकाश (145382), पी एन शशिकान्त (145385), डी के एच बी
व्यास (145386),

दिनांक 16 दिसम्बर 04 से।

लेखा शाखा

स्कवा. लीडर की मूल विंग कमाण्डर में

डी के बोस (21712), दिनांक 01 फरवरी 05 से।

यू के शर्मा (17901), के कल्याण कुमार (17907), एस एस अकुराती (17913), ए के निगम (17915), जी श्रीकुमार (17917), वी के शर्मा (17921), एम बुरा (17922), वी एस गुप्ता (18168), ए एन बाबू (18169), एम वी आर मूर्ती (18170), पी कर्माचन्द्रन (18656), वी त्रिवेदी (18657), एच वी तिवारी (18658), डी के शर्मा (18659), वी गोपालाकृष्णा (18660), ए आर फॉलिन (18662), के के मिश्रा (18664), एस कुलश्रेष्ठ (19250), एस नागेश (19251), आर वनाथक (19253), एम ललीत (19254), एस के हरदत्त (19257), एल टी सतनारायण (19258), ए सैनी (19259), एस कृष्णा (19261), टी एम कृष्ण (19262), आर जैन (19263), एम बनर्जी (19265), एस वाई जोग (19396), बी डे (19398), ए निगम (19399), एच श्रीनिवासन (19400), के एस यादव (19401), आर मिश्रा (19402), एफ शंकर (19403), आर वी श्रीवास्तव (19404), एम के शर्मा (19405), एस के मिश्रा (19406), एस के सिंह (20628), आर श्रीवास्तव (20629), राजकुमार (20631), एम के मेहरा (20632), पी जॉनसन (20624), ए भटनागर (20635), एस के मूर्ती (20636), ए अरोडा (20638), ए नार्थ (20639), पी काला (20640), एस के त्रिपाठी (20641), ए एस नाथन (20642), आर के नायर (20650), एस मल्होत्रा (20652), ए जोशी (20654), ए पी के गुप्ता (20655), एस कुंडो (20657),

दिनांक 16 दिसम्बर 04 से।

लेखा शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवा. लीडर में

एस समल (23829), यू उपाध्याय (23830), एस नियाज (23831), सी भट्ट्याचार्य (23832), (मिसेज) पुनीत शर्मा (23854), आई बी यादव (23924), एन एन दीक्षित (24293), एन डी थिंगले (24294), ओ एस नरसिंहम (24296), डी कन्नन (24297), ए के मिश्रा (24298), जे बहुगुणा (24300), ए सुरूप (24301), एस एस अली (24302), एस के पानी (24303), आर के वरिष्ठ (24304), एम आर मिश्रा (24305), आर सुकुमारन (24306), (मिसेस) आर एंजल (24319), (मिसेस) पी एस प्रिया (24320), आई पी सिंह (24343), ए अहमद (24344), एन जैन (25017), के रेखारी (25018), एस चौधरी (25019), एस पी चौधरी (25020), आर शर्मा (25021), आर पुरन्दर (25022), आर चन्द्रन (25023), एन वर्मा (25024), ए शर्मा (25025), वी शर्मा (25026), वी शास्त्री (25054),

दिनांक 16 दिसम्बर 04 से।

सी अरुलाचमी (25537),

दिनांक 19 दिसम्बर 04 से।

एस आर मेनन (25394), आर मल्होत्रा (25396), एन के तिवारी (25397), के एन भट्ट (25398), पी सिंह (25399), (मिसेज) सुनिता तलवार (25416), (मिसेज) मिरानलनी सिन्हा (25417),

दिनांक 19 दिसम्बर 04 से।

लेखा शाखा

फ्लाइट अफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

के बी शर्मा (26599), एच एस जग्गी (26600), एम के बालि (26602), एस दास गुप्ता (26604), पी परिहार (26605), एम जोसी (26607), एस एस शर्मा (26608), (मिसेज) डी जी मेहता (26619), (मिसेज) अरपिता शर्मा (26620), (मिसेज) नमिता अनन्द शर्मा (26621), (मिसेज) प्रमिला डाका (26622), (मिसेज) शालू गौतम (26623), (मिस) प्रीति बहुगुणा (26624), के राजानारायण (27041), आर श्रीवास्तव (27042), पी मेहता (27043), पी शर्मा (27044), डी एस जग्गी (27046), डी वर्मा (27047), डी खान (27048), डी डी चौधरी (27049), (मिस) के अकास्था (27063), (मिस) तनुश्री पंत (27064), (मिस) असू मसदान (27065),

दिनांक 16 दिसम्बर 04 से।

शिक्षा शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवा. लीडर में

एस सी खत्री (21713), आर एस सैनी (21714),

दिनांक 01 फरवरी 05 से।

आर मुरली (18339), ए एस हुण्डल (18906), डी आर खाती (18907), बी बो पारिख (18909), डी डी मिश्रा (18910), ए शर्मा (18911), एम सिंह (18912), आई डी शर्मा (18913), जे डी माडापात (18914), आर के प्रसाद (18915), जी सिंह (19268), वी शेखर (19269), एन चतुर्वेदी (19271), जी जे राव (2099), ए दत्ता (20100), पी जे मैथ्यु (20101), सी पी के केन्डी (20102), एस कोहली (20104), एस के जैसवाल (20210), आर आर लाल (20212), एस जयशंकर (20213), आर के मल (20215), एम के बरनवाल (20216), पी के चौबे (20219), ए एन रायना (20429), पी एस राना (20434), यू ठाकर (20435), एस वी आयचित (21069), आर रे (21071), के सी शर्मा (21073), वी एस बोहरा (21366), वी टी जैम्स (21367), एस के शर्मा (21368), पी नटराज (21369), ए कुमार (21370), आर भटनागर (21372), पी के महापात्रा (21373), आर सागवान (21375), ए कटियार (21376), ई श्री निवास (21377),

दिनांक 16 दिसम्बर 04 से।

शिक्षा शाखा

स्कवा. लीडर की मूल विंग कमाण्डर में

आर एस धवन (17796),

दिनांक 21 दिसम्बर 04 से।

एच सी एच चौहान (23632), (मिसेज) प्रिति लवाल (23648), जे जी होरेश (23926), एन एन शर्मा (23927), आई सिंह (23928), बी डी पांडेय (23929), बी के मुख्यउपाध्य (24350), एस सिद्धकी (24351), बी एस यादव (24352), एन गुप्ता (24584), आर सकलानी (24585), जी प्रभार (24587), ए नाथू (24588), पी मनोहरण (24056), यू गोरमेड (25175), वी के ठाकुर (25176),

दिनांक 16 दिसम्बर 04 से।

ए पी सतीश कुमार (25538), ए एच अंसारी (25541),

दिनांक 16 जनवरी 05 से।

एस कुमार (26389), ए राजन (26609), वी एस दंगवाल (26610), (मिस) पुनम नेगी (26626), एस वी सिंह (26799), डी डाडवाल (27050), बी एल कांथ (27051), जे एस पारमर (27052), के एस रावत (27053), (मिस) पुष्पा ठाकुर (27066),

दिनांक 16 दिसम्बर 04 से।

आर के वत्स (27309),

दिनांक 17 जनवरी 05 से।

प्रशासनिक शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवा. लीडर में

रजनीश झा (25698),

दिनांक 19 जून 2005 से।

स्कवा.लीडर की मूल विंग कमाण्डर में

एस एन द्विवेदी (21878), पी गिरीश (21881), पी सिंह (21882), के के शर्मा (21883), वी एम मारडिकार (21884), के आर श्रीकांत (21885), बी श्रीकान्त (21886), एस कन्नन (21887), एम बीस्थ (21888), एम सिंह (21889), ए सहाय (21890), ए जे भाष्कार (21891), एस आर महापात्रा (21892), एस मल्होत्रा (21893), एस श्रवनन (21894), एस पी जाखर (21895), एस एस बैंग (21896), एस अग्रवाल (21897), एस निरवाल (21898), सी एस मिश्रा (21899),

दिनांक 13 जून 2005 से।

शिक्षा शाखा

स्कवा.लीडर की मूल विंग कमाण्डर में

एस जैकेब (21901), एम बदरूदीन (21902), एस गैकवार्ड (21903), एस वी हेगड (21904), के यादव (21906), सी एस ए गुप्ता (21907), एच एस सिडाना (21908), एस श्रीराम (21909), ए मिथू (21910), एस चेतरी (21911), आर चन्द्र (21912), बी एस गोयंडा (21913), एस एम शर्मा (21914), जे मैनी (21915), टी के खरे (21916), बी के जैकेब (21917), ए के दूबे (21919),

दिनांक 13 जून 2005 से।

मौसस शाखा

स्कवा.लीडर की मूल विंग कमाण्डर में

वी एस श्रीनिवास (21494), जे एस सिंहमर (21495),

दिनांक 13 जून 2005 से।

विंग कमाण्डर की मूल गुप कैप्टेन (Time Scale) में

पी के निगम (12558), आई जे बंगा (13340), जे एस गिल (13357), एस रामानारायण (13563), आर एस सक्सेना (13964), जे के कौल (13966), एस वी पांडेय (13968), पी गुरुमोहन (13972),

एच सी सिंघल (13974), आर धूलिया (13975), एम सी जोशी (14420), आर एस रायना (14421), आर पी त्रिपाठी (14422), आर पी शिवहरे (14424), आर के गुप्ता (14428), सी के भट्ट (14429), एम एस देशपांडे (14430), एस एच अग्रवाल (14431), जे निर्मल डोस (14860), ओ सी शेखरम (14863), पी सी दत्ता (14865), पी कुमार (14867), एस एस जरियाल (14868), के राजालिंगम (14869),

दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

मौसस शाखा

स्कवा.लीडर की मूल विंग कमाण्डर में

ए के श्रीवास्तव (17585), एम के होता (17586), एस के बाबू (17588), आर समीदुराई (17589), आई अगस्ताईन (17590), बी बी पांडुरंगी (17595), ए पी सीरो (17990), वी से सिंह (17991), पी आर मोहन (17992), संजय (18418), बी एस झा (18419), आर जैन (18420), एन शर्मा (18421), आर वीसन (18422), ए वाजपेयी (18423), ए के गोयल (18424), एस एन मिश्रा (18427), के आर नारायण (18428), आर के ढीगरा (18429), एस त्यागी (18430), एन के राणा (18431), एस नाथेसन (18856), आर श्रीवास्तव (18857), एस के विष्ट (18859), जे दूबे (18860), जे के साहू (18862), एस चंडहुक (18864), वी के चौधरी (18865), बोलिवर दीयास (18866), ए के कुलश्रेष्ठ (18867), वी वी एस राणा (18868), के रविकिरण (18869), पी के पांडेय (18872), एस के श्रीवास्तव (18982), ए श्रीवास्तव (18983), एस त्रिवेदी (18984), ए के तोमर (18985), आर के महाजन (18987), एन वी शंकर (18988), के प्रभाकर (18989), एस वी सिंह (18991), पी तुरी (19459), टी पी श्रीवास्तव (19460), ए पाठक (19462), एस मिश्रा (19463), एस रावत (19464), पी पी के अरोड़ा (19465), एस के सहगल (19466), एस वी कुटे (19467), एस मिश्रा (19987), ए के देवरानी (19988), एल ई जोसफ (19989), ए मेहता (20813), एस चतुर्वेदी (20814), एस एस मिश्रा (20815), के वी रामा राव (20816),

दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवा.लीडर में

एस के ठाकुर (23716), ए आप्ते (23717), ए सिंह (23930), डी कुमार (24162), ए मिलल (24163), (मिसेज) एस ठाकुर (24164),

दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

फ्लाईंग अफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

पी सिंह (26079), डी के पतनी (26209), (मिसेज) वीनिला वर्मा (26212), (मिस) सपना देवी (26639), (मिसेज) के निलम (26640),

दिनांक 16 सितम्बर 2004 से।

प्रशासनिक शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वा. लीडर रैंक में

(मिसेज) आर पी हक (24311), (मिसेज) टी मिसभा (24312), के वी ठाकुर (24330), एम एल जोशी (24331), टी आर बेहरा (24332), एम सी सुदान (24333), वी राजागोपाल (24334), जी के काहोल (24335), आर के शर्मा (24336), के सिंह (24337), जी पी चतुर्वेदी (24338), के एस सिंदे (24339), बी सिंह (24340), एम के नन्दी (24341), पी एस सुरंगे (24316), ए भारद्वाज (24553), वाई एस पनघल (24554), एम नामदेव (24555), आर ए कुमार (24557), श्रीवानन्द (24558), एम एस वेंकटरम (24559), आर रंजन (24560), एम के मिश्रा (24561), टी आर शैलेस कुमार (24562), आर समादार (24563), जी रजनीश (24565), एम एस सुब्रहमण्यम (24566), टी श्रीनिवासलू (24567), ए मुलिक (24568), वी श्रीधर (24569), एन एस राघवन (24570), एस सैयद अब्दुल राजाक (24571), एस सी पांडा (24572), एस पी सिंह (24574), बी सिंह (24575), वी रविचन्द्रन (24576), ए कुमार (24577), जी श्रीनिवास (24579), एल वी प्रहलाद (24580), आर सी भाटी (24581), (मिसेज) आर भारद्वाज (24591), एस महाजन (24592), (मिस) बसुदेव (24596), (मिसेज) एस के मिनहास (24599), (मिसेज), ए अग्रवाल (24600), ए मेनन (24602), (मिसेज) एम कौशल (24603), (मिसेज) बी कौर (24605), आर शर्मा (24606) (मिस) वी रामाचन्द्रन (24608), एस रावत (24610), आर चौधरी (24611), (मिस) एस पुनुसामी (24614), एस मल्लिक (24615), (मिस) एम देवी (24618), जे एस सोही (24619), (मिसेज) एस नाटियाल (24621), (मिसेज) एस नायडु (24622), जे एस नेगी (24623), (मिसेज) एन आर डाली (24624), बी बहादुरिया (24625), (मिस) डी जोशी एस भटनागर (24629), (मिसेज) जे चौधरी (24630), जी एन कुमार (24631), एन रावत (24632), (मिसेज) एम प्रधान (24633), (मिसेज) जे रावत (24634), (मिसेज) आर पनधी (24635), ए अम्बेदकर (24636), डी के त्यागी (24638), श्री हरि (24640), (मिस) एम तिवारी (24642), (मिसेज) आर के सिंह (24645), वर्मा एन (24908), आर सिंह (24926), आर धका (24934), जे पी सब्बरवाल (24972), आर के तिवारी (24908), पी शर्मा (24974), एस के सिन्हा (24975), आर सिंह (24976), टी एस बहल (24977), आर एस पबला (24978), एस एस मोहिते (24979), बी वी किशोर (24980), ए शर्मा (24981), एम पाण्डे (24982), आर सुब्रहमणी (24983), वी एस सलाधिया (24985), वी एस हाडा (24986), एस के खानुजा (24987), सुधीर कुमार (24988), डी दाता (24989), जी सिंह (24990), पी एस धनिया (24991), के के गुल्यानी (24992), वी एस सुग (24993), ए एम वेंकट (24994), एन जे रेड्डी (24995), डी एस वीरक (24996), एल के स्वामी (24997), डी बंसल (24998), (मिसेज) शेख गर्ग (25030), (मिस) अजिथा वी (25031), डी विरानन्धन (25052), आर एस भादुरिया (25053), आर डी फियालो (25133), जे पुशा (25152), ए के पांडे (25153), एच हज (25154), जी सक्सेना (25155), वी कश्यप (25156), एन के चाबा (25158), एल कुमार (25159), ए शर्मा (25160), ए ई थोमस (25161), एन राणा (25162), डी नायक (25163), एम तोमर (25164), के श्रीनिवासन (25165), एस शर्मा

(25166), के के खक्कर (25167), ए ए खान (25169), आर के रेड्डी (25170), ए बसीन (25171), एस नैथानी (25172), एस चक्रवर्ती (25173), जे एस सेहरावत (25174), (मिस) निधि शर्मा (25179), (मिसेज) ममता मनहास (25180), (मिसेज) रचना पुरोहित (25182), (मिसेज), आशा वशिष्ठ (25185), (मिस), शैलजा शर्मा (25184), (मिसेज) संगीता सिकरी (25185), (मिसेज), सुस्मिता सहाय (25187), (मिसेज), रूचिता सिसोदिया (25188), (मिस), प्रेमा नायर (25195),

(मिसेज) अरपिता चटर्जी (25198), एन कुमार (25199), जे के शर्मा (25195), (मिसेज) सुनन्दा महस्के (25203), एस शर्मा (25204), एम के पिल्लई (25205), (मिसेज) रश्मि देवाकुमार (25209), मिसेज राखी अग्रवाल (25215), ए शर्मा (25216), एन मंजू नाथ (25221), (मिसेज) मधुश्रीदास (25225)

--16 दिसम्बर 2004 से।

आर पी राय (25532), जे पी मिश्रा (25534), पी डी शुक्ला (25535)

--16 जनवरी 2005 से।

आर जे ए नसिर (25365), पी के साहू (25366), डी ए के पिल्लई (25367), जे के पांडेय (25368), एस त्रिपाठी (25371), ए शर्मा (25375), वी राघव (25377), ए यू सिंह (25378), (मिस) रीना गुप्ता (25404), (मिसेज) संगीता कथैट (25407), (मिस) नीधि अग्रवाल (25409), एन कुमार (25419)

--19 दिसम्बर 2004 से।

टी एम रेड्डी (23619), वाई दवाम (25064)

--21 दिसम्बर 2004 से।

प्रशासनिक शाखा

फ्लाइटिंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक में

पी वी रेड्डी (27087)

--06 जनवरी 2005 से।

वी चौधरी (26585)

--14 जनवरी 2005 से।

जे पी सिन्हा (24353), आर सिंह (26080), एस एस नैन (26137), डब्ल्यू आई सिंह (26345), आर एम रोगर्स (26346), जी एस चीमा (26347), एम कुमार (26348), वाई मौला (26349), ए कांत (26350), ए शर्मा (26351), एम एस ए कुमार (26352), एस शर्मा (26353), जी पी राधाकृष्णन (26354), के खन्ना (26355), एम बी रामामूर्ती (26356), टी एस नारायणा स्वामी (26357), (मिसेज) विपनजीन संधू (26365), (मिसेज) सोनिया रहेजा (26366), (मिसेज) जागृति चन्दना (26367), (मिसेज) मंजू पांडेय (26368), (मिसेज) पूटा सुधारानी (26369), (मिसेज) अरुंधती कुर्तादिकार (26370), (मिसेज) हर्षा जोशी (26371), (मिसेज) रीतुश्री (26372), (मिसेज) रजनी कोस्ता (26373), (मिसेज) रोजी अबरोल (26374), (मिसेज) पलावी पेन्से

(26375), डी के गौड (26382), एस सिंह (26386), यू के शर्मा (26387), एम एस पनवार (26388), वी तिवारी (26558), के बी बीनजु (26565), ए एस सिन्हा (26571), डी पूरी (26572), आर एस रावत (26573), एम पालीवाल (26574), एस एस राठी (26575), ए एस ठाकुर (26576), आर धवन (26577), एस श्रीधर (26578), ए सिद्धकी (26579), एस के शर्मा (26580), ए के चौहान (26581), वी के पाण्डेय (26582), के इलांचियन (26583), एस सुन्दर (26584), एम टी बी राव (26586), के सी ऐयर (26587), जी श्रीनिवासु (26588), एन मिथाहनी (26589), एम के सिंह (26590), एस भनोत्रा (26591), के जे एन्टोनी (26592), जे विजय (26593), ए खन्ना (26594), जी जे अभिशेख (26595), सी बी वर्जीज (26596), आर विष्ट (26597), ए ए भट्टाचार्यजी (26598), (मिस) पी ठाकुर (26611), (मिस) एन कौर (26612), (मिस) प्रतिभा शर्मा (26613), (मिस) पारुल मिश्रा (26614), (मिस) मिनाक्षी शर्मा (26616), (मिस) शालिनि चौधरी (26617), (मिस) सोनिया रावत (26618), एम सुभिय (26629), ए वी एस नारायणन (26630), एस शिवकुमार (26631), एम सिंह (26633), ए के प्रसाद (26634), एस कुमार (26635), एस एस नायर (26637), वी एस चौहान (26638), वी लाकेश (26630), पी झा (26748), एस जे नायर (26752), एस जोशी (26753), जी चेरियन (26754), एस अधिकारी (26755), वी मेनन (26757), वी पी एस सारिया (26758), ए सिंह (26759), एन डी चोल्बा (26760), आर एस बालिसिंह (26761), एल एन्टोनी (26762), पी पी श्रीवास्तव (26763), टी पी सुबिय (26764), एम के नायर (26765), ए के यादव (26767), पी शर्मा (26768), (मिसेज) प्रियदर्शनी राजालिंगम (26782), (मिस) एस अग्रवाल (26783), (मिस) सी अरोड़ा (26784), (मिस) पी शर्मा (26785), (मिस) एम मदन (26786), (मिस) एन मल्लिक (26787), (मिस) के गुंजन (26788), (मिस) एम पति (26789), एस दुबे (26796), एम सिंह (26797), आर सिंह (27015), एस एस बेदी (27016), ए दुबे (27017), डी एस बैरवाल (27018), एम एस राठौर (27019), पी प्रकाश (27020), एस सिंह (27021), ए कुमार (27022), वी पोनप्पा (27023), पी द्विवेदी (27024), ए एस नेगी (27025), एम वी एल नारायणा (27026), एम अरोड़ा (27027), वो वालसलान (27028), आर चौधरी (27029), ए कम्बोज (27031), ए राजू (27032), टी शर्मा (27033), डी मुरगन (27034), आई इलानककुमारण (27035), एस मिलेशदल (27036), पी सिंह (27037), ए रविकिरण (27039), एस मिश्रा (27040), (मिस) अनुपमा सिंह (27054), (मिस) भारती डिमरी (27055), (मिस) हरविन कौर (27056), (मिस) गीता एम आर मेनहास (27057), (मिसेज) गुरपीत अतवाल (27058), (मिस) पी सजनी (27059), (मिस) एल अबिरामी (27060), (मिस) तपस्या शर्मा (27061), (मिस) हेमलता अय्यर (27062), के विनोद (27068), ए शाह (27069), एच सिंह (27070), बी सिंह (27071), ए पी राजू (27072), एस चन्द्र (27073), ए के प्रियदर्शी (27074), एस वजीर (27075), एम कुमार (27076), विकास (27077), ए सिंह (27078), आर सैथिलनाथण (27079), एस सिंह (27080), जे प्रणिल (27081), एस सिंह (27082), डी के सिंह (27083), एन एम एस अली (27084), आर जैन (27085), पी के सिन्हा (27086), वी कपिल (27088), एस के चाहर (27089), एस सिंह (27090), पी सिंह (27091), के श्रीनिवासन (27092), एस एच कर्माकर (27093), बी पी नौटियाल (27094),

वी बौटियाल (27095), के ए नागराजन (27096), ए उप्पल (27097), एम बालासुब्रहमण्यम (27098), एन पी उप्पयाल (27100), एस भट्ट (27101), एस एस चौधरी (27102), पी पी कामथ (27103), वी रोहित (27104), एम दत्त (27105), जी अस्थाना (27106), सी के जेन (27107), वी आर वी कुमार (27108)

--16 दिसम्बर 2004 से।

एस के शर्मा (27303), आर के शुक्ला (27304), एम पी इलामुरुगु (27305), वाई आर यादव (27307)

--17 जनवरी 2005 से।

ए चतुर्वेदी (27246), एस जी कुमार (27247), पी डागा (27249), आर के चौधरी (27250), बी मिश्रा (27251), एम एस आर के नायर (27254), एम वी एस रेड्डी (27255), एम मायूरन (27256), एन गुप्ता (27259), एस अहमद (27260), एम शर्मा (27261), एन अरोडा (27264), एस वी के पिल्लई (27265), (मिस) डी बी डसमाना (27281), (मिस) आर पी पिल्लई (27282), (मिस) दीपिका नेहरा (27284), (मिस) नीता ठाकुर (27285), (मिस) एन चित्रा (27288)

--21 दिसम्बर 2004 से।

परिभारिकी शाखा

विंग कमाण्डर की मूल गृप कैटेन (Time Scale) में

जे एस कल्सी (13416), ए के सिंह (13424), वी एस कलान (13434), एम के राय (13676), पी के अग्निहोत्री (14051), आर के चतुर्वेदी (14056), एस पी मल्होत्रा (14508), एस एस मसुता (14517), आर के शर्मा (14521), एम एम बजाज (14522), एस के खुराना (14526), जी एस मक्कर (14527), ए शुक्ला (14526), आर कटारिया (14954), वी जे नारायण (14956), डी आर सिंह (14960), पी के मिश्रा (14961), चन्द्रशेखर (14962), वी के मेहता (14965), जेड ए रिज्वी (14968), पी चाटले (14972), जी एम जुटशी (14975), आर एस चौहान (15349), जे वी सिंह (15350), आर कपूर (15354), बी एम के अरोडा (15359), के एस मल्लिमथ (15362), आर के श्रीवास्तव (15364), आर भाल (15365), एम देशमुख (15349), ए के डे (15368), के के कृष्णगिण्या (15425)

--16 दिसम्बर 2004 से।

आर मल्होत्रा (15551), आर वी मोकाशी (15578)

--30 दिसम्बर 2004 से।

सी जे सिंह (21709), बी के सिन्हा (21710)

--01 फरवरी 2005 से।

एम एम राय (16451), आर के यादव (17523), ए मारवाह (17777), आर नन्दा (17779), पी एस मुल्तानी (18177), के विश्वास (18178), ए बी पटेल (18179), एस गुप्ता (18595), सी के बाबू (18636), आर आर गांधी (18637), आर के सिंह (18639), आर रतुरी (18642), एल जोसेफ (18643), आर मेडवल (18644), आई वी कृष्णा राव (18645), एम एम डी मुल्ला (18646), एम आर मिश्रा (18649), ए रावत

(18650), एस कुमार (18652), टी श्रीनिवास राव (18653), टी श्रीनिवास (18654), बी रविकुमार (19235), पी एस के कुमार (19236), ए बदोनी (19237), संतोष कुमार (19238), एम सुब्रह्मण्यम (19240), एम एम बिणु (19241), ए सिंह (19242), एस दत्ता (19243), एस के शर्मा (19244), टी मुथुकृष्णन (19245), एस के राव (19246), एन विश्वास (19248), आर बडोला (19249), डी अमरेश (19375), टी के टनटुबे (19376), ए के पान (19377), एन जी पत्रो (19378), एस के पाण्डेय (19379), आई डी मुखर्जी (19380), आर सी त्रिपाठी (19383), जे एस यादव (19384), सी एस चंदेल (19385), डी शर्मा (19386), वी के सिंह (19387), एस शर्मा (19388), जे पी सतपथे (19389), सी एस पाल (19390), आर सेठ (19391), पी राघव (19392), एल राथीनाकुमार (19483), जे एस बाडवार (19484), सी एम कामथ (19485), एस ए जादव (19486), ए अस्थाना (19494), पी शॉ (19495), आर के पाधी (19496), ए जयंथन (19497), एस के यादव (19498), ए चन्द्र (19499), ए के पाठक (19500), एस सक्सेना (19502), ए जोशी (19503), एम रवि कुमार (19504), पी कटुरिया (19505), बी एस यादव (19506), आर परिहार (19508), एस स्वामीनाथन (19509), एल मुखर्जी (19510), एम आर संदरेश (19884), के बग्गा (19890), एन के पिल्लई (19906), एन किशोर (19935), ए पी रंगानाथन (19936), एस के मिश्रा (19937), के श्रीनिवासन (19938)

स्कवा. लीडर की मूल विंग कमाण्डर में

बी चोंगम (19941), पी जे जादव (19943), एस चोपड़ा (19945), ए श्रीवास्तव (19946), ए राठौर (19947), ए के रीनिक (19948), एस जी मुराली (20079), आर कुमार (20081), पी एस कुलशेखर (20082), आर ए कुलकर्णी (20085), पी कुमार (20086), ए चौधरी (20087), पी एस रावत (20088), आर कुदेशिया (20089), के एम राव (20090), वी शर्मा (20091), आर शर्मा (20092), एस पी भारद्वाज (20093), बी श्रीनिवासन (20094), ए कुमार (20095), ए लहरी (20096), ए पी नन्दाकुमार (20097), वी एस कामथ (20125), आर सिद्धकी (20208), के रस्तोगी (20615), पी वी एन आर एम सरमा (20616), एन नवानी (20617), आर मल्लिक (20619), पी के गुप्ता (20620), सी एस भट्ट (20621), एन चंचला (20622), वी मेनन (20623), आर बांद्री (20624), भागवत (20625), एम दीयालानी (20626), के शर्मा (21350), पी मारवाहा (21351), ए आर बाबू (21352), डी बेदी (21353), एस रतन (21354), के एम अर्जुन (21355), एस तोमर (21356), ए त्रिपाठी (21357), एस के एस गोसाईं (21358), एम मंगल (21359), आर चंद्रा (21360), टी वी रेड्डी (21361), एम अवस्थी (21362), डी शर्मा (21363), एम मिश्रा (21364), ए के त्यागि (21629), ए पाल (21630), आर सी कुमार (21631), वी विदानी (21632), पी के अवस्थी (21633), एच सिंह (21634), ए के विस्नॉय (21635), पी पी सोनॉय (21636), एस गर्ग (21637), पी पी भास्करण (21638), एस के धाटू (21639), वी के रेड्डी (21640), ए श्रीवास्तव (21641), ए के सिसोदिया (21642), ए पी मेनिजस (21644), एस कुमारा (21645), एम एस एस चंद्रशेखर (21646), आर शंकर (21647), पी एच मसकरिहंस (21648), सी वी वी एस राव (21649)

--16 दिसम्बर 2004 से।

परिभारिकी शाखा

स्कवा. लीडर की मूल विंग कमाण्डर (Time Scale) में

सी के हजारीका (17776), डी एस जमुअल (17781), ए के राय (17786), ए पांडेय (17789), एस मंजुनाथ (17790), एम गोपाल (17792)

--21 दिसम्बर 2004 से।

परिभारिकी शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवा. लीडर में

आर नागाराजन (22898), आर खन्ना (23253), पी चक्रवर्ती (23260), एच एस कुंडल (23261), ए एम एस जोसेफ (23264), ए अग्रवाल (23528), जे के मगर (23820), एस मेनन (23821), ए मेथ्यू (23822), एस आर राव (23823), वी वी सिंह (23825), आर के त्रिपाठी (23826), ए भार्गस (23827), वी दत्ता (23828), (मिसेज) प्रिया सहगल (23849), (मिसेज) कोपल गुप्ता (23851), (मिसेज) सुनीता कोवारतरा (23852), (मिसेज) आसू खिन्दरिया (23853), ए डी यादव (23849), के एस चौहान (24277), ए के नरूला (24278), बी के पांडेय (24279), ए राणा (24280), जे मानडोडे (24281), आर मेहता (24282), के एम डेविड (24283), ए त्रिपाठी (24284), एस जैकब (24285), वी एस सेखावत (24286), एस कुमार (24287), वी सिंह (24288), ई पी स्याम (24289), पी के कार्तिकेयान (24290), आर मोहंथी (24291), डी ए राय (24292),

फ्लाईंग अफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

ए आदर्श (27271)

--28 फरवरी 2005 से।

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

(एम एस) एम चौधरी (27544), (एम एस) पी कुम्कुमा (27545), (एम एस) ए पठानिया (27546), (एम एस) आर दुबे (27547), (27544), (एम एस) एस सिग्धिया (27548), (एम एस) एन सैनी (27549), (एम एस) एम सिंह (27550), (एम एस) एस महतो (27551), (एम एस) बी भट्ट्यचार्य (27552), (एम एस) आर सिंह (27553), (एम एस) टी राशि (27554), (एम एस) जे चौधरी (27555)

--21 जून 2005 से

लेखा शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

(एम एस) आर पूरी (27556), (एम आर एस) वी डी मेनन (27557), (एम एस) नवचेतन (27558), (एम एस) ए सब्बरवाल (27559), (एम एस) एस सक्सेना (27560), (एम एस) पी सीमवाल (27561)

--21 जून 2005 से

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

(एम एस) पी चोपड़ा (27562), (एम आर एस) एम सेनगर (27563),
(एम एस) वी वी अभ्यंकर (27564), (एम एस) पी पाठक (27565),
(एम एस) आर जोशी (27566), (एम एस) डी
उपाध्याय (27567)

--21 जून 2005 से

मौसम शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

(एम एस) आर धीमरी (27192)

--21 जून 2005 से

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

टंडापानी (27501), गोपीनाथ (27502), के ओझा (27503),
के पिल्लई (27504), शर्मा (27505), वी रामाना राव (27506), सचिन
(27507), पी धन्ध (27508), पी गुपेत (27509), सुरेन्द्र (27510),
मोहन्ता (27511), के पाल (27512), मजुमदार (27513), पाठक
(27514), जय कुमार (27515), शाह (27516), सक्सेना (27517),
ए जयसवाल (27518), के निगम (27519), मेनन (27520), जे सिंह
(27521), अरुण कुमार (27522), टी नायर (27523), वी सिंह (27524),
एरी ओम (27525), ए के तिवारी (27526), दहिया (27527), डी आर
सी एस मेनन (27528)

--21 जून 2005 से

लेखा शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

यू नायर (27529), सूध (27530), पदम कुमार (27531), सरपाल
(27532), नायर (27533), अनदीप (27534), डी इन्गले (27535),
एस नेगी (27536), गांगूली (27537), सक्सेना (27538)

--21 जून 2005 से

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

एस गुजराल (27539), अनुज कुमार (27540), पोखरियाल (27541)

--21 जून 2005 से

मौसम शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

एन तिवारी (27542)

--21 जून 2005 से

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

ओ भारद्वाज (27568)

--21 जून 2005 से

परिभारिकी शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल स्कवा. लीडर में

(मिसेज) कुकरेती (24314), (मिसेज) जय लक्ष्मी (24315),
(मिसेज) एममोडल (24316), रामजी (24345), आर सिंह (24348),
डी वी बी मिहिर (25000), जी सी महापात्रा (25001), टी के रजिन्द्रन
नायर (25002), के शर्मा (25003), एल एन पांडेय (25004), ए कुमार
(25006), आर दीक्षित (25012), एस श्रीवास्तव (25013), वी शर्मा
(25014), एन कौशिक (25015), (मिसेज) हीमानी पांडेय (25036),
ए वी मजुंदार (25096)

--16 दिसम्बर 2004 से

बी विश्वास (25379), रामाकांत (25380), वी विश्वनाथन (25381),
एस यादव (25384), बी भागवत दीलिप (25385), पी के यादव
(25388), पी वारसने (25389), पी के एस अहलावत (25390), पी के
सिंह (25391), एस के सिंह (25392), ए टी सायक (25393), (मिसेज)
पूजा मल्लिक (25412), (मिसेज) कामना कत्री (25413), (मिसेज)
सुमिसा प्रधान (25414), ए उपाध्याय (25421)

--19 दिसम्बर 2004 से

एस शिवकुमार (25382)

--26 दिसम्बर 2004 से

परिभारिकी शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट में

ए के शर्मा (26327), ए शाहा (26340), एस गंगो उपाध्याय (26358),
पी के श्रीवास्तव (26359), एम एस मनहास (26360), एस पी सिंह
(26361), एस के एम नायर (26362), के मुखर्जी (26363), (मिसेज)
रजनी गुप्ता (26377), (मिसेज) शांता मिश्रा (26378), (मिसेज) अमृत
कौर चांदनी (26379), (मिसेज) अंजली दीक्षित (26380), (मिसेज)
नीना भाटी (26381), एम के पांडेय (26769), वी एस चौधरी (26770),
एस के राय (26771), एम मुरली (26772), वी मनकोटिया (26773),
वी वी कुमार (26774), ए एल किशोर (26775), पी आर गुरुप्रसाद
(26777), जे भीड (26778), एम बी कुशलप्पा (26779), (मिसेज)
बी दत्ता (26790), (मिसेज) पायल जोशी (26791), (मिसेज) मोनिका
विशिष्ट (26792), (मिसेज) एस शर्मा (26793), (मिसेज) सुखविन्दर
कौर सुदान (26794), (मिसेज) स्वाति श्रीवास्तव (26795)

--16 दिसम्बर 2004 से

डी चौधरी (27266), डी गणपति (27267), ए के शर्मा (27268),
आर आर महेन्द्र (27270), डी के तिवारी (27273), (मिसेज) अनुराधा
ठाकुर (27289), (मिसेज) वर्षा सक्सेना (27290), (मिसेज) गिन्सी
थोमस (27292), (मिसेज) आरती भादुरिया (27293)

--21 दिसम्बर 2004 से

टी आर शर्मा (27274)

--21 फरवरी 2005 से

प्रशासनिक शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवा. लीडर में

(एम एस) निर्मल त्यागी (256921), (एम एस) शकुन्तला बोरा (25693), (एम एस) सीमा नन्दकुमार (25696), (एम आर एस) अंजलि आयर (25694), (एम एस) सुस्मीता महापात्रा (25695)

--19 जून 2005 से

परिभारिकी शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवा. लीडर में

(एम आर एस) आभा तेत्र (25275), (एम एस) सीमा दहिया (25275)

--19 जून 2005 से

प्रशासनिक शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवा. लीडर में

मनप्रित सिंह बाधवन (25671), एम यज्ञनारामन (25672), सैयद अबिद अली (25674), राकेश कुमार राणा (25675), रोहित दहिया (25677), श्रीनिवासन बी (25678), अतुल अप्रित (25673), पंकज बल्यशायन (25676), वालरू श्याम प्रसाद (25679), विनायक शर्मा (25680), जोजू पी डो (25681), राजिव पूरी (25682), अरुण मिश्रा (25683), अशिस पंडित (25684), हीतेश पनवर (25685)

--19 जून 2005 से

शिक्षा शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवा. लीडर में

डी के कौशिक (25686), आर एस डोमनिक (25687), कमल विवेक त्यागी (25688)

--19 जून 2005 से

रामकिशन यादव (25699)

--19 जून 2005 से

प्रशासनिक शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवा. लीडर में

सतीश गोपालन नायर (25226), शान्तनु (25228)

--12 अप्रैल 2005 से

सी डी डोगरा (23237), टी पेटनकार (23241), एस सिंह (23249), एस एस पान्डा (23251), ए दयाल (23252), (श्रीमती) रचना शर्मा (23288), (श्रीमती) रागश्री दिनेशन नायर (23311), जी पी चतुर्वेदी (23396), बी एस सिसोदिया (23497), पी एन सिंह (23504), एस टी पुनथिल (23596), एस एच भंडारी (23601), आर जनार्दन (23603),

आर शर्मा (23607), टी सुनील (23609), टी एस खान (23614), एस आर त्रिपाठी (23622), जी एन बी वी आनन्द (23626), बी सिंह (23778), ए श्रीवास्तव (23794), वी सिंह (23795), एस गिरीश (23802), वी वेर्यकटरमण (23803), वाई सुब्रहमण्यम (23804), जी एस बासन (23805), एम वी रमेश (23806), आर एस यम्मे (23807), टी प्रसाद (23808), एस स्टीफन (23810), आई एम अत्री (23812), आर के नन्दा (23813), एस पाटिल (23814), एम एस मैथ्यू (23815), आर के सैनी (23816), पी सिंह (23817), एम के पाठक (23818), (श्रीमती) ज्योति मेहता (23844), (श्रीमती) रोमी चौधरी (23846), (श्रीमती) बी बन्धोडपाध्याय (23847), (श्रीमती) तरुणा सिंह (23848), सी बी भोले (23915), सी सिद्धधान (23917), एस के नन्दी (23918), जे पाण्डयन (23919), एच जी सिंह (23920), आर आर शुक्ला (23921), पी के जेना (23922), बी के विश्वास (23923), (श्रीमती) एस चौहान (23935), (श्रीमती) शर्दा सिन्हा (23937), (श्रीमती) एन गायत्री (23939), (श्रीमती) मधुर हांडा (23940), (श्रीमती) रूमी कुशवाहा (23941), (श्रीमती) नवदीप परमार (23942), (सुश्री) मुल्की प्राप्ति (23943), (श्रीमती) मिनाक्षी राय (23944), (श्रीमती) रेखा शेखावत (23951), (सुश्री) रेणु बिशेन (23953), ए पी राजेश (23956), (श्रीमती) नीतू थपलियाल (23958), बी एस नायर (23959), (श्रीमती) बी एम थियोगाराजन (23961), (सुश्री) सी जासमिनि (23964), ए शर्मा (23965), डी एस नेगो (23969), (श्रीमती) लता आरोमुंगम (23970), एम दिखा (23971), टी एस शर्मा (24063), पी सी कालिया (24065), एस के वर्मा (24066), सी पी पांडे (24067), जे ए पोरसेल्वम (24068), टी देशाई (24069), डी एन तिवारी (24070), एन के मरसूर (24071), एस के पांडे (24072), एस एस बुधवार (24073), बी बी के राव (24074), डी के चौधरी (24075), एस कुमार (24076), वाई एस प्रसाद (24078), बी शुक्ला (24079), के कल्याणरमण (24080), जयकिशन (24081), पी के पुरूषटी (24082), जे चाको (24083), जी कौशिस (24084), जे के चौहान (24085), एस पी एस सेतिया (24086), डी सिंह (24087), डी बी मोरे (24088), एस एन अहमद (24089), एम कुलकर्णी (24090), बी कोसे (24091), वी वी पॉल (24092), एम इमरान खान (24093), एस मौर्या (24094), सरानाप्या (24096), एन कुकरेती (24098), बी एच कुमार (24099), ए बाजपेयी (24101), पी श्रीकान्त (24102), एस एस भोंसले (24103), एस भट्ट्याचार्या (24104), (मिसेज) एम थपलियाल (24111), (मिसेज) एस धर (24112), (मिसेज) एन सिंह (24113), (मिसेज) यू सालिग्राम (24114), (मिसेज) एम ठाकुर (24115), (मिसेज) बी मेहरा (24116), ए वी पेटिया (24197), जी पी श्रीवास्तव (24257), आर के खरे (24258), एच पी वास्वान (24259), एस चन्द्र (24261), एन सिंह (24262), ए ए मनदार्जी (24263), एस के सिंह (24264), बी एस रांधवा (24265), एन एस राव (24266), एम विजयाकुमार (24267), एस बिन्द्रा (24268), जी आर विजय (24269), पी हरिश (24270), वी पी सिंह (24271), एस पटनायक (24272), के राजीव (24273), जी जीतेन्द्रन (24274), (मिस) एस रावत (24308)

स्कवाड्रन लीडर की मूल विंग कमांडर रैंक में

एस कुमार (20572), पी एन एस नायर (20579), एकपूर (20580), बी जे मामन (20581), आर मुथुवेल (20582), ए कपूर (20583), एन एस बाजवा (20584), एस आर साहिल (20585), वी के तिवारी

(20587), के पी सोलंकी (20588), जे सिंह (20589), एन के सिंह (20591), यू मनोज (20592), ए जी सोना (20596), एन नागराजन (20597), एस के सिंह (20598), बी एस बाजवा (20599), एस डाका (20600), एम पी सामसन (20601), एम के शर्मा (20602), एम वर्गीस (20603), एम बी कुमार (20605), ए कपूर (20606), आर एस शयौरान (20609), वी बनर्जी (20610), पी मिश्रा (20611), एम सक्सेना (20612), आर जी नक्की (20614), आर शर्मा (20769), एस के मनोहरण (21302), जी एस सिधू (21304), वी के दीक्षित (21306), एच पी सिंह (21307), एस कुमार (21308), के आर श्रीराज (21309), एच एस चौधरी (21310), डब्ल्यू जोसफ (21311), एन एस सांगरी (21312), ए आर एन शर्मा (21313), एस के नाथ (21315), आर एस चंडावत (21316), वी अहूजा (21317), एस विस्नॉव (21318), वी के मोहन (21319), वी त्रिपाठी (21320), जे मैथ्यू (21321), ए ए अमरिते (21322), पी पी देवनाथ (21323), बी के शर्मा (21324), आई नन्दकुमार (21325), के रविन्द्र (21326), वी शर्मा (21328), डी पाठक (21330), आर गुप्ता (21331), के जे जोसफ (21332), ए खन्ना (21333), एच ई नादर (21334), एस के सुकुमारण (21335), एन मिश्रा (21338), के गोपाल (21339), आर प्रसाद (21340), आर सिंह (21341), जी कोरैया (21342), के वी राव (21343), एस धवन (21344), डी शर्मा (21346), एस वी भामबनी (21349), एस संजीव (21595), डी एस कहलोन (21603), टी एन सुनील (21604), वी धामी (21605), आर शर्मा (21607), पी के बस्तीया (21608), जे के सिंह (21609), एस बेलायुधन (21610), एस फिलिप (21611), आर सी तमंग (21612), के ललीतेन्द्रा (21614), ए कपूर (21615), ए चौधरी (21617), ई जी ए पी राव (21618), आर त्रिपाठी (21603), जे जे सिंह (21620), एस एम तंगरी (21622), आर के शर्मा (21623), एन बेहरा (21624), पी चटर्जी (21625), एस के सिंह (21626), वाई शर्मा (21627)

दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से

प्रशासनिक शाखा

स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमांडर रैंक में

टी साजन (17750), के मनोहरण (17751), वी वेंकटरम (17754), ए कुमार (17755), एस सी अडावटकर (17765), एम नित्यानंदन (17767), ए आर शशिधर (17771)

दिनांक 21 दिसम्बर 2004 से

प्रशासनिक शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

एस के चौहान (25193), एस अय्यर (25197), टी चौधरी (25206), एस पी गिडा (25207), एम दुराईराज (25208), ए के नायर (25210), ए के मल्लिक (25211), पी राजेश (25212), ए पिल्लैई (25223)

दिनांक 02 अप्रैल 2005 से

पी गोखले (25101)

स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमांडर रैंक में

एस रंगामनी (18155), आर डी मुसवी (18158), वी सुबाराव (18160), ए के मित्रा (18292), एस एस सलुंखे (18302), एस दूबे

(18309), ए मुखर्जी (18310), डी बी पाटिल (18312), आर डी एस रावत (18313), टी पी व्यास (18315), पी पारिख (18317), एस के प्रकाश (18318), ए के भटनागर (18319), पी आनन्द (18320), एस चंदेल (18321), आर गणेश (18322), डी सिंह (18323), पी के घोष (18324), एस के धवन (18325), आर श्रीनिवासन (18327), वी सिंह (18328), एम वासदेव (18330), एस संदवार (18331), वी के कुलश्रेष्ठ (18333), ए राय (18334), जी जोसफ (18336), ई आर राजपन्न (18602), जी हजार (18603), एस सचदेव (18604), ए गोयल (18605), आर के सैनी (18606), ए एस करकरे (18607), एस आर मेनन (18608), जे एस बोपाराय (18610), आर के मिश्रा (18611), एस पी शर्मा (18613), डी के पांडे (18614), ए सिंघा (18615), ए घोष (18616), पी एस रथ (18619), ए पांडे (18620), वी एस राधाकृष्णन (18621), एम सुनामुडि (18623), जे पी एस जस्सल (18625), आर के अरोड़ा (18626), एस एस ठकुर (18628), बी नाग (18629), आर जे ओल्कर (18630), ए कुमार (18631), ए चतुर्वेदी (18635), जोस मथाई (18630), एम के शर्मा (18873), यू के गंभीर (18875), पी जे वालिया (18876), ए के अरोड़ा (18878), एस श्रीवास्तव (18879), वी के कर्णधिकर (18880), टी थोमस (18881), डी दत्तारोई (18882), पी एस चक्रवर्ती (18883), एन घोष (18885), पी जैन (18888), एस पति (18889), एस पूरी (18891), आर के आनन्द (18892), एस मेदिरत्ता (18893), एस शर्मा (18894), आर कपूर (18896), वी दूबे (18897), वी कौशल (18898), जे पी एस चौहान (18899), डी कुमार (18900), एम नसीर (18901), आर पी सिंह (18902), ए त्यागि (18903), पी शुक्ला (18904), एस कुमार (19169), एम शर्मा (19221), पी एस करकरे (19222), डी सी पांडे (19223), आर सिंह (19224), ए एस देशपांडे (19226), एम मुजिब (19228), एस के मिश्रा (19229), पी एस कौशिक (19230), एम कुमार (19231), वी वर्मा (19232), ए के नायर (19234), एम के सन्याल (19468), पी ए नायडू (19469), आर मोइत्रा (19471), आर पी सिंह (19474), एस सिंह (19475), आर के धीर (19476), सी के श्रीनारायण (19478), एस श्रीकान्त (19479), ए वशिष्ठ (19481), एम गांधी (19482), एन पंत (19918), ए वी मुथाल (19920), एस भरत (19921), आर वर्मा (19922), एन ए अलेक्जेंडर (19924), एन सी श्रीवास्तव (19925), एन शिवकुमार (19926), वी एस हरदास (19927), जे वी राणे (19928), आर रंजन (19929), एस मिश्रा (19930), वी सिंह (19931), ए शुक्ला (19932), वाई वेणुगोपाल (20054), एस ए वर्गीस (20055), आर चड्ढा (20058), एस बालाचन्द्रण (20060), टी एन पांडे (20062), आर खरे (20063), एन वेंकटेश (20065), एस मुरली (20066), वी आर डेसा (20067), एन परनन (20068), एम श्रीवास्तव (20069), जे एस गिल (20070), ए कुमार (20071), के डी वेरि (20072), पी खरे (20073), जी वालिया (20074), एम के मोहनदास (20075), पी एस बी राव (20078), ए वी अगलावे (20153), डी सिन्हा (20161), जे एस भल्ला (20186), आर एम मगदम (20187), आर वी रामकिशोर (20188), एम अरिविज्ञान (20189), के एन यादव (20190), एस कोल (20191), एम वी एन साई (20192), वी के शर्मा (20193), जे वेंकटेश (20194), सी श्रीनिवास (20196), सी बनर्जी (20197), एन विजय कुमार (20198), के अरसन (20199), आर के छाबड़ा (20201), एस के साहू (20202), एम वी आर विक्रमन (20203), एम एस जयसिम्मा (20204),

एस शिवकुमार (20205), आर के शिसोदिया (20206), जे तिवारी (20405), के कुमार (20409), ताराचंद (20412)

उड़ान (नेविगेशन) शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक में

एस अमरुजकर (26130), ए पाण्डे (26333), जेड थोमस (26334), एस सिंह (26335), जे रामण (26336), एन अरुण कुमार (26337), एस धिन्डियाल (26338), एन के पी भोसले (26339), एम आर मिश्रा (26341), वी के चक्रवर्ती (26342), जी दत्तागुप्ता (26343), ए चौहान (26344), डी भारद्वाज (26563), एस बी शर्मा (26564), पी के राय (26566), ए पाठक (26567), ए के सूद (26568), एस शर्मा (26569), वी अनील कुमार (26570), ए उमर (26744), यू उमराव (26745), आर सागर (26746), के एस सोनि (26747), एन चौहान (26749), डी एस राजपूत (26750), बी सैक्या (26751), एम कुलश्रेष्ठा (27009), ए शिव कुमार (27010), पी पी बोरा (27011), वी के पन्जीयर (27012), आर कुमार (27013), ए चोडिया (27014)

--16 दिसम्बर 2004 से

एस के कर्कूजी (27223), बी जोसी (27234), एम शर्मा (27236), आर राय (27237), आर सांगवान (27239)

--21 दिसम्बर 2004 से

विंग कमाण्डर की मूल ग्रुप कैप्टेन (Time Scale) रैंक में

के एस सेखों (25178)

--16 दिसम्बर 2004 से

उड़ान (नेविगेशन) शाखा

स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमाण्डर रैंक में

एस राजकुमार (20566), के सिंह (20567), यू के झा (20568), एस वी कांटे (20569), एस श्रीवास्तव (20570), डी पी सिंह (20573), के सिन्हा (20802), आर के सिंह (20803), एस के माथुर (20804), एल के जैन (21036), आर एन चक्रवर्ती (21037), वी अग्रवाल (21038), आर एस भाटिया (21039), आर एम कुमार स्वामी (21040), डी सूरी (21041), एस के सिंह (21042), पी सर्वेनन (21043), ए बनर्जी (21044), एन हरिकृष्णन (21045), वी चन्द्रा (21046), वी कृष्णापा (21049), के आर चन्द्रा (21283), एस मुरली (21284), वी रवि (21285), ए पी कश्यप (21286), आर साहू (21287), एस थोमस (21288), डी मित्रा (21289), एन एस धामे (21291), जे पी नाथ (21292), वी के अग्रवाल (21293), वी निगम (21294), डी चक्रवर्ती (21295), टी एस एस कृष्णन (21296), एस दीक्षित (21297), के ए एफ स्वीट्स (21298), एम के कुल्कर्णी (21299), पी अत्रे (21300), एस खान (21581), वी राजागोपालन (21582), एस वी अरुणकुमार (21584), एस के गुप्ता (21585), एस के पॉल (21586), एस एन प्रसाद (21588), आर किरण (21589), एन पी प्रवीण (21590), आर के सनेही (21591), आर पेंवार (21592), वाई एम नाडकर्णी (21593),

वी एस राणा (21594), एस के सिंह (21597), वी के जैन (21598), ए के झा (21600), एस एस जाडव (21601), डी अहलुवालिया (21602)

--16 दिसम्बर 2004 से

उड़ान नेविगेशन शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वा लीडर रैंक में

एस के गौड़ (23230), एच एस सासन (23579), आर यादव (24061), के काला (24246), पी धारवाल (24247), पी वेणुगोपाल (24248), आर के विश्वास (24249), पी सिंह (24250), पी वी देशपांडे (24251), पी डेविस (24252), आर घोस (24253), एच दुआ (24254), ए सिन्हा (24255), ए ए केल्कर (24256), एस विश्वास (24541), एस पिल्लई (24542), एम जय कुमार (24543), ए के सिंह (24544), ए एम राणे (24545), एस पटनायक (24547), पी एल वैद्या (24548), सी वी दांडेकर (24549), एन वी पल्लव (24551), एस कुमार (24552), ए के बहुगुणा (24961), जे कुमार (24962), आर एम नायर (24963), डी के साहनी (24964), वी गुप्ता (24965), वी अग्निहोत्री (24968), आर सिंह (24969), एम शुक्ला (24970), के एस चौहान (24971), वी के त्रिपाठी (25142), ए खन्ना (25143), ए श्रीवास्तव (25144), एस कपूर (25145), एम के श्रीवास्तव (25146), जी सूद (25147), पी के मिश्रा (25148), ए तिवारी (25149), पी के मिश्रा (25151)

--16 दिसम्बर 2004 से

डी महेश्वरी (25354), जे एस श्रीहरि (25356), आर राकेश (25357), ए के डैस (25360), ए जैन (25361)

--19 दिसम्बर 2004 से

एस. श्रीवास्तव

विंग कमाण्डर

जे डी पी ओ 3(डी)

वायु शाखा

सं. 392, दिनांक 5 जुलाई 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर वायस मार्शल के मूल रैंक में

आर यादव (12809) वै.ई. (यां), 29 दिसम्बर 2005/13 जून 2005 (वरिष्ठता के लिए मान्य होगी इससे वेतन व भत्ते पर कोई असर नहीं होगा।)

(इनका नाम एयर वायस मार्शल के एम रामासुन्दर (12833) वै.ई.(वै) और आर एस संधु (13174) वै.ई.(यां) के बीच में आयेगा।)

के वी शंकर

संयुक्त निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2(बी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th August 2006

AIR BRANCH

No. 386, the 10th July 2006.—The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (on probation) in the rank of Fg Offr wef date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE
U/T OFFICERS TO BE FG OFFR
METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Ofr P Nishant (27191), Himanshu Singh (27631) wef 19 Jun 2004.

The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned officers wef the date mentioned against their names under provisions of AFO 59/98 :—

EX-FLT CDTS TO BE FG OFFR
ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Rajkumar Shanmugham (28038), Rakesh Kumar (28039), Harendra Singh (28040), Shailesh Sharma (28041), Sujoy Biswas (28043), Sajith Kumar Neravathu (28044), Venkata Rama Raju G (28045), N Praveen Kumar (28046), Anand Dubey (28047), Vivek Deshwal (28048), Shivakumar V (28049), Abhishek Rana (28050), Jagvindra Singh (28051), Dinesh Tyagi (28052), Praveen Kumar (28053), Sheik Yakub Ali (28054), Sumit Kumar Pal (28055), Vikrant Rawat (28056), Kondalarao Settupalli (28057), Avinash Singh Kalsi (28058), Mahesh Singh Rathore (28059), Sanjib Kumar Mahala (28060), Sreejith Sadasivan (28061), Chandra Prakash (28062), Khizar Hussain Jana (28063), Siddhartha Kumar (28064), Vishal Chopra (28065), Vijay Jadhav (28066), Rahul Kumar (28067), Prasanth B (28068), wef 19 Jun 2004.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Dhiraj Hooda (28069), Paramjet Singh (28070), Amit Mukherjee (28071), Santosh Saheblal Mishra (28072), Tejomurtula Venkata Satya Subhramanyam Veerabhadra Suryanarayana Vitthal (28073), Manish Sangwan (28074), Rajesh R (28075), Ghumare Santosh Nandkumar (28076), Abhishek Bhullar (28077), wef 19 Jun 2004.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Rakesh Sharma (28078), Godbole Vinayak Ravidatta (28079), Ajith Radhakrishnan (28080), Bhanu Prakash CS (28081), Shanmugam (28082), wef 19 Jun 2004.

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Arvind Mohan Vamsi Govindu (28083), wef 19 Jun 2004.

S SRIVASTAV
Wg Cdr
JDPO-3(D)

AIR BRANCH

No. 387, the 10th July 2006.—The President is pleased to confirm the undermentioned Short Service Commission officers wef the date stated against their names :—

INDIAN AIR FORCE
ADM BRANCH

Fg Offr Nabanita Senapati (28087), Vasundhara Kaushal (28088), GT Amulya Lyngdoh (28089), Amandeep Dhaliwal (28090), wef 19 Jun 2004.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Shatanshu Jaggi (28091), Meenakshi Agnihotri (28092), Smriti Dixit (28093), Vinaya D Aluwalia (28094), Abhisheka Shrivastava (28095), Sini Thomas (28096), Rajlakshmi Shankar Patil (28097), Archika Chaturvedi (28098), wef 19 Jun 2004.

EDN BRANCH

Fg Offr Shalu Lata Chandel (28099), Sangita Paulraj (28100), Srikala G (28101), Sunita Rani (28102), Delshad Darius Master (28103), wef 19 Jun 2004.

MET BRANCH

Fg Offr Pooja Ghildiyal (27632), Shabeena Shahnawaz (27633), wef 19 Jun 2004.

The President is pleased to confirm the undermentioned officer wef the date stated against their names :—

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Fg Offr Dutta Sukanto (27949), Sharathchandra Srivastvan (27974), Wangkhem Suresh Singh (27984), Neeraj (28014), Mishra Soumitra Munnulal (28018), Himanshu Tiwari (28020), Kshitij Kapoor (28023), wef 19 Jun 2004.

The President is pleased to confirm the undermentioned officers were Permanent Commission (on probation), wef the date mentioned against their names :—

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Rajkumar Shanmugham (28038), Rakesh Kumar (28039), Harendra Singh (28040), Shailesh Sharma (28041), Sujoy Biswas (28043), Sajith Kumar Neravathu (28044), Venkata Rama Raju G (28045), N Praveen Kumar (28046), Anand Dubey (28047), Vivek Deshwal (28048), Shiva Kumar (28049), Abhishek Rana (28050), Jagvindra Singh (28051), Dinesh Tyagi (28052), Praveen Kumar (28053), Sheik Yakub Ali (28054), Sumit Kumar Pal (28055), Vikrant Rawat (28056), Kondalarao Settupalli (28057), Avinash Singh Kalsi (28058), Sanjib Kumar Mahala (28060), Sreejith Sadasivan (28061), Chandra Prakash (28062), Khizar Hussain Jana (28063), Siddhartha Kumar (28064), Vishal Chopra (28065), Vijay Jadhav (28066), Rahul Kumar (28067), Prasanth B (28068), wef 19 Jun 2004.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Dhiraj Hooda (28069), Paranjit Singh (28070), Amit Mukherjee (28071), Santosh Saheblal Mishra (28072),

Tejomurtula Venkata Satya Subhramanyam Veerabhadra Suryanarayana Vittala (28073), Manish Sangwan (28074), Rajesh R (28075), Ghumare Santosh Nandkumar (28076), Abhishek Bhullar (28077), wef 19 Jun 2004.

EDN BRANCH.

Fg Offr Rakesh Sharma (28078), Godbole Vinayak Ravidatta (28079), Ajith Radhakrishnan (28080), Bhanu Prakash CS (28081), Shanmugam (28082), wef 19 Jun 2004.

MET BRANCH

Fg Offr Arvind Mohan Vamsi Govindu (28083), P Nishant (27191), Himanshu Singh (27631), wef 19 Jun 2004.

S SRIVASTAV
Wg Cdr
JDPO-3 (D)

ARMY BRANCH

No. 388, the 3rd July 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Bainsi Chand (JC-518531H), 21 Dec 2005.

Sub Chatter Singh Thakur (JC-518764K), 1 Feb 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Jan 2006 without effect on Pay & Allowances).

Sub Sukh Ram (JC-519154K), 2 Feb 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Feb 2006 without effect on Pay & Allowances).

To be Sub Maj/Clk

Sub/Clk Kamlesh Chand (JC-518543X), 1 Jan 2006.

To be Sub

Nb Sub Sukar Singh (JC-519486N), 27 Dec 2005+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 May 2005 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Mohinder Singh, SC (JC-519488Y), 10 Jan 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 Jun 2005 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Surinder Kumar (JC-519704F), 21 Feb 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 28 Jun 2005 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Amar Singh (JC-519798K), 3 Mar 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 28 Jun 2005 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Shamsher Singh (JC-519544M), 1 Jul 2005

Nb Sub Dhani Ram (JC-519545P), 1 Aug 2005

Nb Sub Neel Chaud, SC (JC-519651N), 8 Jan 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 Sep 2005 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub Battan Singh (JC-519643P), 1 Sep 2005

Nb Sub Karnail Singh (JC-519547A), 1 Oct 2005

Nb Sub Rattan Singh (JC-519548H), 1 Nov 2005

Nb Sub Shobha Ram Thakur (JC-519564A), 1 Nov 2005

Nb Sub Ranjeet Singh (JC-519645N), 1 Nov 2005

Nb Sub Ram Kishan, SM (JC-519660P), 1 Nov 2005

Nb Sub Mohan Lal (JC-519777H), 1 Nov 2005

Nb Sub Parkash Chand Patial (JC-519676A), 28 Nov 2005

Nb Sub Rachhpal Singh (JC-519677H), 1 Dec 2005

Nb Sub Hans Raj, SM (JC-519661K), 1 Dec 2005

Nb Sub Karnail Singh (JC-519851K), 5 Mar 2006

To be Sub Clk

Nb Sub/Clk Krishan Kumar (JC-519385A), 29 Oct 2005+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 Oct 2005 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub/Clk Dan Singh (JC-519427F), 1 Nov 2005

Nb Sub/Clk Subitash Chand Rana (JC-519498H), 1 Dec 2005

Nb Sub/Clk Sarvan Kumar Thakur (JC-519741P), 1 Dec 2005

Nb Sub/Clk Hans Raj (JC-519499L), 1 Dec 2005

Nb Sub/Clk Vir Shiromani Tiwari (JC-519491Y), 9 Jan 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 Jun 2006 without effect on Pay & Allowances).

Nb Sub/Clk Mahender Partap Chauhan (JC-519565A), 1 Jan 2006

Nb Sub/Clk Rajvir Singh (JC-519645A), 13 Jan 2006

Nb Sub/Clk Ramesh Kumar Patyal (JC-519663H), 1 Feb 2006

Nb Sub/Clk Kishori Lal (JC-519796Y), 1 Mar 2006

Nb Sub/Clk Parkash Chand Sharma (JC-519815Y), 9 Mar 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 Mar 2006 without effect on Pay & Allowances).

To be Nb Sub

Hav Hans Raj (No. 3984727M now JC-520287M), 1 Jun 2005

Hav Gurdash Ram (No. 3984988A now JC-520288P), 1 Jul 2005

Hav Thakur Singh (No. 3983540N now JC-520289X), 7 Nov 2005

Hav Malinder Singh (No. 3985241N now JC-520290M), 8 Nov 2005

Hav Brij Lal (No. 3989821A now JC-520291P), 4 Jan 2006+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 14 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Vinod Kumar (No. 3984611W now JC-520292X), 8 Dec 2005

Hav Jagdeep Singh (No. 3984653H now JC-520293A), 11 Dec 2005

Hav Bikram Singh (No. 3984670H now JC-520294H), 6 Mar 2006+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 7 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Naveen Kumar (No. 3387575K now JC-520295L), 1 Mar 2006

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Madan Lal (No. 3984607N now JC-520296N), 1 Feb 2006

Hav/Clk Guljari Lal (No. 3984399K now JC-520297W), 1 Mar 2006

Hav/Clk Tarsem Singh (No. 3984759P now JC-520298Y), 1 Mar 2006

To be Nb Sub

Hav Omkar Chandel (No. 3987411X now JC-520299F), 31 Jan 2006

Hav Santokha Ram (No. 3984416Y now JC-520300L), 18 Mar 2006+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Kashunir Singh (No. 3983148N now JC-520301N), 5 Mar 2006

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Vikram Singh (No. 3985341Y now JC-520302W), 14 Jan 2006+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Surjit Singh Jaggi (No. 3984220L now JC-520303Y), 13 Jan 2006

Hav/Clk Sushil Kumar Sharma (No. 3984720H now JC-520304F), 1 Mar 2006

To be Nb Sub

Hav Kuldeep Chand (No. 3984231X now JC-520254F), 24 Jan 2006+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 20 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Harbans Lal (No. 3983165N now JC-520255K), 28 Aug 2005

Hav Gian Chand (No. 3983902K now JC-520256M), 29 Jan 2006+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Kumar (No. 3387104W now JC-520257P), 19 Oct 2005

Hav Ranbir Singh (No. 2989085W now JC-520258X), 18 Jan 2006+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kuldip Chand (No. 3985064Y now JC-520259A), 1 Dec 2005

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Bharat Singh (No. 3985706H now JC-520260P), 23 Nov 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Shiv Kumar (No. 3985778M now JC-520261X), 3 Dec 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Udham Chand (No. 3983940A now JC-520262A), 1 Dec 2005

To be Nb Sub

Hav Yash Paul (No. 3984235N now JC-520269K), 15 Aug 2005

Hav Daulat Ram (No. 3983865F now JC-520270Y), 15 Aug 2005

Hav Gian Chand (No. 3984517M now JC-520271F), 1 Oct 2005

Hav Harbans Singh (No. 3984537A now JC-520272K), 1 Oct 2005

Hav Hem Singh (No. 3983878Y now JC-520273M), 1 Nov 2005

Hav Romesh Lal (No. 3983555W now JC-520274P), 1 Nov 2005

Hav Khareti Lal (No. 3984168N now JC-520275X), 1 Nov 2005

Hav Bansi Lal (No. 3983286P now JC-520276A), 1 Nov 2005

Hav Inderjit (No. 3984455X now JC-520277H), 11 Nov 2005

Hav Santosh Pal (No. 3985500L now JC-520278L), 17 Nov 2005

Hav Hakam Chand (No. 3987149N now JC-520279N), 25 Nov 2005

Hav Mohan Singh (No. 3987707K now JC-520280H), 6 Jan 2006+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bhag Singh (No. 3983506N now JC-520281L), 15 Dec 2005

Hav Vijay Kumar (No. 3983767F now JC-520282N), 26 Dec 2005

Hav Puran Singh (No. 3983001X now JC-520283W), 1 Jan 2006

Hav Ranjit Singh (No. 3983239X now JC-520284Y), 1 Jan 2006

Hav Besar Ram (No. 3387126P now JC-520285F), 7 Jan 2006

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Kamal Dev (No. 3985304L now JC-520286K), 28 Dec 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Des Raj (No. 3983146X now JC-520263H), 1 Dec 2005

Hav Pawan Kumar (No. 3983684W now JC-520264L), 20 Dec 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Satish Kumar (No. 3983908L now JC-520265N), 1 Jan 2006

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Sankar Datta (No. 3991308X now JC-520266W), 26 Dec 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Sanjay Kumar (No. 3984218N now JC-520267Y), 1 Jan 2006

Hav/Clk Dile Ram (No. 3985303H now JC-520268F), 1 Jan 2006

JAK RIF

To be Nb Sub (GD)

Hav Ajit Singh (No. 13747515X now JC-580185A), 4 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 1 Oct 2005).

Hav Tarseni Singh (No. 13747477M now JC-580186H), 15 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 1 Oct 2005).

Hav Pritam Chand (No. 13747479X now JC-580187L), 18 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 1 Oct 2005).

Hav Amrik Singh (No. 13749616K now JC-580188N), 4 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 6 Oct 2005).

Hav Sham Lal (No. 13748897Y now JC-580189W), 6 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 27 Oct 2005).

Hav Mohan Singh (No. 13749423K now JC-580190L), 6 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 27 Oct 2005).

Hav Pritam Singh (No. 13749598M now JC-580191N), 20 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 27 Oct 2005).

Hav Kishori Lal (No. 13748371M now JC-580192W), 29 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 1 Nov 2005).

Hav Hem Raj (No. 13748785Y now JC-580193Y), 6 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 1 Nov 2005).

Hav Pawan Kumar Sharma (No. 13749615F now JC-580194F), 03 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 1 Nov 2005).

Hav Prub Dial (No. 13748895N now JC-580196M), 19 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 1 Dec 2005).

Hav Jangu Ram (No. 13749619X now JC-580197P), 6 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 3 Dec 2005).

Hav Sewa Singh (No. 13749176F now JC-580198X), 1 Jan 2006

Hav Kulbir Singh (No. 13748882W now JC-580199A), 1 Jan 2006

Hav Krishan Singh (No. 13747860L now JC-580200K), 1 Jan 2006

Hav Nirmal Singh (No. 13748300L now JC-580201M), 1 Jan 2006

Hav Mohan Lal (No. 13748314L now JC-580202P), 01 Jan 2006

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Clk Malu Ram (No. 3385049M now JC-580195K), 1 Dec 2005

THE MARATHA LI

To be Sub Maj

Sub Rambhau Danwe (JC-205511X), 5 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Sub Ingawale Hariba Ramchandra (JC-222656Y), 2 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Sub Panalkar Pandurang Bhimrao (JC-216495L), 1 Dec 2005

Sub Deshmukh Raosaheb Sukhdeo (JC-488234X), 1 Dec 2005

Sub Dashrath Babu Chauhan (JC-220160L), 1 Jan 2006

Sub Vijay Appaso Suryawanshi (JC-212864A), 1 Jan 2006

Sub Borkar Suresh Eknath (JC-216492Y), 3 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Arjun Malappa Tambulunde (JC-458150P), 1 Feb 2006

To be Sub Maj Clk

Sub Clk Verma Shivaji Rameshwar (JC-458017M), 1 Mar 2006

To be Sub

Nb Sub Gavas Gurunatha Pandurang (JC-459204X), 30 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mohammad Rahimuddeen (JC-458922F), 17 Dec 2004*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub More Uday Ramchandrarao (JC-459159W), 10 May 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ramesh Gopal Savant (JC-458969M), 22 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Shinde Vijay Ghanshyam (JC-459086P), 01 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Om Pal Sharma (JC-459064W), 23 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 18 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gade Vishwas Dattu (JC-458916N), 12 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Barde Ramrao Daulatrao (JC-458932L), 26 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Umesh R (JC-459000L), 22 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Baranje Kumar Shankar (JC-459017Y), 22 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kamalkar Balu Rama (JC-459022K), 01 Oct 2005

Nb Sub Raut Dattatray Tukaram (JC-459167P), 10 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rajendra Mote (JC-459189N), 7 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mane Ramesh Ramchandra (JC-459035F), 7 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jagtap Ashok Vithal (JC-459048Y), 17 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Deshmukh Bajirao Gangaram (JC-459139H), 16 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sri Gabrel Minj (JC-459125H), 12 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Manohar Krishna Nimbalkar (JC-459222A), 28 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Vijai Singh (JC-459080N), 27 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Chawan Shantinath Anandrao (JC-459087X), 20 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Fopale Maclundra Pralhad (JC-458983Y), 01 Jan 2006

Nb Sub Khamakar Bajirao Shankar (JC-459162K), 01 Feb 2006

To be Nb Sub

Hav Mhaske Bhagwan Danu (No. 2781333H now JC-459612H), 1 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 25 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mange Ravindra Gangaram (No. 2782769A now JC-459613L), 7 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Chungadi Sanjay Rudrappa (No. 2783842A now JC-459614N), 5 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Tupe Bahiru Tulashiram (No. 2784098A now JC-459615W), 2 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Shinde Namdeo Vasudeo (No.2782826W now JC-459616Y), 2 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mapare Balbhini Tukaram (No.2783409W now JC-459617F), 13 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 3 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Meher Singh (No. 2783201N now JC-459618K), 1 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 6 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Balwan Singh (No. 3177415M now JC-459619M), 16 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Timkekar Dhondiba Baba (No. 2783473N now JC-459620F), 3 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Ck

Hav Ck Bhorade Vijay Shrirang (No. 2781328X now JC-459621K), 3 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Madhusudan Gupta (No. 2784172W now JC-459518Y), 3 Mar 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Shinde Rajaram Dattatray (No. 2787041W now JC-459519F), 4 May 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Bhiva Gavde (No. 2780570A now JC-459520W), 8 May 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Pundalik Bhikappa Patil (No. 2782126H now JC-459521Y), 11 May 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Malappa Sateri Belagaonkar (No. 2778010P now JC-459522F), 8 May 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Hanamant Bhagawat (No. 2781753H now JC-459523K), 19 Apr 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 2 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bandgar Bandu Vithoba (No. 2782852X now JC-459524M), 3 Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mankar Laxman Ananda (No.2786234K now JC-459525P), 3 Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Dnyandeo Shinde (No. 2780306M now JC-459526X), 5 May 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Hav More Bharat Balka (No. 2780610W now JC-459601W), 20 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Sarjerao Dinkarrao (No. 2784154N now JC-459602Y), 20 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dhuri Narayan Mahadeo (No. 2787461W now JC-459603F), 13 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Tayade Gangadhar Ananda (No. 2779664L now JC-459604K), 19 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Pandurang Gawas (No.2785238P now JC-459605M), 19 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bharathan PV (No. 2784229A now JC-459606P), 23 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 3 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Vijayakumar P (No. 2784254Y now JC-459607X), 23 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 3 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Harekar Kashiram Rama (No. 2784260M now JC-459608A), 23 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 3 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Hakke Sambhaji Tukaram (No. 8031095K now JC-459611A), 1 Jan 2006

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Kristi Francis (No. 2781267L now JC-459609H), 19 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Chavan Rajaram Shankar (No. 2781280P now JC-459610X), 15 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

THE JAT REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Sobran Singh Khirwar (JC-178262X), 26 May 2001*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 May 2001 without effect on pay and allowances).

Sub Dharam Chand (JC-196484P), 1 May 2001

Sub Krishan Singh(JC-181763H), 1 May 2001

Sub Teja Ram (JC-185181A), 1 Jun 2001

Sub Muhar Pal Singh (JC-164785L), 1 Jun 2001

Sub Rajender Singh (JC-185759X), 1 Jun 2001

Sub Rekha Ram (JC-185518X), 1 Jul 2001

Sub Karni Ram (JC-168543A), 1 Jul 2001

Sub Sukha Ram (JC-168866H), 1 Aug 2001*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Jul 2001 without effect on pay and allowances).

Hav Rohitashaw (JC-204066X), 9 Jul 2001

Sub Shiv Ram Singh (JC-188660M), 1 Aug 2001

Sub Nathu Lal Jat (JC-488121P), 4 Aug 2001*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Aug 2001 without effect on pay and allowances).

Sub Chandgi Ram Jat (JC-199244H), 20 Sep 2001

Sub Duli Chand (JC-168863P), 1 Nov 2001*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Oct 2001 without effect on pay and allowances).

Sub Jagdish Chander (JC-179350A), 9 Jan 2002*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 19 Nov 2001 without effect on pay and allowances).

Sub Ran Singh (JC-184996P), 19 Nov 2001

Sub Kartar Singh (JC-212941K), 8 Feb 2002*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 19 Nov 2001 without effect on pay and allowances).

Sub Rambir Budhwar (JC-185179H), 7 Feb 2002*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Feb 2002 without effect on pay and allowances).

Sub Yad Ram (JC-208358X), 6 May 2002*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Apr 2002 without effect on pay and allowances).

Sub Ram Karan (JC-488527H), 1 Aug 2002*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Apr 2002 without effect on pay and allowances).

Sub Prem Singh (JC-201031W), 23 May 2002*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 May 2002 without effect on pay and allowances).

Sub Prem Singh Singroa (JC-188666N), 11 Jun 2002*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Jun 2002 without effect on pay and allowances).

Sub Jagjit Singh (JC-192936P), 30 Jul 2002*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Jul 2002 without effect on pay and allowances).

Sub Subhash Chander Siger (JC-196229H), 1 Oct 2002

Sub Amir Singh (JC-205920L), 16 Dec 2002*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Sub Amar Singh Saipurwar (JC-179355Y), 20 Feb 2003*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Sub Shiv Singh Rawat (JC-205927P) 1 Dec 2002

Sub Mohan Ram (JC-201997W), 10 Mar 2003*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Sub Satbir Singh (JC-205570K), 1 Dec 2002

Sub Fatch Singh (JC-183000L), 29 Mar 2003*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Sub Ram Kumar (JC-205930P), 1 Aug 2003

Sub Raj Singh (JC-208080F), 1 Sep 2003

Sub Sumer Singh (JC-211094M), 6 Oct 2003*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Sub Raj Singh (JC-488137A), 8 Oct 2003*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Sub Gajandra Singh (JC-216835H), 20 Oct 2003*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Sub Santosh Kumar (JC-224413M), 1 Dec 2003

Sub Balraj Singh (JC-488160N), 1 Dec 2003

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Bari Singh (JC-205575H), 1 May 2001

Sub (Clk) Gajraj Singh Yadav (JC-205576L), 19 Nov 2001

Sub (Clk) Randhir Singh Mahlawat (JC-216536K), 1 Feb 2002

Sub (Clk) Sube Singh Yadav (JC-216832P), 1 Dec 2002

Sub (Clk) Joga Ram Choudhary (JC-220960K), 1 Feb 2003

Sub (Clk) Himnat Singh (JC-220961M), 1 May 2003

Sub (Clk) Jai Narayan (JC-218273P), 1 July 2003

Sub (Clk) Dhan Singh (JC-220969Y), 14 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj (Clk) with effect from 22 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Rajbir Singh (No. 3176620F now JC-489778Y), 3 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Sarjeet Singh (No. 3179630W now JC-489779F),
1 Aug 2005

Hav Vikram Singh (No. 3180165 now JC-489780W), 1 Aug
2005

Hav Subhash Chander (No. 3185885M now JC-489781Y),
1 Sep 2005

Hav Karambir (No. 3176806L now JC-489782F), 26 Sep
2005

Hav Ranbir Singh (No. 3180181Y now JC-489783K),
28 Oct 2005

Hav Bheem Singh (No. 3177551H now JC-489784M),
1 Nov 2005

Hav Devendra Singh (No. 3179852L now JC-489785P),
1 Nov 2005

Hav Om Prakash (No. 3176832M now JC-489786X), 6 Nov
2005

Hav Sabar Jeet Singh (No. 3184519W now JC-489787A),
1 Feb 2006

Hav Jagbir Singh (No. 3176563L now JC-489788H), 1 Feb
2006

Hav Than Singh (No. 3179668A now JC-489789L), 1 Feb
2006

Hav Sukhbir (No. 3177571W now JC-489790A), 1 Feb 2006

Hav Kuldeep (No. 3186724W now JC-489791H), 1 Feb
2006

Hav Ram Niwas (No. 3176961M now JC-489792L), 1 Nov
2005

Hav Satyabir (No. 3178766N now JC-489793N), 1 Nov 2005

Hav Om Parkash (No. 3177014X now JC-489794W), 1 Feb
2006

Hav Satyaveer Singh (No. 3183004K now JC-489795Y),
1 Feb 2006

Hav Rohitashav Nehra (No. 3177241X now JC-489795F),
17 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Oct
2005 without effect on pay and allowances).

Hav Likhma Ram (No. 3176255L now JC-489797K), 6 Nov
2005

Hav Rajan Kumar (No. 3191973Y now JC-489798M),
16 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
10 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Mahendra Singh (No. 3185051A now JC-489799P),
1 Mar 2006

Hav Ajit Singh (No. 3183443P now JC-489800Y), 1 Mar
2006

Hav Rajender Singh (No. 3179240N now JC-489801F),
1 Mar 2006

Hav Balraj (No. 3177110M now JC-489802K), 1 Mar 2006

Hav Amar Singh (No. 3178591W now JC-489803M), 1 Mar
2006

Hav Rameshwar Lal Jat (No. 3178142F now JC-489804P),
29 Jan 2006

Hav Ramesh Chander (No. 3178180X now JC-489805X),
29 Jan 2006

Hav Ram Pal (No. 3178921K now JC-489806A), 29 Jan
2006

Hav Ram Niwas Solanki (No. 3182294A now JC-489807H),
29 Jan 2006

Hav Partu Ram (No. 3179594W now JC-489808L), 29 Jan
2006

Hav Jai Singh (No. 3179602K now JC-489809N), 1 Mar
2006

5 GR (FF)

To be Nb Sub (GD)

Hav Tara Pati Paudyal (No. 5450290F now JC-617767A),
28 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Lal Bahadur Rana (No. 5448928K now JC-617775Y),
13 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Til Bahadur Thapa (No. 5448971L now JC-617776F),
13 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Dev Bahadur Thapa (No. 5449928W now JC-
617777K), 9 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Anil Kumar Rana (No. 5449040N now JC-617779P),
5 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Yam Bahadur Rana (No. 5450067X now JC-617780K),
13 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Jit Bahadur Mall (No. 5449451M now JC-617751P),
1 Sep 2005

Hav Nir Shamser Gurung (No. 549220W now JC-617753A),
25 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef
16 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kamal Bahadur Pradhan (No. 5449353M now JC-
617754H), 25 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Yam Bahadur Gurung (No. 5449624Y now JC-
617755L), 20 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jul 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Ammer Singh Thapa (No. 5449981F now JC-617756N),
6 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Dadhi Ram Kandel (No. 5450293P now JC-617768H),
28 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Kul Bahadur Shreshthia (No. 5450311M now JC-
617769L), 28 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Tika Ram Pun (No. 5450370Y now JC-617770A),
28 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Hum Bahadur Thapa (No. 5450326P now JC-617771H),
28 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Bal Bahadur Gurung (No. 5450419K now JC-617772L),
28 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Bhakta Bahadur Gurung (No. 5449573W now JC-
617762F), 1 Dec 2005

Hav Tek Bahadur Singh Rana (No. 5751178A now JC-
617763K), 1 Dec 2005

Hav Ganja Bahadur Gurung (5449441H now JC-617764M),
1 Dec 2005

Hav Deb Bahadur Magar (No. 5449828L now JC-617765P),
1 Dec 2005

Hav Chandra Bahadur Pun (No. 5449911H now JC-
617766X), 1 Dec 2005

Hav Ganga Bahadur Thapa (No. 5448842L now JC-
617757W), 21 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Jit Bahadur Pradhan (No. 5449513F now JC-617758Y),
1 Nov 2005

Hav Anand Ram Gurung (No. 5449548X now JC-617759F),
1 Dec 2005

Hav Jhalak Bahadur Gurung (No. 5449462Y now JC-
617760W), 1 Dec 2005

Hav Dhal Bahadur Rana (No. 5449454A now JC-617761Y),
20 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub/Clk (GD)

Hav/Clk Dal Bahadur Gurung (No. 5449686Y now JC-
617781M), 1 Mar 2006

Hav/Clk Shashi Kant Kumar Sharma (No. 5449670N now
JC-617752X), 1 Sep 2005

Hav/Clk Ishad Ahmad (No. 5449878W now JC-617774W),
1 Jan 2006

Hav/Clk Dinesh Kumar Yadav (No. 5449884K now JC-
617778M), 1 Jan 2006

8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Bal Bahadur Pradhan (No. 5751408H now JC-
623661K), 12 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Ban Bahadur Pun (No. 5750530M now JC-623667L),
1 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Ratna Bahadur Rana (No. 5750475P now JC-623670L),
25 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Dec
2005 without effect on pay and allowances).

Hav Om Bahadur Thapa (No. 5750623F now JC-623671N),
25 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Dec
2005 without effect on pay and allowances).

Hav Indra Singh Gurung (No. 5751538L now JC-623672W), 25 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bir Bahadur Gurung (No. 5751223P now JC-623668N), 9 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Tol Bahadur Rana (No. 5750928P now JC-623643F), 6 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dubal Singh Ale (No. 5751679A now JC-623644K), 6 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ghan Bahadur Thapa (No. 5751576F now JC-623645M), 15 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Santa Prasad Thapa (No. 5751629P now JC-623646P), 19 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Min Bahadur Ale Magar (No. 5751762X now JC-623647X), 19 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Rom Bahadur Rana (No. 5750525F now JC-623648A), 7 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dal Bahadur Thapa (No. 5750384X now JC-623659M), 9 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dhaka Ram Chapagain (No. 5751734L now JC-623665A), 24 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ganesh Bahadur Gurung (No. 5750781W now JC-623660F), 1 Dec 2005

Hav Bhupal Gurung (No. 5751908A now JC-623662M), 1 Dec 2005

Hav Gobardhan Pradhan (No. 5750464P now JC-623663P), 9 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Bahadur Shrestha (No. 5751935K now JC-623666H), 12 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)/(GD)

Hav Dal Bahadur Gurung (No. 5751186Y now JC-623640N), 21 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Shir Bahadur Baniya (No. 5752404Y now JC-623641W), 21 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Tarun Chandra Sharma (No. 5750481P now JC-623642Y), 1 Oct 2005

Hav Jagat Bahadur Thapa (No. 5750587F now JC-623649H), 7 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bin Bahadur Thapa (No. 5751214N now JC-623650X), 1 Oct 2005

Hav Ganga Bahadur Saru (No. 5752486M now JC-623651A), 17 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Pandu Kumar Thapa (No. 5751235W now JC-623652H), 01 Nov 2005

Hav Chhetra Bahadur Thapa (No. 5751429Y now JC-623654N), 1 Oct 2005

Hav Narendra Singh Bisht (No. 5751444N now JC-623655W), 1 Oct 2005

Hav Tara Bahadur Thapa, SM (No. 5751936M now JC-623664X), 7 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dhoj Bahadur Gurung (No. 5751552X now JC-623656Y), 1 Nov 2005

Hav You Bahadur Rana (No. 5750709A now JC-623657F),
26 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov
2005 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Sheo Mangal Singh Yadav (No. 5750521L now
JC-623658K), 12 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

The SIKH REGIMENT

To be Subedar Majors

Sub Tarlok Singh (JC-498066X), 1 Nov 2005

Sub Didar Singh (JC-498583P), 1 Feb 2006

To be Subedars

Nb Sub Binder Singh (JC-499324Y), 1 Dec 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef
1 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jarnail Singh (JC-499109A), 1 Jan 2006

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef
1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gurmej Singh (JC-499067M), 19 Jan 2006

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef
1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hardeep Singh (JC-499220X), 23 Jan 2006

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef
1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Makhan Singh (JC-499306W), 18 Jan 2006

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef
1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Harmander Singh (JC-499272N), 1 Mar 2006

To be Substantive Subedar Clk

Nb Sub Clk Sanjay Prasad Singh (JC-499073A), 1 Mar
2006

To be Subedar Majors

Sub Nirmal Singh (JC-498166H), 10 Dec 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub Maj
wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Sub Santokh Singh (JC-498562Y), 1 Jan 2006

Sub Nahar Singh (JC-498782H), 1 Jan 2006

To be Subedar Majors Clks

Sub Clk Rajabhooshanan KA (JC-498268Y), 1 Jan 2006

Sub Clk Raj Bahadur Dhaka (JC-498339P), 1 Jan 2006

To be Subedars

Nb Sub Ajit Singh (JC-499158W), 28 Dec 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef
1 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Devender Singh (JC-499129F), 2 Jan 2006

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef
1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Raghbir Singh (JC-499270H), 21 Dec 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef
16 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Salinder Singh (JC-499279X), 26 Dec 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef
1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hardev Singh (JC-499349L), 31 Dec 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef
1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Tarlochan Singh, SM (JC-499010W), 3 Jan 2006

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef
1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Surjit Singh (JC-499301X), 17 Jan 2006

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef
28 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

To be Suedar (Musn)

Nb Sub (Musn) Lal Singh (JC-499184X), 14 Dec 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef
1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

To be Subedar (RT)

Nb Sub (RT) Daler Singh (JC-498343X), 29 Dec 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub (RT)
wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Clks

Nb Sub Clk Om Prakash (JC-499070M), 1 Dec 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub Clk wef
1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Chandran K (JC-499071P), 1 Jan 2006

Nb Sub Clk Hari Shankar Thakur (JC-499080W), 1 Jan
2006

To be Nb Sub

Hav Jaswinder Singh (No. 3386856N now JC-499690H),
15 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
28 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Rupinder Singh (No. 3386199P JC-499691L), 24 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Rajinder Singh (No. 3387960N now JC-499692N), 27 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Tarlok Singh (No. 3386938W now JC-499693W), 25 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Rajinder Singh (No. 3387317K now JC-499694Y), 25 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Jaswant Singh (No. 3387496P now JC-499695F), 25 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Anoop Singh (No. 3387215N now JC-499696K), 1 Mar 2006

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Dhakshinamoorthy E (No. 3386621F now JC-499697M), 16 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 1 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Shelake Pandurang Shripati (No. 4467182X now JC-499698P), 1 Mar 2006

To be Nb Sub

Hav Gurmeet Singh (No. 3386831F now JC-499673H), 29 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Harbans Singh (No. 3386855L now JC-499674L), 15 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Singh (No. 3387560F now JC-499675N), 9 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Puran Singh (No. 3381287F now JC-499676W), 15 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (No. 3384537H now JC-499677Y), 24 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Pradhan Singh (No. 3383824A now JC-499678F), 12 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Papinder Singh (No. 3386643A now JC-499679K), 25 Dec 2005

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Bikkar Singh (No. 3386244W now JC-499680Y), 1 Jan 2006

To be Nb Sub

Hav Bhajan Singh (No. 3382625A now JC-499681F), 06 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Raja Singh (No. 3385979N now JC-499682K), 06 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Amrik Singh (No. 3386042P now JC-499683M), 11 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 8 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhdev Singh (No. 3386666F now JC-499684P), 6 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (No. 3387224P now JC-499685X), 23 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Sarwan Singh (No. 3385756W now JC-499686A), 26 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bikkar Singh (No. 3380285K now JC-499687H),
23 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Manjit Singh (No. 3386844Y now JC-499688L),
30 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Maghar Singh (No. 3386906N now JC-499689N)
19 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

THE MADRAS REGIMENT

To be Subedar Major

Sub R Balaraman (JC-438060M), 1 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Nov
2005 without effect on pay and allowances).

Sub A Vasudevan (JC-438183Y), 17 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Feb
2006 without effect on pay and allowances).

Sub K Unnikrishnan, SM (JC-438184F), 18 Mar 2006

To be Subedar Maj (Clk)

Sub (Clk) Thomas Benadict (JC-438456W), 17 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj (Clk) wef
1 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

To be Subedar

Nb Sub Divakaran E (JC-439309A), 6 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sreekumar S (JC-439271F), 18 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Sub Clk

Hav Clk SU Govindaraja Shankar (No. 2984708L now
JC-479716L), 1 Oct 2005

Hav Clk R Krishna Murthi (No. 2984711L now
JC-479717N), 17 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority wef from 1 Nov 2005 without
effect on pay and allowances).

Hav Clk Baisakh Lal (No. 2984756L now JC-479718W),
1 Nov 2005

Hav Clk Krishan Pal (No. 2984768A now JC-479719Y),
1 Dec 2005

Hav Clk Dashrath Kumar Sadhukhan (No. 2984861F now
JC-47920N), 1 Jan 2006

Hav Clk Sunil Kumar Ray (No. 2984872N now
JC-479721W), 1 Jan 2006

Hav Clk Lakshman Prasad (No. 2984873W now
JC-479722Y), 1 Jan 2006

Hav Clk Karam Singh Karki (No. 2984986Y now
JC-479723F), 1 Feb 2006

Hav Clk Suresh Singh (No. 2985044P now JC-479724K),
1 Mar 2006

To be Nb Sub

Hav Devendra Kumar (No. 2982395Y now JC-479725M),
1 Sep 2005

Hav Mahaveer Prasad (No. 2982979K now JC-479726P),
13 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority wef from 1 Sep 2005 without
effect on pay and allowances).

Hav Harkesh Gurjar (No. 2982953P now JC-479727X),
1 Oct 2005

Hav Bijender Singh (No. 2985109X now JC-479728A),
15 Oct 2005

Hav Dharanbir Singh Yadav (No. 2981950P now
JC-479729H), 1 Nov 2005

Hav Rakesh Singh (No. 2992374W now JC-479730X),
22 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority wef from 2 Nov 2005 without
effect on pay and allowances).

Hav Rishi Raj (No. 2985704F now JC-479731A), 11 Nov
2005

Hav Udai Singh (No. 2982102H now JC-479732H), 1 Dec
2005

Hav Satybir (No. 2982684H now JC-479733L), 25 Dec 2005

Hav Karan Singh (No. 2982653N now JC-479734N),
25 Dec 2005

Hav Bishnu Singh (No. 2982654W now JC-479735W),
1 Jan 2006

Hav Birendra Singh Yadav (No. 2982153W now
JC-479736Y), 1 Jan 2006

Hav Parmeshwar Din (No. 2983590H now JC-479737F),
1 Jan 2006

Hav Bhoj Raj Singh Rathore (No. 2987078F now
JC-479738K), 1 Jan 2006

Hav Chhote Khan (No. 2982187K now JC-479739M),
1 Jan 2006

Hav Ram Pravesh Singh (No. 2983156X now JC-479740F),
8 Jan 2006

Hav Balwan Singh (No. 2981917Y now JC-479741K),
11 Jan 2006

Hav Dharam Singh Gurjar (No. 2982374H now
JC-479742M), 14 Jan 2006

Hav Raj Kumar Singh (No. 2983421F now JC-479743P),
18 Jan 2006

Hav Bahadur Singh (No. 2989114A now JC-479744X),
31 Jan 2006

Hav Upendra Bahadur Singh (No. 2983063F now
JC-479745A), 1 Feb 2006

Hav Yash Pal Singh (No. 2982486H now JC-479746H),
1 Feb 2006

Hav Jeet Singh (No. 2987115K now JC-479747L), 1 Feb
2006.

Hav Sunil Kumar Sharma (No. 2990287K now
JC-479748N), 1 Feb 2006

Hav Girdhari Singh (No. 2983183A now JC-479749W),
1 Feb 2006

Hav Kishore Singh Shekhawat (No. 2985727X now
JC-479750L), 1 Feb 2006

Hav Harkesh Kumar (No. 2981359F now JC-479751N),
1 Feb 2006

Hav Tasavver Hussain (No. 2982243X now JC-479752W),
1 Mar 2006

Hav Anil Singh (No. 2983388P now JC-479753Y), 1 Mar
2006

THE MADRAS REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub George CT (JC-439142F), 5 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
1 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hillary Fernandez A (JC-439270Y), 1 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
30 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ravindra Shivappa Abdulpur (JC-439255K),
12 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Survarnan Vatakkamar Veetil (JC-439026Y), 5 Dec
2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub K R Gopalan (JC-439091Y), 16 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Y Maruthi Uma Maheshwara Rao (JC-439103H),
24 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub B Kesavan (JC-439130M), 1 Jan 2006

Nb Sub Jaddu Appala Raju (JC-439239H), 1 Jan 2006

Nb Sub Surendran V (JC-439204W), 1 Dec 2005

Nb Sub N Sasidharan Pillai (JC-439181A), 1 Mar 2006

To be Subedar (Cik)

Nb Sub (Cik) P Krishna Moorthy (JC-439030F), 1 Dec
2005

Nb Sub (Cik) P Raveendra Babu (JC-439053H), 1 Feb 2006

Nb Sub (Cik) Sairemesh KV (JC-439131P), 1 Feb 2006

Nb Sub (Cik) Sadasivan PR (JC-439132X), 6 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub (Cik) with effect
from 1 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav V Ramakrishnan (No. 2591390N now JC-439663P),
18 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 7 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Napanda C Subramani (No. 2590954Y now
JC-439657F), 1 Nov 2005

Hav Vijaya Kumaran BS (No. 2586471K now JC-439681X),
2 Dec 2005

Hav A Chinna Chamy (No. 8031498K now JC-439680P),
1 Jan 2006

Hav Rajendran Pillai KB (No. 2588601A now JC-439683H),
1 Jan 2006

Hav G Baskar (No. 2589380L now JC-439685N), 13 Feb
2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Muralidharan PP (No. 2589588N now JC-439686W),
13 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Rajan Pillai V (No. 2586757Y now JC-439676M),
22 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 26 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Govindan Kulialli (No. 2589373P now JC-439665A),
12 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 5 May 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Devis A J (No. 2590217X now JC-439668N), 12 Jan
2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 7 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Adusumalli Ram Babu (No. 2589189K now
JC-439671N), 1 Aug 2005

Hav V Abiraman (No. 2587223A now JC-439677P), 20 Aug
2005

Hav Sunil Kumar GS (No. 2589392A now JC-439678X),
1 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 30 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Padmakumar VB (No. 2588038Y now JC-439679A),
5 Oct 2005

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Kashi Ram (No. 4066099A now JC-529969Y), 1 Nov
2005

Hav Dinesh Singh (No. 4065780H now JC-529970N),
22 Jan 2006/17 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Nov
2005 without effect on pay and allowances).

Hav Manvendra Singh (No. 4066551K now JC-529971W),
21 Jan 2006/1 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Harish Chandra Dhaundiyal (No. 4065676P now
JC-529972Y), 25 Jan 2006/1 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Keshar Singh (No. 4068684Y now JC-529973F),
17 Feb 2006/1 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Kalam Singh (No. 4067858F now JC-529974K),
27 Feb 2006/1 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Pushkar Singh (No. 4067103K now JC-529975M),
27 Feb 2006/1 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Lal Singh (No. 4065993W now JC-529976P), 1 Feb
2006

Hav Khushal Singh (No. 4063128Y now JC-529977SX),
17 Feb 2006/1 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Khilap Singh Gariya (No. 4066041H now JC-529978A),
1 Feb 2006

Hav Balwant Singh (No. 4064895K now JC-529979F),
1 Feb 2006

Hav Shishupal Singh (No. 4065855P now JC-529980X),
1 Feb 2006

Hav Dalcb Singh (No. 4066901L now JC-529981M),
13 Feb 2006/1 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Birendra Singh (No. 4066970F now JC-529982H),
1 Feb 2006

Hav Gian Singh (No. 4065373A now JC-529983L), 14 Feb
2006/1 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Sobhan Singh (No. 4065515M now JC-529984N),
1 Feb 2006

To be Nb Sub (RT)

Rect (RT) Ambika Dutt Chaturvedi (Now JC-529577L),
17 Jul 2004

Rect (RT) Bijendra Prasad Pant (Now JC-529578N), 17 Jul 2004

Sep Bamdev Prasad Chamoli (No. 1488629P now JC-529985W), 10 Dec 2005

To be Nb Sub

Hav Abbal Singh (No. 4065081X now JC-529952L), 12 Dec 2005/7 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 7 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bachan Singh (No. 4065464K now JC-529953N), 12 Sep 2005

Hav Sain Singh Rawat (No. 4064993K now JC-529954W), 12 Dec 2005/1 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dharam Singh (No. 4065132A now JC-529955Y), 31 Dec 2005/7 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 7 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kam Singh (No. 4063469K now JC-529956F), 12 Dec 2005/1 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Om Prakash (No. 4065915Y now JC-529957K), 1 Jan 2006

THE SIKH LI

To be Subedar (GD)

Nb Sub Manmohan Singh (JC-508783F), 1 Feb 2005

Nb Sub Lal Singh (JC-508757A), 19 Mar 2005

Nb Sub Surinderpal Singh (JC-508881F), 1 Apr 2005

Nb Sub Joga Singh (JC-508945F), 1 Apr 2005

Nb Sub Bikar Singh (JC-509033P), 1 Apr 2005

Nb Sub Balbir Singh (JC-509034X), 28 May 2005

Nb Sub Gurdial Singh (JC-509027F), 1 Jun 2005

Nb Sub Baljit Singh (JC-509001M), 3 Jun 2005

Nb Sub Chand Singh (JC-509043Y), 1 Jul 2005

Nb Sub Balwinder Singh (JC-508002F), 18 Jul 2005

Nb Sub Dalbara Singh (JC-509010N), 1 Aug 2005

Nb Sub Kuldip Singh (JC-509019H), 1 Aug 2005

Nb Sub Amarjit Singh (JC-509002P), 1 Sep 2005

Nb Sub Ajaib Singh (JC-509020X), 4 Sep 2005

Nb Sub Karamjit Singh (JC-508409Y), 11 Sep 2005

Nb Sub Gurmukh Singh (JC-508855A), 21 Sep 2005

Nb Sub Gurmukh Singh (JC-508880Y), 21 Sep 2005

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-509004A), 1 Oct 2005

Nb Sub Swaranjit Singh (JC-509006L), 1 Oct 2005

Nb Sub Tejpal Singh (JC-509049A), 1 Oct 2005

Nb Sub Dedar Singh (JC-509063M), 1 Oct 2005

Nb Sub Baljit Singh (JC-509115X), 1 Oct 2005

Nb Sub Nirwail Singh (JC-508453H), 2 Oct 2005

Nb Sub Baver Singh (JC-508856H), 1 Nov 2005

Nb Sub Ranjit Singh, SM (JC-508906H), 1 Nov 2005

Nb Sub Baljit Singh (JC-508799M), 1 Nov 2005

Nb Sub Lakhbir Singh (JC-509021A), 1 Nov 2005

Nb Sub Chaman Singh (JC-509023L), 1 Nov 2005

Nb Sub Karnail Singh (JC-508677H), 1 Nov 2005

Nb Sub Gurcharan Singh (JC-509039W), 1 Nov 2005

Nb Sub Baljit Singh (JC-509040L), 1 Nov 2005

Nb Sub Rajinder Singh (JC-508680H), 3 Nov 2005

Nb Sub Harmesh Singh (JC-509041N), 1 Dec 2005

Nb Sub Jaspal Singh (JC-508936A), 1 Dec 2005

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-508954H), 1 Dec 2005

Nb Sub Joginder Singh (JC-508891L), 1 Dec 2005

To be Nb Subedar (GD)

Hav Balvir Singh (No. 4464214K now JC-509315N), 28 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1 Jun 2005).

Hav Mukhtiar Singh (No. 4467425X now JC-509316W), 24 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 22 Jun 2005).

Hav Jagtar Singh (No. 4464239W now JC-509317Y), 24 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1 Sep 2005).

Hav Fariad Singh (No. 4463230P now JC-509318F), 10 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1 Oct 2005).

Hav Sukhminder Singh (No. 2986338P now JC-509321F), 2 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 6 Dec 2005).

To be Nb Subedar (Clerk) (GD)

Hav (Clk) Ram Swaroop Tripathi (No. 4464579Y now JC-509319K), 19 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (GD) with effect from 1 Nov 2005).

Hav (Clk) Rajender Kumar (No. 4463300H now JC-509320Y), 29 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (GD) with effect from 1 Dec 2005).

Hav (Clk) Rajendra Singh (No. 4465639P now JC-509322K), 1 Jan 2006

Hav (Clk) Jai Dayal (No. 4465767M now JC-509323M), 2 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (GD) with effect from 1 Jan 2006).

To be Nb Subedar (GD)

Hav Swaran Singh (No. 4465982X now JC-509324P), 31 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1 Sep 2005).

Hav Harbans Singh (No. 4465435H now JC-509325X), 21 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1 Nov 2005).

Hav Jagsir Singh (No. 4467373M now JC-509326A), 19 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1 Nov 2005).

Hav Harmesh Singh (No. 4467374P now JC-509327H), 19 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1 Nov 2005).

Hav Gopal Singh (No. 4468572M now JC-509328L), 28 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Nov 2005).

Hav Gurbachan Singh (No. 4469328Y now JC-509329N), 21 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1 Dec 2005).

Hav Navinder Singh (No. 4463815H now JC-509330H), 22 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 7 Dec 2005).

To be Nb Sub (Clerk) (GD)

Hav (Clk) Satya Narain (No. 4465766K now JC-509331L), 7 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (GD) with effect from 1 Jan 2006).

Hav (Clk) Dipak Mazumdar (No. 4465779F now JC-509332N), 1 Jan 2006

To be Nb Subedar (GD)

Hav Gursewak Singh, SM (No. 4467458H now JC-509310P), 15 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 6 May 2005).

Hav Om Parkash (No. 4464686A now JC-509313N), 6 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1 Nov 2005).

Hav Jagjit Singh (No. 4465352X now JC-509314L), 19 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1 Nov 2005).

To be Nb Subedar (Musn)

Hav (Musn) Gurdev Singh (No. 4463343X now JC-509311X), 19 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Musn) with effect from 1 Sep 2005).

To be Nb Subedar (Clerk) (GD)

Hav (Clk) Satbir Singh (No. 4464375M now JC-509312A), 15 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (GD) with effect from 1 Nov 2005).

THE RAJPUT REGIMENT

To be Sub Maj Clk

Sub Maj Clk Dadichi Rai (JC-478318X), 1 Jan 2006

To be Sub Maj

Sub Maj Asgar Husain (JC-478400N), 2 Oct 2005
 Sub Maj Satish Chand (JC-478518N), 2 Nov 2005
 Sub Maj Bir Singh Chauhan (JC-478789L), 10 Nov 2005
 Sub Maj Dhan Raj (JC-478271X), 14 Jan 2006
 Sub Maj Bharat Singh (JC-478668K), 18 Jan 2006
 Sub Maj Dhan Singh (JC-478089X), 20 Jan 2006

To be Sub Clk

Sub Clk Patil Sanjay Babu Rao (JC-478934X), 1 Oct 2005
 Sub Clk Harjinder Singh (JC-478935A), 1 Oct 2005
 Sub Clk Raj Kishore Singh (JC-478980M), 1 Dec 2005
 Sub Clk Ram Swarup (JC-478981P), 1 Dec 2005
 Sub Clk Mahabir Singh (JC-478982X), 1 Jan 2006
 Sub Clk Shri Krishan (JC-478983A), 1 Feb 2006
 Sub Clk Om Singh Bhati (JC-479058X), 1 Mar 2006

To be Sub

Sub Tamradhwj (JC-479096A), 1 Jan 2005
 Sub Harbir Singh (JC-479136W), 1 Jan 2006
 Sub Prabha Shankar Shukal (JC-479242P), 01 Jan 2006
 Sub Brij Mohan (JC-479218Y), 11 Jan 2006
 Sub Vijay Kumar Singh (JC-479154X), 1 Feb 2006
 Sub Ram Phal (JC-478869H), 30 Apr 2005
 Sub Naresh Chand Sharma (JC-478914M), 2 May 2005
 Sub Rohitashv Verma (JC-478966A), 1 Jun 2005
 Sub Sarman Singh (JC-479016X), 1 Jul 2005
 Sub Omkar Singh (JC-479146A), 1 Jul 2005
 Sub Guman Singh (JC-479221Y), 1 Jul 2005
 Sub Pratap Singh (JC-479305M), 26 Jul 2005
 Sub Pala Ram (JC-478988Y), 1 Aug 2005
 Sub Udai Bhan Singh (JC-479222F), 1 Aug 2005
 Sub Udai Singh (JC-479258A), 1 Aug 2005
 Sub Mangat Ram Gurjar (JC-479274X), 1 Aug 2005
 Sub Udey Ram (JC-479279W), 1 Aug 2005
 Sub Rohtash Singh (JC-479328N), 1 Aug 2005
 Sub Satbir Singh (JC-479181F), 1 Sep 2005
 Sub Ashok Kumar (JC-479193X), 1 Sep 2005

Sub Awadhesh Kumar Singh (JC-479201L), 1 Sep 2005

Sub Ram Kumar Singh Bhadoriya (JC-479224M), 1 Sep 2005

Sub Balbir Singh Rajput (JC-479321K), 1 Sep 2005

Sub Bishan Singh (JC-479297Y), 1 Sep 2005

Sub Ranvir Singh (JC-479161P), 1 Oct 2005

Sub Shiv Hari Gurjar (JC-479236F), 1 Oct 2005

Sub Dineshwar Singh (JC-479381Y), 1 Oct 2005

Sub Shiv Shankar Singh (JC-479061K), 3 Oct 2005

Sub Ramesh Kumar (JC-479122W), 1 Nov 2005

Sub Kishor Kumar (JC-479147H), 1 Nov 2005

Sub Mahavir Singh (JC-479298F), 1 Nov 2005

Sub Om Parkash (JC-479362N), 1 Nov 2005

Sub Bhisham Singh (JC-479062M), 1 Dec 2005

Sub Salik Prasad (JC-479071N), 1 Dec 2005

Sub Om Pal Singh (JC-479144P), 1 Dec 2005

Sub Jagat Singh Bhati (JC-479148L), 1 Dec 2005

Sub Jagdish Singh (JC-479351F), 1 Dec 2005

Sub Lakhi Ram (JC-479141F), 11 Jan 2006

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Tajbar Singh (No. 4064030X now JC-529939F), 1 Dec 2005/1 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Rajmohan Singh (No. 4066860M now JC-529940W), 5 Jul 2005

Hav Manjeet Singh (No. 4067428X now JC-529941Y), 2 Nov 2005/21 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Gabar Singh (No. 4064966A now JC-529942F), 19 Sep 2005

Hav Dungar Ram (No. 4066133P now JC-529943A), 1 Oct 2005

Hav Satesh Chandra (No. 4067301P now JC-529944M), 5 Dec 2005/1 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dhanpal Singh (No. 4066707W now JC-529945P), 31 Oct 2005/1 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Sundar Singh (No. 4065349K now JC-529946X), 1 Oct 2005

Hav Balbir Singh (No. 4065921M now JC-529948H), 1 Nov 2005

Hav Bhagwat Singh (No. 4065721W now JC-529949L), 1 Nov 2005

Hav Girish Chandra Singh (No. 4065331N now JC-529950A), 17 Nov 2005/13 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Guman Singh, SM (No. 4065499A now JC-529951H), 7 Dec 2005/1 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Baldev Singh (No. 3383336X now JC-529947A), 17 Nov 2005/1 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Man Singh (No. 4061725P now JC-529958M), 1 Jan 2006/18 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Man Singh (No. 4065913N now JC-529959P), 07 Jan 2006/01 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bhajan Singh (No. 4066044W now JC-529961M), 1 Jan 2006

Hav Hira Singh, SM (No. 4066298N now JC-529962P), 1 Jan 2006

Hav Dharmendra Singh (No. 4066652X now JC-529963H), 16 Jan 2006/1 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Jyoti Prakash (No. 4066124N now JC-529964A), 1 Jan 2006

Hav Sundra Singh Chauhan (No. 4066917W now JC-529965H), 1 Jan 2006

Hav Harish Chandra (No. 4065868M now JC-529966L), 20 Jan 2006/1 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ujjawal Singh (No. 4067986Y now JC-529967N), 1 Jan 2006

Hav Kundan Singh (No. 4067837L now JC-529968W), 7 Jan 2006/1 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Krishan Pal (No. 4062788K now JC-529960K), 1 Jan 2006

THE MAHAR REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Shalik Ram Napit (JC-225856A), 1 Jun 2005

Sub Subhash Dattu Honnore (JC-568164X), 7 Jul 2005@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jul 2005)

Sub Pitabasa Mohapatra (JC-568036N), 16 Aug 2005@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Aug 2005)

Sub Nain Singh (JC-568144K), 3 Aug 2005@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Aug 2005)

Sub Chandan Singh (JC-568076F), 1 Aug 2005

Sub Raghubir Singh (JC-568145M), 1 Aug 2005

Sub Sate Singh (JC-568019A), 1 Sep 2005

Sub Karambir Singh (JC-568275P), 1 Sep 2005

Sub Bhim Singh Gurjar (JC-211309A), 1 Jan 2004

Sub Harmit Singh (JC-211289X), 17 Feb 2004@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Feb 2004)

Sub Atanu Kumar Mitra (JC-203819M), 1 Oct 2004

Sub Gopal Singh Ghotra (JC-203832W), 1 Oct 2004

Sub Kartar Singh (JC-208433W), 1 Oct 2004

Sub Balwant Singh (JC-216937Y), 1 Oct 2004

Sub Sathe Jagu Chandru (JC-568323K), 1 Oct 2004

Sub Chokro Deo Gam (JC-568121H), 13 Dec 2004@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Nov 2004)

Sub Dede Vasant Kasinath (JC-218075K), 1 Nov 2004

Sub Babu Lal (JC-224588P), 6 Dec 2004@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Dec 2004)

Sub Sunil Kumar Bhakta (JC-224465H), 20 Dec 2004#	\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Mar 2005)
\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Dec 2004)	Nb Sub Ram Narayan Rath (JC-568995W), 1 Apr 2005
Sub Ganesh Prasad Urmalia (JC-224293Y), 1 Jan2005##	Nb Sub Shiv Hari (JC-569100Y), 18 Apr 2005\$\$\$
##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Dec 2004)	\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Apr 2005)
Sub Madan Lal (JC-568143F), 7 Apr 2005###	Nb Sub Devakule Baba Saheb Akaram (JC-569155H), 15 May 2005%
###(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Apr 2005)	% (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Apr 2005)
Sub Dhende Manik Nana (JC-568163P), 2 may 2005\$	Nb Sub Lakhan Singh Tomar (JC-569172H), 1 Apr 2005
\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 May 2005)	Nb Sub Birendra Singh Gusain (JC-569293K), 1 Apr 2005
Sub Kurda Ram Khedar (JC-568223Y), 1 May 2005	Nb Sub Raghuvar Datt (JC-569298H), 1 Apr 2005
To be Subedar	Nb Sub Hari Bahadur Gurung (JC-569299L), 20 Apr 2005%%
Nb Sub Chandan Singh (JC-569052K), 13 Oct 2004@	%% (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Apr 2005)
@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 May 2004)	Nb Sub Wankhade Shiodas Ganpat (JC-569237L), 4 Apr 2005%%%
Nb Sub Brijendra Singh (JC-569196M), 1 Oct 2004	%%% (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Apr 2005)
Nb Sub Ram Phal (JC-569147K), 2 Mar 2005@@	Nb Sub Govardhan Mahadeo Rao Mohod (JC-569261F), 4 Apr 2005&
@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Mar 2005)	& (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Apr 2005)
Nb Sub Kamble Gangaram Ganpati (JC-569158W), 31 Mar 2005@@@	Nb Sub Mohan Chandra (JC-569355Y), 20 Apr 2005&&
@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Mar 2005)	&& (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Apr 2005)
Nb Sub Rajender Singh (JC-569202P), 11 Mar 2005#	Nb Sub Tarak Nath Das (JC-569001W), 9 May 2005&&&
\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Mar 2005)	&&& (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 7 Apr 2005)
Nb Sub Govind Singh (JC-569209Y), 6 Mar 2005##	Nb Sub Pradip Ramgan Gaikwad (JC-569367N), 7 Apr 2005
##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Mar 2005)	Nb Sub Sankar Singh (JC-569054P), 12 May 2005*
Nb Sub Purshotam Chand (JC-569245K), 16 Mar 2005###	*(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 12 Apr 2005)
###(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Mar 2005)	Nb Sub Awadhesh Singh (JC-569164K), 2 May 2005**
Nb Sub Kharat Babasaheb Pralhad (JC-569223L), 19 Apr 2005\$	** (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 15 Apr 2005)
\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Mar 2005)	Nb Sub Madan Mohan (JC-569165M), 15 Apr 2005
Nb Sub Jadhao Ajabrao Tukaram (JC-569233P), 1 Mar 2005	Nb Sub Kuldeep Singh (JC-569128Y), 7 May 2005***
Nb Sub Prakash Keruji Jadhao (JC-569345P), 13 Mar 2005\$\$	*** (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 25 Apr 2005)

- Nb Sub Tara Chand (JC-569102K), 1 May 2005
- Nb Sub Maske Laxman Trimbakrao (JC-569159Y), 27 Jun 2005@
- @(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 May 2005)
- Nb Sub Bansod Pralhad Laxman (JC-569278P), 3 May 2005@@
- @@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 May 2005)
- Nb Sub Puran Chander (JC-569357K), 1 May 2005
- Nb Sub Dhan Dev (JC-569247P), 18 Aug 2005@@@
- @@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Aug 2005)
- Nb Sub Mahadeo Ganesh Gaikwad (JC-569103M), 2 Jul 2005@
- @(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 May 2005)
- Nb Sub Hira Lal Gujar (JC-569104P), 1 Jun 2005
- Nb Sub Dhup Singh (JC-569085P), 1 Jun 2005
- Nb Sub Rajendra Singh (JC-569125L), 1 Jun 2005
- Nb Sub Balu Ram Gurjar (JC-569134M), 18 Jul 2005@@
- @@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jun 2005)
- Nb Sub Uttam Ganpati Ubale (JC-569190L), 16 Jul 2005@@@
- @@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 24 Jun 2005)
- Nb Sub Joseph Khes (JC-569386Y), 5 Sep 2005#
- #(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 28 Jun 2005)
- Nb Sub Dilip Roy (JC-569021K), 4 Jul 2005##
- ##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jul 2005)
- Nb Sub Tara Chand (JC-569077W), 25 Jul 2005###
- ###(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jul 2005)
- Nb Sub Sis Ram (JC-569107H), 1 Jul 2005
- Nb Sub Rajbir Singh (JC-569203X), 29 Jul 2005\$
- \$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jul 2005)
- Nb Sub Narayan Singh (JC-569340W), 9 Jul 2005\$\$
- \$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jul 2005)
- Nb Sub Azad Singh (JC-569065F), 22 Jul 2005
- Nb Sub Kamble Dayanand Baburao (JC-569175W), 1 Aug 2005
- Nb Sub Rajesh Kamble (JC-569176Y), 1 Aug 2005
- Nb Sub Lohakare Dnyaneshwar Dondiba (JC-569194F), 23 Aug 2005\$\$\$
- \$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Aug 2005)
- Nb Sub Sunder Ram (JC-569217X), 1 Aug 2005
- Nb Sub Anand Singh Mehta (JC-569218A), 1 Aug 2005
- Nb Sub Babar Dagadu Sadashiv (JC-569281P), 6 Aug 2005%
- %(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Aug 2005)
- Nb Sub Bharat Singh (JC-569224N), 13 Aug 2005%%
- %(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Aug 2005)
- Nb Sub Gulab Singh (JC-569234X), 1 Aug 2005
- Nb Sub Mahabir Singh, SM (JC-569335L), 13 Aug 2005%%%
- %%%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Aug 2005)
- Nb Sub Ishwar Singh (JC-569348H), 12 Aug 2005&
- &(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Aug 2005)
- Nb Sub Krishan Kumar (JC-569181K), 8 Aug 2005
- Nb Sub Birender Singh (JC-569192W), 3 Sep 2005&&
- &&(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 8 Aug 2005)
- To be Naib Subedar
- Hav Mulkh Raj (No. 4554075M now JC-569717P), 8 Mar 2006@
- @(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 28 Oct 2005)
- Hav Chet Ram (No. 4553771X now JC-569718X), 21 Jan 2006@@
- @@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jan 2006)
- Hav Ram Swaroop (No. 4555035X now JC-569719A), 1 Jan 2006
- Hav Ram Krishna (No. 4554536L now JC-569720P), 22 Feb 2006@@@
- @@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 29 Jan 2006)

Hav Ranjit Singh (No. 4553602W now JC-569721X), 1 Feb 2006

Hav Ram Singh Chauhan (No. 4553762W now JC-569722A), 1 Feb 2006

Hav Gurbhej Singh (No. 4553492M now JC-569723H), 1 Feb 2006

Hav Dharmendra Singh (No. 4555515P now JC-569724L), 11 Feb 2006#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Feb 2006)

Hav Kamal Kumar Yadav (No. 4555591N now JC-569725N), 11 Feb 2006##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Feb 2006)

Hav Harish Kumar (No. 4555811M now JC-569726W), 11 Feb 2006###

###(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Feb 2006)

Hav Yash Pal Singh (No. 4555871F now JC-569727Y), 11 Feb 2006\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Feb 2006)

Hav Jaswant Singh (No. 4557433X now JC-569728F), 1 Feb 2006

Hav Kailash Chandra (No. 4557625P now JC-569729K), 1 Feb 2006

Hav Ajit Singh (No. 4554435X now JC-569730Y), 4 Feb 2006\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Feb 2006)

Hav Sish Pal (No. 4554539Y now JC-569731F), 3 Mar 2006\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Mar 2006)

Hav Shish Ram (No. 4553593A now JC-569696K), 1 Jan 2006

Hav Rama Ratan (No. 4555419M now JC-569697M), 3 Jan 2006@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jan 2006)

Hav Jitendra Rai (No. 4554632A now JC-569698P), 1 Jan 2006

Hav Bajj Nath Singh (No. 4554238P now JC-569699X), 1 Jan 2006

Hav Nemi Chand (No. 4553475M now JC-569700F), 2 Jan 2006##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jan 2006)

Hav Balwant Singh (No. 4553481A now JC-569701K), 2 Jan 2006###

###(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jan 2006)

Hav Sunit Singh (No. 4557061X now JC-569702M), 1 Jan 2006

Hav Samunder Singh (No. 4557353A now JC-569703P), 8 Jan 2006\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jan 2006)

Hav Darwan Singh (No. 4554368X now JC-569704X), 2 Jan 2006\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jan 2006)

Hav Ram Chandra (No. 4559260K now JC-569705A), 5 Jan 2006\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jan 2006)

Hav Pema Ram (No. 4559274K now JC-569706H), 5 Jan 2006\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jan 2006)

Hav Sale Prakash Rohidas (No. 4559141N JC-569677Y), 20 Sep 2005@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 7 Apr 2005)

Hav Lahane Ramdas Daulatrao (No. 4559390M now JC-569678F), 20 Sep 2005@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Sep 2005)

Hav Himmatrao Pandurang Paithane (No. 4558662P now JC-569679K), 8 Nov 2005@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Nov 2005)

Hav Ramdhani (No. 4554734W now JC-569680Y), 10 Dec 2005#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Nov 2005)

Hav Ratanpal Singh (No. 4554791X now JC-569681F), 17 Nov 2005##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Nov 2005)

Hav Solanki Ashok Tukaram (No. 4557247F now JC-569682K), 1 Nov 2005

Hav Sukhdev Singh (No. 8031463N now JC-569683M), 17 Nov 2005###

###(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 1 Nov 2005)

Hav Govind Singh (No. 4554168F now JC-569684P), 1 Dec 2005

Hav Khaim Singh (No. 4554528M now JC-569685X), 1 Dec 2005

Hav Gurmeet Singh (No. 4554619W now JC-569686A), 1 Dec 2005

Hav Hazari Singh (No. 2983734N now JC-569687H), 1 Dec 2005

Hav Devinder Chand (No. 4554868P now JC-569688L), 1 Dec 2005

Hav Sarbeswar Bhoi (No. 4554770F now JC-569689N), 1 Dec 2005

Hav Bal Kishan (No. 4556943M now JC-569690H), 1 Dec 2005

Hav Bhupal Singh Bora (No. 4557063H now JC-569691L), 1 Dec 2005

Hav Chaudhury Pradheep Kumar Das (No. 4554121W now JC-569653P), 2 Sep 2005@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 1 Jul 2005)

Hav Chain Singh (No. 4554686F now JC-569654X), 2 Sep 2005@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 1 Jul 2005)

Hav Umrao Singh (No. 4554577P now JC-569655A), 13 Sep 2005@@@

@@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 1 Jul 2005)

Hav Prakash Satwa Sarode (No. 4558007W now JC-569656H), 1 Sep 2005#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 10 Jul 2005)

Hav Jagbir Singh (No. 4554578X now JC-569657L), 2 Sep 2005##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 8 Aug 2005)

Hav Gayakwad Manohar Shankar (No. 4554598L now JC-569658N), 29 Sep 2005###

###(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 18 Aug 2005)

Hav Rajan Lal (No. 4556788W now JC-569659W), 29 Sep 2005\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 18 Aug 2005)

Hav Jadhav Sharad Ananda (No. 4558334F now JC-569660L), 21 Sep 2005\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 1 Sep 2005)

Hav Ropusa Bharat Kumar Laxman Bhai (No. 4554523N now JC-569661N), 1 Oct 2005

Hav Jateswar Bhunya (No. 4554650H now JC-569662W), 1 Oct 2005

Hav Davare Balasaheb Janardan (No. 4556880P now JC-569663Y), 16 Oct 2005\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 1 Oct 2005)

Hav Ramvir Singh (No. 4554467A now JC-569664F), 21 Oct 2005%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 1 Oct 2005)

Hav Lokhande Deepak Shankar (No. 4560931P now JC-569665K), 6 Oct 2005%%

%%(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 1 Oct 2005)

Hav Raj Kumar Sharma (No. 4557198K now JC-569707L), 9 Jan 2006@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 1 Dec 2005)

Hav Tayade Manik Daulat (No. 4559229X now JC-569708N), 11 Jan 2006@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 1 Dec 2005)

Hav Palekar Arun Laxman (No. 4558715H now JC-569709W), 9 Jan 2006@@@

@@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 1 Jan 2006)

Hav Ramesh Chand (No. 4553601N now JC-569710L), 1 Jan 2006

Hav Jasbir Singh (No. 4554679L now JC-569711N), 30 Jan 2006#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wcf 1 Jan 2006)

Hav Gulzar Singh (No. 4554707M now JC-569712W),
18 Jan 2006##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 1 Jan 2006)

Hav Ajit Singh (No. 4554709X now JC-569713Y),
18 Jan 2006###

###(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 1 Jan 2006)

Hav Anil Kumar Singh (No. 2983437M now JC-569714F),
1 Jan 2006

Hav Patel Velaji Amraji (No. 4555632M now JC-569715K),
1 Jan 2006

Hav Kamlesh Bansi Lal (No. 4556150K now JC-569716M),
1 Jan 2006

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Poorna Ram (JC-412184K), 1 Jun 2005

Sub Kamal Kishore Behera (JC-412100L), 1 Jul 2005

Sub Hanumana Ram (JC-412204M), 1 Jul 2005

Sub Arjun Singh (JC-412079N), 1 Jul 2005

Sub Sher Bahadur Singh (JC-412206X), 1 Nov 2005

Sub Khim Singh (JC-412088P), 1 Dec 2005

To be Sub

Nb Sub Piar Singh (JC-412775L), 1 Oct 2005

Nb Sub Ashok Kumar (JC-412795Y), 1 Nov 2005

Nb Sub Ram Kishan (JC-412707X), 1 Nov 2005

Nb Sub Vinay Chauhan (JC-412609X), 4 Nov 2005

Nb Sub Rajbir, SC (JC-412642K), 1 Jan 2006

Nb Sub Mulkh Raj (JC-412661A), 1 Jan 2006

Nb Sub Vijay Singh (JC-412640K), 1 Feb 2006

Nb Sub Suresh Chander (JC-412621Y), 1 Feb 2006

Nb Sub Tushar Kanti Mahanti (JC-412622F), 1 Feb 2006

Nb Sub Bhajan Lal (JC-412722M), 1 Feb 2006

To be Nb Sub

Hav Gopal Datt Pant (No. 13614733F now JC-413023N),
18 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Aug 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Satyaveer Singh (No. 13616592W now JC-413024W),
1 Nov 2005

Hav Sukhdev Raj (No. 13617127W now JC-413025Y),
4 Nov 2005

Hav Rajendra Singh (No. 13617225W now JC-413026F),
12 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Dalvir Singh Malhotra (No. 13616187Y now JC-
413027K), 1 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Gulshan Kumar (No. 13616626Y now JC-413028M),
26 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Nov
2005 without effect on pay and allowances)

Hav Guman Singh (No. 4069470P now JC-413029P),
24 Nov 2005

Hav Mahesh Kumar (No. 3179620M now JC-413030K),
1 Dec 2005

Hav Jaswinder Singh (No. 3386857W now JC-413031M),
1 Dec 2005

Hav Surinder Singh (No. 13614988F now JC-413032P),
1 Nov 2005

Hav Kubir Chhetri (No. 13615108N now JC-413033X),
1 Nov 2005

Hav Surender Singh (No. 13615523N now JC-413034A),
12 Oct 2005

Hav Pushkar Datt (No. 13616208K now JC-413035H),
30 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Nov
2005 without effect on pay and allowances)

Hav Hukam Singh Pun (No. 13615394Y now JC-413042Y),
20 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Feb 2006
without effect on pay and allowances)

Hav Jeet Singh Phartyal (No. 13615714H now JC-413043F),
1 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Jan 2006
without effect on pay and allowances)

Hav Jang Bahadur Thapa (No. 13615792A now JC-
413044K), 1 Feb 2006

Hav Arjun Bahadur Thapa (No. 13616843P now JC-
413045M), 20 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Rabinder Kumar (No. 3985786L now JC-413046P),
1 Feb 2006

Hav Yogendra Singh Rathore (No. 13615764N now
JC-413036L), 28 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Rajinder Kumar (No. 13616831A now JC-413037N),
1 Jan 2006

Hav Kale Krishna Arjun (No. 13618547H now
JC-413038W), 1 Nov 2005

Hav Shylola Ram (No. 13616636H now JC-413039Y),
9 Nov 2005

Hav Shiv Pal Singh (No. 13616654L now JC-413040N),
1 Jan 2006

Hav Naresh Kumar (No. 13616211K now JC-413041W),
1 Oct 2005

INFANTRY (11 GR)

To be Subedar Major

Sub Dinesh Kumar Rai (JC-634022H), 1 Oct 2005

Sub Kiran Lama (JC-218097H), 1 Nov 2005

Sub Chandra Bahadur Subba (JC-634033P), 1 Nov 2005

Sub Laxman Rai (JC-634060Y), 1 Nov 2005

Sub Ram Kumar Limbu (JC-634064P), 1 Jan 2006

To be Subedar

Nb Sub Ram Bahadur Subba (JC-634509W), 23 Apr 2005

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 1 Apr 2005)

Nb Sub Karna Bahadur Tamang (JC-634452M), 17 Jul 2005

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 1 Jul 2005)

Nb Sub Ratna Thapa (JC-634529K), 1 Aug 2005

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 1 Jul 2005)

Nb Sub/Clk M S Akhtar (JC-634362L), 1 Oct 2005

Nb Sub Kapil Rai (JC-634531F), 27 Oct 2005

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 1 Aug 2005)

Nb Sub Khowa Bahadur Rai (JC-634450F), 1 Nov 2005

Nb Sub Suk Bir Tamang (JC-634451K), 1 Nov 2005

Nb Sub/Clk Ashok Kumar Gupta (JC-634363N), 1 Nov
2005

Nb Sub Tanka Raj Rai (JC-634454X), 1 Nov 2005

Nb Sub/Clk Ramayan Mishra (JC-634364W), 1 Dec 2005

Nb Sub Mahendra Man Rai (JC-634394N), 9 Jan 2006

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 1 Nov 2005)

To be Nb Sub

Hav Durga Bahadur Thapa (No. 9417938L now JC-
634672W), 1 Jul 2005

Hav Bikash Rai (No. 9418032M now JC-634673Y), 1 Jul
2005

Hav Benoy Rai (No. 9417676A now JC-634674F), 1 Jul
2005

Hav Pradeep Kumar Rai (No. 9419111N now JC-634675K),
1 Jul 2005

Hav Gopal Singh Bist (No. 9417524Y now JC-634676M),
1 Jul 2005

Hav Jiwan Rai (No. 9417733W now JC-634677P), 12 Jul
2005

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 1 Jul 2005)

Hav Budha Sherpa (No. 9418403K now JC-634678X),
7 Jul 2005

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 1 Jul 2005)

Hav Chandra Prasad Limbu (No. 9417961Y now
JC-634679A), 12 Jul 2005

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 1 Jul 2005)

Hav Deo Prakash Rai (No. 9419657N now JC-634680P),
1 Jul 2005

Hav Tika Man Chanling (No. 9420047N now JC-634681X),
12 Jul 2005

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 1 Jul 2005)

Hav Bal Ram Singh Limbu (No. 9417871X now
JC-634682A), 12 Jul 2005

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 1 Jul 2005)

Hav Manoj Kumar Rai (No. 9418406X now JC-634683H),
23 Jul 2005

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 1 Jul 2005)

Hav Tilak Bahadur Rai (No. 9418381W now JC-634684L),
3 Aug 2005

- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jul 2005)
- Hav Ram Bahadur Tamang (No. 9418387X now JC-634685N), 23 Jul 2005
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jul 2005)
- Hav Asal Kumar Limbu, SM (No. 9418472A now JC-634686W), 23 Jul 2005
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jul 2005)
- Hav Madan Kumar Rai (No. 9418478F now JC-634687Y), 31 Jul 2005
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jul 2005)
- Hav Rant Kaji Rai (No. 9418190F now JC-634688F), 7 Jul 2005
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Jul 2005)
- Hav Padam Bahadur Subba (No. 9418185W now JC-634689K), 1 Aug 2005
- Hav Ram Kumar Moktan (No. 9417171K now JC-634690Y), 1 Aug 2005
- Hav Gajendra Bahadur Limbu (No. 9418358H now JC-634691F), 1 Aug 2005
- Hav Padam Bahadur Rai (No. 9419648M now JC-634692K), 24 Sep 2005
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Aug 2005)
- Hav Hinu Bahadur Subba (No. 9418417K now JC-634693M), 20 Sep 2005
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Sep 2005)
- Hav/Clk Mewa Lal Gupta (No. 9417978M now JC-634694P), 1 Oct 2005
- Hav Pancha Bahadur Rai (No. 9420003W now JC-634695X), 13 Oct 2005
- (Granted Notional seniority without effect on pay and allowances wef 1 Oct 2004)
- Hav Nabin Rai (No. 9418026Y now JC-634696A), 28 Jan 2006
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Oct 2005)
- Hav Ram Prasad Limbu (No. 9417391N JC-634697H), 24 Oct 2005
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Oct 2005)
- Hav Tilak Bahadur Tamang (No. 9417438N now JC-634698L), 3 Nov 2005
- (Granted notional seniority without effect on pay and allowances wef 1 Feb 2005)
- Hav Sanjay Kumar Rai (No. 9419816A now JC-634699N), 19 Nov 2005
- (Granted notional seniority without effect on pay and allowances wef 1 Feb 2005)
- Hav/Clk Subhash Yadav (No. 9417979P now JC-634700X), 23 Nov 2005
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Nov 2005)
- Hav Thaginder Kumar Shrestha (No. 9417400K now JC-634701A), 1 Nov 2005
- Hav Lokendra Limbu (No. 9418144M now JC-634702H), 1 Nov 2005
- Hav Lok Bahadur Limbu (No. 9418378W now JC-634703L), 1 Nov 2005
- Hav Yub Raj Limbu (No. 9417991W now JC-634704N), 28 Nov 2005
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 11 Nov 2005)
- Hav/Clk Bachcha Pathak (No. 9417988 now JC-634705W), 1 Dec 2005
- Hav Dil Kumar Limbu (No. 9417608M now JC-634706Y), 23 Jan 2006
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Dec 2005)
- Hav Baja Hang Limbu (No. 9417953A now JC-634707F), 23 Jan 2006
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Dec 2005)
- Hav Suresh Kumar Pokhrel (No. 9417603N now JC-634708K), 13 Feb 2006
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Dec 2005)
- Hav Bal Bahadur Rai (No. 9418022H now JC-634709M), 3 Dec 2005
- (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 1 Dec 2005)

Hav Khadga Bahadur Rai (No. 9420028H now JC-634710F),
24 Dec 2005

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 1 Dec 2005)

Hav/Clk Radhe Shyam Singh (No. 9417997X now JC-
634711K), 1 Jan 2006

Hav Naina Lal Rai (No. 9418290H now JC-634712M),
1 Jan 2006

Hav Surender Kumar Rai (No. 9417211A now JC-634713P),
1 Jan 2006

THE RAJ RIF

To be Substantive Subedar Major

Sub Rotan Singh (JC-216791W), 1 Aug 2004

Sub Shubh Karan Singh (JC-468105W), 1 Aug 2004

Sub Kunjil Singh (JC-468088F), 1 Aug 2004

Sub Satya Vijaya Singh Raghaw (JC-468097H), 6 Aug
2004/1 Aug 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Aug 2004
without effect on pay and allowances)

Sub Shyam Singh (JC-220733K), 15 Oct 2004/1 Oct 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Oct 2004
without effect on pay and allowances)

Sub Satyavir Singh (JC-216785H), 21 Oct 2004

Sub Bhanwar Lal Jat (JC-468273P), 16 Nov 2004/1 Nov
2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Nov 2004
without effect on pay and allowances)

Sub Surender Singh Rathore (JC-468127P), 1 Dec 2004

Sub Ram Avtar (JC-468089K), 11 Dec 2004/1 Dec 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Dec 2004
without effect on pay and allowances)

Sub Ish Kumar (JC-468340P), 1 Dec 2004

Sub Ram Rup Singh (JC-468092K), 18 Mar 2005/1 Feb
2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Feb 2005
without effect on pay and allowances)

Sub Girwar Singh Shekhawat (JC-212575L), 23 Mar 2005/
1 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Mar 2005
without effect on pay and allowances)

Sub Clk Vijai Singh (JC-468308A), 1 May 2005

Sub Clk Balbir Singh (JC-468309H), 1 May 2005

Sub Gen Singh Tunwar (JC-468096A), 1 May 2005

Sub Mahavir Singh Tanwar (JC-468228H), 1 Jun 2005

Sub Sharif Khan (JC-208309P), 1 Jun 2005

Sub Gyani Ram Rathi (JC-468756M), 1 Jun 2005

Sub Shankar Singh (JC-468524N), 1 Jun 2005

Sub Dhanpai Singh (JC-468327L), 1 Jun 2005

Sub Dalip Singh (JC-226185N), 2 Jun 2005/1 Jun 2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Jun 2005
without effect on pay and allowances)

Sub Gagan Singh (JC-468302Y), 1 Jul 2005

Sub Mangli Ram Malik (JC-468329W), 1 Jul 2005

Sub Rishi Raj (JC-468488N), 2 Jul 2005/S-01 Jul 2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Jul 2005
without effect on pay and allowances)

Sub Fajru Khan (JC-216783X), 2 Aug 2005/S-01 Aug 2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Aug 2005
without effect on pay and allowances)

Sub Narayan Singh Rajput (JC-468023N), 1 Aug 2005

Sub Bhanwar Singh Rathore (JC-468111K), 8 Aug 2005/
S-01 Aug 2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Aug 2005
without effect on pay and allowances)

Sub Rewat Singh (JC-468125K), 6 Aug 2005/S-01 Aug
2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Aug 2005
without effect on pay and allowances)

Sub Suraj Bhan Singh Lamba (JC-468251W), 25 Oct 2005/
S-06 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 6 Sep 2005
without effect on pay and allowances)

Sub Jagdish Singh Shekhawat (JC-468204Y), 1 Oct 2005

Sub Surender Singh (JC-468314N), 1 Oct 2005

Sub Himat Singh (JC-468227A), 1 Oct 2005

Sub Prabhu Singh Shekhawat (JC-468110F), 2 Nov 2005/
S-01 Nov 2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 1 Nov 2005
without effect on pay and allowances)

Sub Bhawani Singh Shekhawat (JC-468306P) 1 Nov 2005

Sub Chhotu Lal (JC-468853K), 1 Nov 2005

Sub Deena Ram, VSM (JC-196204W), 1 Jan 2006

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav Hadman Ram (No. 2880257K now JC-469845X), 1 Oct 2005/S-01 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ramdhan Lal Gujar (No. 2879921M now JC-469846A), 1 Oct 2005

Hav Ram Babu (No. 2879694X now JC-469847H), 15 Nov 2005/S-17 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Subhash Chand (No. 3988809M now JC-469848L), 1 Dec 2005

Hav Dharambir Singh (No. 2880693F now JC-469849N), 21 Dec 2005

Hav/Cik Narendra Pal Singh Shakya (No. 2881573P now JC-469850H), 1 Feb 2006

Hav/Cik Jagdish Singh (No. 2881574X now JC-469851L), 1 Feb 2006

Hav Bhawani Singh (No. 2879378Y now JC-469852N), 1 Feb 2006

Hav Mohd Aslam Ansari (No. 2882494M now JC-469835N), 16 Sep 2005/S-01 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Lajpat Singh (No. 2879585L now JC-469836W), 1 Nov 2005

Hav Ranbir Singh (No. 2883714X now JC-4698347Y), 1 Dec 2005

Hav Harpal Singh (No. 2879227A now JC-469838F), 1 Dec 2005

Hav Mahesh Kumar Singh (No. 2881033W now JC-469839N), 1 Dec 2005

Hav Ajeet Singh (No. 2881546L now JC-469840Y), 1 Dec 2006

Hav Brijia Nand Singh (No. 2884446L now JC-469841F), 1 Dec 2005

Hav Sarfuddin Ahmad (No. 2878853X now JC-469842K), 1 Jan 2005

Hav Ghanshyam Singh (No. 2880205N now JC-469843M), 1 Jan 2006

Hav Jabar Singh (No. 2879352K now JC-469844P), 1 Jan 2006

I GR

To be Nb Sub

Hav Tek Bahadur Pun (No. 5043156A now JC-602634M), 6 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Sep 2005)

Hav Rim Bahadur Thapa (No. 5043185P now JC-602635P), 6 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Sep 2005)

CHM Khadga Bahadur Thapa (No. 5043414M now JC-602636X), 1 Sep 2005

Hav Harsha Bahadur Gurung (No. 5043517N now JC-602637A), 1 Sep 2005

Hav Ranjit Rana (No. 5043674A now JC-602638H), 1 Sep 2005

Hav Arun Kumar Thapa (No. 5043257N now JC-602639L), 6 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Sep 2005)

Hav Chandra Bahadur Gurung (No. 5043275W now JC-602640A), 6 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Sep 2005)

Hav Padam Bahadur Thapa (No. 5043488K now JC-602641H), 7 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 20 Sep 2005)

CHM Birendra Bahadur Gurung (No. 5043802M now JC-602642L), 1 Oct 2005

Hav Surya Bahadur Gurung (No. 5043925Y now JC-602643N), 1 Nov 2005

CQMH Khim Bahadur Thapa (No. 5043940N now JC-602644W), 1 Nov 2005

Hav Chop Bahadur Thapa (No. 5043970L now JC-602645Y), 1 Nov 2005

Hav Bishan Bahadur Gurung (No. 5043971N now JC-602646F), 1 Nov 2005

CQHM Raj Kumar Pradhan (No. 5043241H now JC-602647K), 7 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 11 Sep 2005)

CQMH Chandra Man Tamang (No. 5043290L now JC-602648M), 2 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Oct 2005)

Hav Hari Bahadur Gurung (No. 5043486Y now JC-602649P), 23 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Oct 2005)

Hav Lal Bahadur Gurung (No. 5043504W now JC-602650K), 14 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Oct 2005)

Hav Manoj Kumar Shrestha (No. 5043586K now JC-602651M), 17 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Oct 2005)

Hav Ruk Bahadur Gurung (No. 5043545A now JC-602652P), 23 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Oct 2005)

Hav Aita Man Gurung (No. 5043567Y now JC-602653X), 23 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Oct 2005)

Hav Bhagwan Singh Pun (No. 5043342W now JC-602654Y), 2 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Nov 2005)

Hav Mohan Bahadur Thapa (No. 5043305F now JC-602655H), 2 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Nov 2005)

Hav Hom Bahadur Thapa (No. 5043749M now JC-602656L), 18 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Oct 2005)

Hav Yog Raj Raskoti (No. 5043354L now JC-602657N), 8 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Nov 2005)

Hav Bishwo Kiran Shrestha (No. 5043442F now JC-602658W), 5 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Nov 2005)

Hav Ramesh Kumar Thapa (No. 5043353H now JC-602659Y), 8 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances wef 1 Dec 2005)

INFANTRY

JAK LI

To be Naib Subedar (GD)

Hav Kuldeep Singh (No. 9086774X now JC-593359N), 31 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Mar 2005)

Hav Arjan Kumar (No. 9095579F now JC-593360H), 11 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Mar 2005)

Hav Tirth Ram (No. 9087336F now JC-593361L), 14 May 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Mar 2005)

Hav Bodh Raj (No. 9086018L now JC-593362N), 11 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Apr 2005)

Hav Abdul Sattar Najjar (No. 9086598L now JC-593363W), 15 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Apr 2005)

Hav Vijay Kumar (No. 9087160F now JC-593364Y), 1 Apr 2005

Hav Ramesh Chander Sharma (No. 9085718M now JC-593400Y), 29 Nov 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 8 Oct 2005)

Hav Shiv Ram (No. 9087501F now JC-593401F), 9 Dec 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005)

Hav Nak Mohd (No. 9085475M now JC-593402K), 23 Nov 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005)

Hav Darshan Kumar (No. 9088341Y now JC-593352K), 14 Dec 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 9 Sep 2004)

Hav Joginder Singh (No. 9087494W now JC-593353M),
2 Mar 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2004)

Hav Payara Lal Sharma (No. 9087629M now JC-593354P),
2 Mar 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Oct
2004)

Hav Gulzar Ahmad Mir (No. 9087184L now JC-593355X),
2 Mar 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov
2004)

Hav Gopal Dass (No. 9087600K now JC-593356A), 15 Apr
2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec
2004)

Hav Mohd Qazim (No. 9086970X now JC-593357H), 4 May
2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jan 05)

Hav Babu Ram (No. 90878641L now JC-593358L), 3 Mar
2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Feb 2005)

THE BIHAR REGIMENT

To be Naib Subedar (Musician)

Hav/Mushn K Dhurama Rao Dora (No. 4261904Y now JC-
559440N), 11 May 2005/1 Oct 2004 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 1 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (GD)

Hav Gandra Oraon (No. 4262346P now JC-559519P),
24 Nov 2005/1 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted notional seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 1 Jun 2005 without effect on pay and
allowances)

CHM Ram Kailash Prasad (No. 4261742Y now JC-
559520L), 13 Dec 2005/6 Aug 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 6 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

CHM Binda Singh (No. 4262609H now JC-559521N),
19 Oct 2005/1 Sep 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

CHM Jai Prakash Tiwary (No. 4261425X now JC-
559522W), 19 Oct 2005/26 Sep 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 26 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (Clerk/GD)

Hav/Clk Bidhyachal Prasad (No. 4264311X now JC-
559523Y), 1 Oct 2005

To be Naib Subedar (GD)

CHM Ramakanta Mahunta (No. 4262471Y now JC-
559524F), 4 Dec 2005/1 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Somra Oraon (No. 4266745W now JC-559525K),
17 Dec 2005/1 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Raphael Dhan (No. 4267630P now JC-559526M),
8 Oct 2005/1st Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ambika Roy (No. 4262517W now JC-559527P),
25 Nov 2005/3 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 3 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

CQMH Raj Kumar Mehta (No. 4262646W now JC-
559528X), 26 Nov 2005/3 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 3 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

CHM Ram Ekbal Singh (No. 4261263X now JC-559529A),
1 Dec 2005/1 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Daya Shanker Mishra (No. 4262906W now JC-
559530P), 8 Nov 2005/1 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

CHM Vishnu Deo Rai (No. 4261264A now JC-559531X),
1 Dec 2005

Hav Jhonson Sanga (No. 4266417H now JC-559532A),
1 Dec 2005

Hav Ram Bahadur Singh (No. 4263045X now JC-559533H),
26 Dec 2005/1 Dec 2004 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 1 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Man Dhiran Nayak (No. 4268446W now JC-559534L),
23 Aug 2005/13 May 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 13 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Prasad (No. 4262994X now JC-559535N), 29 Aug 2005/1 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Harihar Prasad Rai (No. 4262104M now JC-559536W), 26 Sep 2005/9 Jul 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 9 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Manoranjan Kumbar (No. 4262876K now JC-559537Y), 26 Sep 2005/9 Jul 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 9 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Pawan Kumar Singh (No. 4263436H now JC-559538F), 28 Sep 2005/9 Jul 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 9 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Mahendra Pratap Singh (No. 4265534F now JC-559539K), 28 Sep 2005/9 Jul 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 9 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Bikram Kisku (No. 4262635K now JC-559540Y), 30 Nov 2005/1 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Shankar Thakur (No. 4260048A now JC-559541F), 5 Dec 2005/7 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 7 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rama Chandra Beshra (No. 4264852Y now JC-559542K), 5 Dec 2005/7 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 7 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Din Dayal Singh (No. 4261795X now JC-559543M), 30 Nov 2005/1 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Karunakar Majhi (No. 4263233Y now JC-559544P), 15 Dec 2005/1 Dec 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar Singh (No. 4263380F now JC-559545X), 15 Dec 2005/1 Dec 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Hemanta Kumar Mohanty (No. 4263547A now JC-559546A), 18 Dec 2005/1 Dec 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

CHM Rainayan Mehto (No. 4263750W now JC-559547H), 20 Dec 2005/1 Dec 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Sumant Kumar Suman (No. 4260567H now JC-559548L), 30 Dec 2005/23 Dec 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub/Clk with effect from 23 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Dhan Singh (No. 4179146A now JC-539799N), 28 Jul 2005/1 Jul 2004*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wcf 1 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

CQMH Harish Chandra Kandpal (No. 4177448N now JC-539800X), 28 Jul 2005/24 Apr 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wcf 24 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Narayan Singh (No. 4177741L now JC-539801A), 28 Jul 2005/24 Apr 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wcf 24 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dinesh Singh Chamyal (No. 14701742P now JC-539827P), 3 Oct 2005/24 Apr 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wcf 24 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kishan Singh (No. 4177785H now JC-539802H), 28 Jul 2005/24 Apr 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wcf 24 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Lal Singh (No. 4179208P now JC-539828X), 17 Aug 2005/24 Apr 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wcf 24 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jagat Singh (No. 4178222P now JC-539874M), 3 Oct 2005/26 Jun 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Soban Singh Rathour (No. 4177196M now JC-539829A), 8 Oct 2005/1 Aug 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

CHM Ganga Singh (No. 4177197P now JC-539830P), 6 Sep 2005/1 Aug 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

CHM Harish Chand (No. 4177332X now JC-539831X), 6 Sep 2005/1 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Giri (No. 4177345P now JC-539832A), 6 Sep 2005/1 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Khushal Singh (No. 4177368W now JC-539875P), 11 Nov 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bhairab Datt (No. 4178742A now JC-539876X), 13 Dec 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

CHM Darwan Singh (No. 4178789L now JC-539877A), 9 Nov 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Sunder Singh (No. 4179386X now JC-539833H), 10 Sep 2005/1 May 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 May 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Chandra (No. 4188181K now JC-539834L), 18 Aug 2005/14 Jun 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Pan Singh (No. 4187635W now JC-539808K), 4 Aug 2005/1 Jul 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

CHM Chandra Singh (No. 4176838W now JC-539809M), 4 Aug 2005/5 Jul 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 5 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dinesh Chandra (No. 4181550N now JC-539810F), 4 Aug 2005/8 Jul 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 8 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dharmendra Singh (No. 3178605L now JC-539820L), 1 Sep 2005

Hav Hem Chandra Harbola (No. 4187017P now JC-539878H), 12 Dec 2005/8 Jul 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 8 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Arjun Singh (No. 4177533W now JC-539857W), 21 Nov 2005/30 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Chandra (No. 4177327M now JC-539858Y), 9 Nov 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mangal Singh Rawat (No. 4179518A now JC-539859X), 21 Nov 2005/1 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kabinder Singh Batila (No. 4177403N now JC-539879L), 4 Dec 2005/10 Dec 2004*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Rajender Singh (No. 4179543Y now JC-539880A), 4 Dec 2005/1 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Sher Singh Kapkoti (No. 4177484Y now JC-539791F), 3 Jul 2005/1 Jul 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Singh Rathour (No. 4179572N now JC-539861P), 7 Nov 2005/1 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dhyan Singh Bajwal (No. 4177277N now JC-539860M), 7 Nov 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Umesh Chandra Upadhyay (No. 4182038F now JC-539881H), 1 Dec 2005

Hav Shish Ram Yadav (No. 4181287N now JC-539863A), 19 Oct 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Om Prakash (No. 4179719Y now JC-539826X), 11 Oct 2005/29 Apr 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mahender Singh (No. 4177504F now JC-539864H), 26 Oct 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Suraj Mal (No. 4177724L now JC-5398651), 26 Oct 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Surender Kumar (No. 4183466M now JC-539882L), 27 Nov 2005/1 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Amar Singh (No. 4177753A now JC-539883N), 1 Dec 2005

Hav Gopal Singh Sugara (No. 4181276F now JC-539867W), 21 Oct 2005/10 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jagat Singh (No. 4178188A now JC-539866N), 21 Oct 2005/10 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Pan Singh Mehra (No. 4178397X now JC-539884W), 25 Nov 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Diwan Singh (No. 4182671F now JC-539885Y), 25 Nov 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Narayan Singh (No. 4183524L now JC-539886F), 25 Nov 2005/01 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Naresh Kumar Yadav (No. 4182116N now JC-539887K), 25 Nov 2005/1 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Chimman Lal (No. 4181374F now JC-539836W), 8 Sep 2005/13 Aug 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Subhash Chandra Singh Yadav (No. 4177103M now JC-539837Y), 8 Sep 2005/13 Aug 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Darambir Singh (No. 4178345F now JC-539838F), 26 Sep 2005/3 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Har Singh (No. 4177791W now JC-539839K), 26 Sep 2005/1 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 3 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Man Singh (No. 4178135F now JC-539888A), 6 Dec 2005/5 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 5 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bahadur Singh (No. 4178180N now JC-539840M), 22 Aug/1 Jul 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jagdish Singh (No. 4178385N now JC-539841P), 14 Sep 2005/1 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jogendra Singh (No. 4179778L now JC-539842X), 14 Sep 2005/1 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kishan Singh (No. 4179231H now JC-539843X), 10 Sep 2005/1 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Pan Singh Gaira (No. 4175354X now JC-539844P), 10 Sep 2005/1 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Hawa Singh Yadav (No. 3178805F now JC-539868Y), 2 Nov 2005/1 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Prem Singh (No. 4177140A now JC-539845X), 1 Sep 2005

Hav Kharak Singh (No. 4176670H now JC-539869F), 25 Sep 2005/07 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 7 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Lalit Singh Parihar (No. 4180473 now JC-539871M), 8 Nov 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mahender Singh Sontiyal (No. 4176723W now JC-539870K), 8 Nov 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ramavtar Yadav (No. 4180610L now JC-539872P), 8 Nov 2005/6 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 6 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Diwan Singh (No. 4178567W now JC-539889P), 1 Dec 2005/15 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Prasad (No. 4181633Y now JC-539890K), 1 Dec 2005

CHM Ganesh Singh (No. 4175615A now JC-539846A), 7 Sep 2005/1 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

CHM Basanta Ram Yadav (No. 4180453K now JC-539847H), 1 Sep 2005

CHM Laxman Singh (No. 4175957N now JC-539891M), 24 Nov 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Shyam Datt (No. 4176774K now JC-539813P), 23 Jul 2005/1 Jul 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kishan Singh (No. 4177136X now JC-539848L), 8 Sep 2005/1 Sep 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

NAGAREGT

Hav Harish Chandra (No. 14701093P now JC-590171N), 1 Nov 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Kumar Thapa (No. 14701006W now JC-590173Y), 21 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Tek Bahadur Chetri (No. 14701019N now JC-590174F), 21 Nov 2005/6 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 6 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Navneet Kumar Thapa (No. 14701028P now JC-590175Y), 9 Dec 2005/16 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bhupal Singh (No. 4177904M now JC-590172W), 20 Oct 2005/1 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Tia Temsu (No. 14701045P now JC-590176M), 23 Nov 2005/1 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Man Bahadur Thapa (No. 14701081A now JC-590177P), 23 Nov 2005/1 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

THE GRENADIERS

To be Subedar

Rank, Name, Army No. and Date of promotion

Nb Sub Ashok Kumar (JC-449561M), 9 Jun 2004

Nb Sub Gauri Shankar Badsara (JC-449410N), 19 Jun 2004

Nb Sub Padam Singh (JC-449456W), 22 Jun 2004	Nb Sub Lakhan Singh (JC-449519N), 7 Dec 2004
Nb Sub Ranvir Singh (JC-449613X), 22 Jun 2004	Nb Sub Odedra Deva Raju (JC-449566L), 7 Dec 2004
Nb Sub Jeet Bahadur Singh (JC-449362Y), 1 Oct 2004	Nb Sub Khima Khatal (JC-449602L), 7 Dec 2004
Nb Sub Madan Singh (JC-449458F), 1 Oct 2004	Nb Sub Randhir Singh (JC-449578A), 7 Dec 2004
Nb Sub Sharwan Singh (JC-449508F), 1 Oct 2004	Nb Sub Solanki Ajit Dan Sang (JC-449620N), 7 Dec 2004
Nb Sub Ram Niwas Dhaka (JC-449424N), 3 Oct 2004	Nb Sub Satyawar (JC-449645A), 7 Dec 2004
Nb Sub Anis Khan (JC-449305X), 1 Nov 2004	Nb Sub Shimbhu Dayal Rawat (JC-449608M), 7 Dec 2004
Nb Sub Ajit Singh (JC-449395K), 1 Nov 2004	Nb Sub Surender Singh (JC-449614A), 7 Dec 2004
Nb Sub Berender Singh (JC-449398X), 1 Nov 2004	Nb Sub Dilbag Singh (JC-449640F), 7 Dec 2004
Nb Sub Chauhan Dashrath Bhai Jeta Bhai (JC-449460Y), 1 Nov 2004	Nb Sub Rameshwar Lal (JC-449675X), 7 Dec 2004
Nb Sub Avtar Singh (JC-449459K), 1 Nov 2004	Nb Sub Om Parkash (JC-449684P), 7 Dec 2004
Nb Sub Nand Lal Meena (JC-449494M), 1 Nov 2004	Nb Sub Tarsem Singh (JC-449162N), 9 Dec 2004
Nb Sub Narain Dass (JC-449503H), 1 Nov 2004	Nb Sub Aladin Khan (JC-449358W), 9 Dec 2004
Nb Sub Rajendra Singh, SM (JC-449148W), 7 Nov 2004	Nb Sub Babu Lal (JC-449425W), 9 Dec 2004
Nb Sub Gopal Singh Shekhawat (JC-449150N)), 7 Nov 2004	Nb Sub Bhoop Singh Chauhan (JC-449511F), 19 Dec 2004
Nb Sub Jai Singh (JC-449428K), 7 Nov 2004	Nb Sub Prem Nath (JC-449447F), 30 Dec 2004
Nb Sub Hira Singh (JC-449486N), 7 Nov 2004	Nb Sub Surender Singh Parihar (JC-449104L), 31 Dec 2004
Nb Sub Janak Raj (JC-449251F), 10 Nov 2004	Nb Sub Chhotu (JC-449209H), 1 Jan 2005
Nb Sub Suresh Kumar (JC-449016H)), 16 Nov 2004	Nb Sub Parhalad Singh Chauhan, SM (JC-449289L), 1 Jan 2005
Nb Sub Suresh Singh (JC-449532X), 20 Nov 2004	Nb Sub Akbal Ahmed Khan, SM (JC-449270M), 1 Jan 2005
Nb Sub Jhoomer Singh (JC-449466A), 20 Nov 2004	Nb Sub Habib Khan (JC-449378K), 1 Jan 2005
Nb Sub Chuni Lal (JC-449014X), 1 Dec 2004	Nb Sub Mohd Haroon (JC-449419H), 1 Jan 2005
Nb Sub Somvir (JC-449035N), 1 Dec 2004	Nb Sub Diwan Singh Rana (JC-449485L), 1 Jan 2005
Nb Sub Hira Lal (JC-449254P), 1 Dec 2004	Nb Sub Bhumi Dev (JC-449493K), 1 Jan 2005
Nb Sub Parkash (JC-449429M), 1 Dec 2004	Nb Sub Rohtash (JC-449516A), 1 Jan 2005
Nb Sub Sant Kumar, SM (JC-449468L), 1 Dec 2004	Nb Sub Ajit Singh (JC-449546X), 1 Jan 2005
Nb Sub Suresh Chander (JC-449470H), 1 Dec 2004	Nb Sub Rainesh Kumar (JC-449551H), 8 Jan 2005
Nb Sub Jadhav Shankar Kisan (JC-449471L), 1 Dec 2004	Nb Sub Ayub Khan (JC-449211A), 1 Feb 2005
Nb Sub Bhanwar Singh (JC-449539F), 1 Dec 2004	Nb Sub Bajrang Singh (JC-449587F), 1 Feb 2005
Nb Sub Satish (JC-449457Y), 2 Dec 2004	Nb Sub Bachan Lal (JC-449355H), 1 Feb 2005
Nb Sub Devi Singh (JC-449389W), 7 Dec 2004	Nb Sub Madan Singh (JC-449361W), 1 Feb 2005
Nb Sub Udham Singh (JC-449502A), 7 Dec 2004	Nb Sub Mohd Salim (JC-449383P), 1 Feb 2005

- Nb Sub Mir Khan (JC-449555Y), 1 Feb 2005
- Nb Sub Nawab Ali (JC-449487W), 1 Feb 2005
- Nb Sub Tara Chand Gandhi (JC-449498H), 12 Feb 2005
- Nb Sub Ashok Kumar (JC-449652W), 15 Feb 2005
- Nb Sub Sushil Kumar, SC (JC-449202Y), 1 Mar 2005
- Nb Sub Girdhari Lal (JC-449243H), 1 Mar 2005
- Nb Sub Yudhvir Singh (JC-449277W), 1 Mar 2005
- Nb Sub Hakam Lli Khan (JC-449444F), 1 Mar 2005
- Nb Sub Prem Singh (JC-449588K), 5 Mar 2005
- Nb Sub Suryabhan Singh (JC-449536N), 28 Mar 2005
- Nb Sub Indra Pal Singh (JC-449099Y), 31 Mar 2005
- Nb Sub Bhagirath (JC-449152Y), 1 Apr 2005
- Nb Sub Surender Singh (JC-449453N), 1 Apr 2005
- Nb Sub Fateh Chand (JC-449497A), 1 Apr 2005
- Nb Sub Satyavir (JC-449500P), 1 Apr 2005
- Nb Sub Devi Singh (JC-449513M), 1 Apr 2005
- Nb Sub Brij Lal Meena (JC-449542F), 1 Apr 2005
- Nb Sub Madhu Lal Meena (JC-449543K), 1 Apr 2005
- Nb Sub Unoos Ali (JC-449576P), 1 Apr 2005
- Nb Sub Amin Chand (JC-449589H), 1 Apr 2005
- Nb Sub Mohd Safiq (JC-449662A), 1 Apr 2005
- Nb Sub Parushotam Singh (JC-449667Y), 1 Apr 2005
- Nb Sub Harbans Lal (JC-449203L), 23 Apr 2005
- Nb Sub Rai Singh (JC-449615W), 25 Apr 2005
- Nb Sub Rohtas Singh (JC-449434X), 1 May 2005
- Nb Sub Daljit Singh (JC-449416P), 1 May 2005
- Nb Sub Ran Singh (JC-449483A), 1 May 2005
- Nb Sub Daya Nand (JC-449047H), 4 May 2005
- Nb Sub Gajender Singh (JC-449388M), 4 May 2005
- Nb Sub Oned Singh (JC-449545P), 7 May 2005
- Nb Sub Rajender Singh (JC-449207X), 11 May 2005
- Nb Sub Ram Babu Singh (JC-448994X), 1 Jun 2005
- Nb Sub Brij Mohan Singh (JC-449538Y), 1 Jun 2005
- Nb Sub Shriman Rana (JC-449639M), 1 Jun 2005
- Nb Sub Ramesh Kumar (JC-449679H), 28 Jun 2005
- Nb Sub Rajender Prasad Joshi (JC-449167F), 1 Jul 2005
- Nb Sub Lekh Raj (JC-449322X), 1 Jul 2005
- Nb Sub Mishri Lal (JC-449382M), 1 Jul 2005
- Nb Sub Karnail Singh (JC-449385A), 1 Jul 2005
- Nb Sub Sher Bahadur Singh (JC-449548H), 1 Jul 2005
- Nb Sub Anil Chand (JC-449547A), 1 Jul 2005
- Nb Sub Hamid Khan (JC-449554W), 1 Jul 2005
- Nb Sub Gopal Krishan (JC-449636Y), 1 Jul 2005
- Nb Sub Dilbag Singh (JC-449665N), 1 Jul 2005
- Nb Sub Phool Chand (JC-449676A), 1 Jul 2005
- Nb Sub Baljit Singh (JC-449681L), 1 Jul 2005
- Nb Sub Bishan Dass (JC-449448X), 7 Jul 2005
- Nb Sub Joginder Singh Sen, SM (JC-449629H), 29 Jul 2005
- Nb Sub Pawan Kumar (JC-449495P), 1 Aug 2005
- Nb Sub Satyabir Singh (JC-449504L), 1 Aug 2005
- Nb Sub Surat Singh (JC-449562P), 1 Aug 2005
- Nb Sub Sanwar Mal (JC-449564A), 1 Aug 2005
- Nb Sub Dev Raj (JC-449582H), 1 Aug 2005
- Nb Sub Surinder Singh, SM (JC-449592M), 1 Aug 2005
- Nb Sub Surjit Singh (JC-449643P), 1 Aug 2005
- Nb Sub Sankatha Prasad Singh (JC-449670Y), 1 Aug 2005
- Nb Sub Ram Singh Yadav (JC-449292L), 8 Aug 2005
- Nb Sub Shankar Singh (JC-449015A), 1 Sep 2005
- Nb Sub Hafiz Khan (JC-449237F), 1 Sep 2005
- Nb Sub Shoket Ali (JC-449323A), 1 Sep 2005
- Nb Sub Ranjeet Khan (JC-449327W), 1 Sep 2005
- Nb Sub Jagdish Raj (JC-449411W), 1 Sep 2005
- Nb Sub Jabar Singh (JC-449426Y), 1 Sep 2005
- Nb Sub Vidhya Dhar (JC-449517H), 1 Sep 2005
- Nb Sub Satyavir Singh Koyal (JC-449518L), 1 Sep 2005

Nb Sub Rajender Singh (JC-449528P), 1 Sep 2005	Nb Sub Vijay Kumar (JC-449510Y), 1 Dec 2005
Nb Sub Bhandari Ram (JC-449550A), 1 Sep 2005	Nb Sub Satendra Thakur (JC-449535L), 1 Dec 2005
Nb Sub Kan Singh (JC-449570N), 1 Sep 2005	Nb Sub Ram Avtar Singh (JC-449496X), 1 Dec 2005
Nb Sub Blum Singh (JC-449573F), 1 Sep 2005	Nb Sub Aliyas (JC-449540W), 1 Dec 2005
Nb Sub Dhanna Lal Mecna (JC-449622K), 1 Sep 2005	Nb Sub Bajeeer Singh (JC-449558M), 1 Dec 2005
Nb Sub Man Singh Sejwar (JC-449627X), 1 Sep 2005	Nb Sub Jagvir (JC-449659A), 1 Dec 2005
Nb Sub Bansi Lal (JC-449685F), 1 Sep 2005	Nb Sub Chander Singh (JC-449672K), 1 Dec 2005
Nb Sub Madan Singh (JC-449688P), 3 Sep 2005	Nb Sub Liyakat Ali (JC-449593P), 1 Jan 2006
Nb Sub Mohinder Singh (JC-449551H), 18 Sep 2005	Nb Sub Miyaz Mohammad (JC-449631A), 1 Jan 2006
Nb Sub Rajender (JC-449238X), 1 Oct 2005	Nb Sub Balbir Singh (JC-449697W), 1 Jan 2006
Nb Sub Chhotu Kathat (JC-449455N), 1 Oct 2005	Nb Sub Daya Ram (JC-449225F), 22 Jan 2006
Nb Sub Brij Kishore Singh (JC-449481P), 1 Oct 2005	To be Subedar (Clerks)
Nb Sub Vankar Dwank Bhai Rati Lal (JC-449662X), 1 Oct 2005	Nb Sub (Cik) Ramphal Banwala (JC-449236M), 1 Jan 2005
Nb Sub Dinesh Singh (JC-449484H), 1 Oct 2005	Nb Sub (Cik) Kuldeep Singh Kapoor (JC-449267M), 1 Jan 2005
Nb Sub Dilbag Singh (JC-449520H), 1 Oct 2005	Nb Sub (Cik) Babu Lal Dhatt (JC-449268P), 1 Feb 2005
Pianc Lal (JC-449537W), 1 Oct 2005	Nb Sub (Cik) Virender Singh (JC-449314Y), 1 Feb 2005
Nb Sub Sirtaj Ahmed (JC-449583L), 1 Oct 2005	Nb Sub (Cik) Surender Singh Bagal (JC-449315F), 1 Apr 2005
Nb Sub Heem Raj (JC-449600A), 1 Oct 2005	Nb Sub (Cik) Tilak Raj (JC-449334M), 1 Jun 2005
Nb Sub Madan Lal Pathania (JC-449605Y), 1 Oct 2005	Nb Sub (Cik) Mahander Singh (JC-449335P), 1 Jun 2005
Nb Sub Bodh Raj (JC-449625M), 1 Oct 2005	Nb Sub (Cik) Vijay Kumar (JC-449336X), 1 Jun 2005
Nb Sub Chander Pal Verma (JC-449628A), 27 Oct 2005	Nb Sub (Cik) Rattan Singh (JC-449337A), 1 Jul 2005
Nb Sub Salamuddin (JC-449328Y), 1 Nov 2005	Nb Sub (Cik) Bimal Parsad Mohapatra (JC-449351M), 1 Jul 2005
Nb Sub Ummed Singh Jakhar (JC-449406L), 1 Nov 2005	Nb Sub (Cik) Rajpal Singh (JC-449391N), 1 Aug 2005
Nb Sub Nanak Chand (JC-449443Y), 1 Nov 2005	Nb Sub (Cik) Ravinder Kumar (JC-449393Y), 1 Aug 2005
Nb Sub Sube Singh (JC-449467H), 1 Nov 2005	Nb Sub (Cik) Chander Dutt Chahal (JC-449394F), 1 Sep 2005
Nb Sub Satya Bhan Singh (JC-449531P), 1 Nov 2005	Nb Sub (Cik) Hamid Khan (JC-449409Y), 1 Sep 2005
Nb Sub Ram Prakash Baghela (JC-449571W), 1 Nov 2005	Nb Sub (Cik) Satyavir Singh (JC-449441N), 1 Sep 2005
Nb Sub Subhash Chander (JC-449603N), 12 Nov 2005	Nb Sub (Cik) Mohan Lal (JC-449450P), 1 Nov 2005
Nb Sub Manwar Ali (JC-449366P), 1 Dec 2005	Nb Sub (Cik) Santosh Kumar Sharma (JC-449472N), 1 Nov 2005
Nb Sub Khadim Hussain (JC-449435A), 1 Dec 2005	Nb Sub (Cik) Surinder Kumar Thakur (JC-449473W), 1 Nov 2005
Nb Sub Shokat Ali (JC-449445K), 1 Dec 2005	Nb Sub (Cik) Dinker Joshi (JC-449474Y), 1 Jan 2006
Nb Sub Sukha Ram Ghotia (JC-449509K), 1 Dec 2005	

Nb Sub (Clk) Rajendra Singh Kushwah (JC-449475F),
1 Jan 2006

Nb Sub (Clk) Babu Ram (JC-449476K), 1 Jan 2006

Nb Sub (Clk) Jaipal Singh (JC-449477M), 1 Feb 2006

Nb Sub (Clk) Bachchu Singh Tomar (JC-449478P), 1 Feb
2006

Nb Sub (Clk) Vijay Bahadur Singh (JC-449479X), 1 Mar
2006

Nb Sub (Clk) Virender Singh (JC-449490W), 1 Mar 2006

To be Subedar Major (Clerks)

Sub (Clk) Mahavir Parsad (JC-448711L), 1 Nov 2005

To be Nb Sub

Hav Mahavir Prasad Meel (No. 2675975M now JC-
450033P), 31 Oct 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jul 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Ram Avtar (No. 2673572N now JC-450034X), 1 Oct
2005

Hav Md Ashraf Ali (No. 2676182W now JC-450035A),
1 Oct 2005

Hav Balwan Singh (No. 2676182W now JC-450035A),
1 Oct 2005

Hav Baghela Vijay Bhai Nathu Ram (No. 2679283P now
JC-450037L), 1 Oct 2005

Hav Ram Narayan Singh (No. 2679672P now JC-450038N),
1 Oct 2005

Hav Hari Ram Siyag (No. 2680523N now JC-450039W),
1 Oct 2005

Hav Bhanwar Lal Thory (No. 2680524W now JC-450040L),
1 Oct 2005

Hav Hari Singh (No. 2679421L now JC-450041N), 1 Oct
2005

Hav Banwari Lal (No. 2683846F now JC-450042W), 1 Oct
2005

Hav Kashmir Singh (No. 2676847F now JC-450043Y),
1 Oct 2005

Hav Surinder Singh (No. 2673742M now JC-450044F),
1 Oct 2005

Hav Ram Naresh Singh (No. 8031702X now JC-450045K),
1 Oct 2005

Hav Des Raj (No. 2680517A now JC-450046M), 1 Oct 2005

Hav Rajender Singh (No. 2677187F now JC-450047P),
1 Oct 2005

Hav Hakim Singh (No. 2680748W now JCC-450048X),
1 Oct 2005

Hav Karnel Singh (No. 2678965N now JC-450049A),
14 Oct 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Joginder Singh (No. 2677376L now JC-450050P),
1 Oct 2005

Hav Solanki Govind Bhai Soma Bhai (No. 2683893Y now
JC-450051X), 1 Oct 2005

Hav Kuldip Singh (No. 2676794N now JC-450052A),
1 Oct 2005

Hav Dev Raj (No. 2676712A now JC-450053H), 1 Oct 2005

Hav Bachan Lal (No. 2677068L now JC-450054L), 1 Oct
2005

Hav Raval Singh (No. 2677288P now JC-450055N), 1 Oct
2005

Hav Khem Singh (No. 2678504K now JC-450056W),
18 Jan 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sb wef 1 Oct 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Panwar Ashok Kumar Jogpal Singh (No. 2683472W
now JC-450057Y), 1 Oct 2005

Hav Ram Singh (No. 2677933Y now JC-450058F), 12 Oct
2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 4 Oct 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Ramjan Khan (No. 2679326Y now JC-450059K), 5 Oct
2005

Hav Major Khan Tak (No. 2677119N now JC-450061F),
2 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Sep 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Mahender Singh Rathore (No. 2676076X now
JC-450062K), 29 Oct 2005

Hav Satypal Singh Chauhan (No. 2676079L now
JC-450063M), 29 Oct 2005

Hav Ami Lal (No. 2673749W now JC-450064P), 1 Nov
2005

Hav Khem Raj Meena (No. 2677214A now JC-450065X),
1 Nov 2005

Hav Labh Chandra Meena (No. 2679296M now
JC-450066A), 1 Nov 2005

Hav Rahiman Ali (No. 2676213L now JC-450067H), 1 Nov 2005	(Granted ante dated seniority wef 3 May 2005 without effect on pay and allowances)
Hav Ram Rattan Singh (No. 2679388Y now JC-450068L), 1 Nov 2005	Hav Raspal Chand (No. 2475150X now JC-429910K), 9 Nov 2005
Hav Niyaj Mohammed (No. 2676628A now JC-450069N), 1 Nov 2005	(Granted ante dated seniority wef 1 Sep 2005 without effect on pay and allowances)
Hav Kamal Singh (No. 2678086A now JC-450070H), 1 Nov 2005	Hav Durga Dass (No. 2474280N now JC-429911M), 19 Nov 2005
Hav Gajender Singh Sengar (No. 2676057M now JC-450071L), 1 Nov 2005	(Granted ante dated seniority wef 6 Sep 2005 without effect on pay and allowances)
Hav Prabhat Chand. SM (No. 2678105A now JC-450072N), 1 Nov 2005	Hav Jank Singh (No. 2475172W now JC-429929H), 14 Dec 2005
Hav Teja Singh (No. 2676630K now JC-450073W), 1 Nov 2005	(Granted ante dated seniority wef 6 Sep 2005 without effect on pay and allowances)
Hav Baljit Singh (No. 2678139N now JC-450074Y), 1 Nov 2005	Hav Parkash Chand (No. 2475163P now JC-429930X), 14 Dec 2005
Hav Shamsheer Singh (No. 2678971F now JC-450075F), 1 Nov 2005	(Granted ante dated seniority wef 6 Sep 2005 without effect on pay and allowances)
Hav Daljit Singh (No. 2676313W now JC-450076K), 6 Nov 2005	Hav Nishan Singh (No. 2479173W now JC-429912P), 19 Nov 2005
Hav Tej Singh (No. 2676379M now JC-450077M), 9 Nov 2005	(Granted ante dated seniority wef 14 Sep 2005 without effect on pay and allowances)
(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 6 Nov 2005 without effect on pay and allowances)	Hav Darshan Singh (No. 2474997P now JC-429913X), 9 Nov 2005
Hav Shokat Khan (No. 2676084W now JC-450078P), 12 Nov 2005	(Granted ante dated seniority wef 30 Sep 2005 without effect on pay and allowances)
To be Nb Sub (Clk)	Hav Hem Raj Singh (No. 2478518A now JC-429914A), 4 Nov 2005
Hav/Clk Om Parkash (No. 2676846Y now JC-450079X), 1 Jan 2006	(Granted ante dated seniority wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances)
Hav/Clk Heera Lal Gujar (No. 2677576F now JC-450080M), 1 Jan 2006	Hav Mohan Lal (No. 2474684W now JC-429931A), 22 Nov 2005
Hav/Clk Ramesh Chandra Singh (No. 2678650K now JC-450081P), 1 Jan 2006	(Granted ante dated seniority wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances)
Hav/Clk Suresh Kumar (No. 2678690L now JC-450082X), 1 Feb 2006	Hav Bikaram Singh (No. 2475487A now JC-429932H), 26 Dec 2005
Hav/Clk Karan Singh (No. 2678781P now JC-450083A), 1 Feb 2006	(Granted ante dated seniority wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances)
Hav/Clk Afsar Ali Khan (No. 2679411F now JC-450084H), 1 Mar 2006	Hav Yash Pal (No. 2475559Y now JC-429915H), 7 Nov 2005
THE PUNJAB REGIMENT	(Granted ante dated seniority wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances)
(To be Naib Subedars)	Hav Shiv Charan Singh (No. 2475264H now JC-429916L), 30 Nov 2005
Hav Agya Singh (No. 2477942W now JC-429919Y), 24 Nov 2005	

(Granted ante dated seniority wef 12 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Tara Singh (No. 2477500X now JC-429917N), 18 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 21 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rajinder Singh (No. 2478778L now JC-429918W), 26 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 26 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Sham Sunder (No. 2475553X now JC-429920N), 3 Dec 2005

(Granted ante dated seniority wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Malkeet Singh (No. 2478888A now JC-429933L), 12 Dec 2005

(Granted ante dated seniority wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Tikeshwar Singh (No. 2475555H now JC-429934N), 27 Dec 2005

(Granted ante dated seniority wef 6 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Balwan Singh (No. 2477555F now JC-429921W), 7 Dec 2005

(Granted ante dated seniority wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Sukhvinder Singh (No. 2477036Y now JC-429936Y), 6 Dec 2005

(Granted ante dated seniority wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Paramjit Singh (No. 2476420N now JC-429935W), 1 Dec 2005

Hav Rajender Singh (No. 2475674Y now JC-429922Y), 1 Dec 2005

Hav Babu Rain (No. 2474314W now JC-429923F), 5 Dec 2005

(Granted ante dated seniority wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Baldev Raj (No. 2475681P now JC-429937F), 12 Dec 2005

(Granted ante dated seniority wef 1 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

DIWAKAR
Under Secy.

No. 389, the 4th July 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to Lt Col

Name, Arm

IC-39624 P M Bali, Inf

Personal No., Name Arm

IC-45566 Ajay Sharma, Sigs

SL-3830 Anand Kumar Thapliyal, SL QM

16 Dec 2004

Capt to be Maj

Name, Arm

IC-59215 Ajit Tanwar, Arty

11 Dec 2005

No. 53613 Manoj Sharma, Inf

No. 55274 Rajesh Sharma, Arty

No. 55473 Rajesh Kumar Shukla, Inf

No. 55579 Aditya Singh, Arty

No. 56033 Rakesh Yadav, AOC

16 Dec 2004

SHIV RAM BAIRWA

Dy. Dir

MS 8C

No. 390, the 4th July 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Substantive Col (By Selection)

Pers No., Name, Arm, Subs Date

IC-39114, Bharat Kumar, AAD, 1 Feb 2005

IC-35901, AKS Sengar, Guards, 31 Oct 2004

IC-35213, Abhay Gupta, Arty, 1 Aug 2003

AJAY GOEL

Dy Director

MS-8A

(AIR FORCE)

No. 391, the 10 July 2006.—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

INDIAN AIR FORCE

ACCTS BRANCH

Wing Commander to be Substantive GP Capt (TS)

A L Mukherjee (14071), Y P Jindal (14543), P K Verma (14548), A K Narendra (14981), F George (14988), R Chaddha (14991), K V Karunanidhi (15374), M S Moorthy (15380), Om Prakash (15382), P N Shashikant (15385), D K H B Vyas (15386), wef 16 Dec 2004

ACCTS BRANCH

Squadron Leader to be Substantive Wing Commander

D K Bose (21712), wef 1 Feb 2005

U K Sharma (17901), K Kalyankumar (17907), S S Akurati (17913), A K Nigam (17915), G Srikumar (917917), V K Sharma (17921), M Burra (17922), V S Gupta (18168), A N Babu (18169), M V R Murthy (18170), P Karamachandran (18656), V Trivedi (18657), H V Tiwari (18658), D K Sharma (18659), D Gopalakrishna (18660), A R Franklin (18662), K K Mishra (18664), S Kulshrestha (19250), S Nagesh (19251), R Vanaik (19253), M Lalit (19254), S K Hardat (19257), LT Satyanarayana (19258), A Saini (19259), S Krishna (19261), T M Kishan (19262), R Jain (19263), M Banerjee (19265), S Y Jog (19396), B Dey (19398), A Nigam (19399), H Srinivasan (19400), K S Yadav (19401), R Mishra (19402), S Shankar (19403), R B Srivastava (19404), M K Sharma (19405), S K Mishra (19406), S K Singh (20628), R Srivastava (20629), Raj Kumar (20631), M K Mehra (20632), T Johnson (20634), A Bhatnagar (20635), S K Murthy (20636), A Arora (20638), A North (20639), P Kala (20640), S K Tripathi (20641), A S Nathan (20642), R K Nair (21650), S Malhotra (21652), A Joshi (21654), A P K Gupta (21655), S Kundu (21657), wef 16 Dec 2004

ACCTS BRANCH

Flight Lieutenant to be Substantive Squadron Leader

S Samal (23829), U Upadhyay (23830), S Niyaz (23831), C Bhattacharya (23832), (Mrs) Punct Sharma (23854), I B Yadav (23924), N N Dikshit (24293), N D Thiggale (24294), O S Narasimham (24296), D Kannan (24297), A K Misra (24298), J Bahuguna (24300), A Sarup (24301), S S Ali (24302), S K Pani (24303), R K Vashistha (24304), M R Mishra (24305), R Sukumaran (24306), (Mrs) R Angel (24319), (Mrs) P S Priya (24320), I P Singh (24343), A Ahmed (24344), N Jain (25017), K Rekhari (25018), S Chaudhary (25019), S P Choudhary (25020), R Sharma (25021), R Purandar (25022), R Chandran (25023), N Verma (25024), A Sharma (25025), V Sharma (25026), G Shastri (25054), wef 16 Dec 2004.

C Arulchamy (25537), wef 16 Jan 2005

S R Menon (25394), R Malhotra (25396), N K Tiwari (25397), K N Bhatt (25398), P Singh (25399), (Mrs.) Shaveta

Talwar (25416), (Mrs) Mrinalini Sinha (25417), wef 19 Dec 2004

ACCTS BRANCH

Flying Officer to be Substantive Flight Lieutenant

K B Sharma (26599), H S Jaggi (26600), P Gaur (26601), M K Bali (26602), S Dasgupta (26604), P Parihar (26605), M Joshi (26607), S S Sharma (26608), (Ms) Daizy Mehta (26619), (Ms) Arpita Sharma (26620), (Mrs.) Namita Anand Sharma (26621), (Ms) Promila Dhaka (26622), (Ms.) Shafoo Gautam (26623), (Ms) Preeti Bahuguna (26624), K Rajanarayanan (27041), R Srivastava (27042), P Mehta (27043), P Sharma (27044), D S Jaggi (27046), D Verma (27047), B Khan (27048), B D Chowhdury (27049), (Ms) K Akshatha (27063), (Ms) Tanushree Pant (27064), (Ms) Ashu Masdan (27065), wef 16 Dec 2004.

EDN BRANCH

Squadron Leader to be Substantive Wing Commander

S C Khattri (21713), R S Saini (21714), wef 1 Feb 2005

R Murali (18339), A S Hundal (18906), D R Khatri (18907), B B Parikh (18909), D D Mishra (18910), A Sharma (18911), M Singh (18912), I D Sharma (18913), J D Madapat (18914), R K Prasad (18915), G Singh (19268), V Shekhar (19269), N Chaturvedi (19271), G J Rao (20099), A Dutta (20100), P J Mathew (20101), C P K Kennedy (20103), S Kohli (20104), S K Jaiswal (20210), R R Lall (20212), S Jayashankar (20213), R K Mall (20215), M K Baranwal (20216), P K Chaubey (20219), A N Raina (20429), K S Rana (20434), U Thakur (20435), S V Ayachit (21069), R Ray (21071), K C Sharma (21073), B S Hora (21366), V T James (21367), S K Sharma (21368), T Natraj (21369), A Kumar (21370), R Bhatnagar (21372), P K Mahapatra (21373), R Sangwan (21375), A Katiyar (21376), E Srinivas (21377), wef. 16 Dec 2004

Squadron Leader to be Substantive Wg Cdr (TS)

R S Dhawan (17796), wef 21 Dec 2004

Flight Lieutenant to be Substantive Squadron Leader

H C S Chauhan (23632), (Mrs) Preeti Lawale (23648), J G Horace (23926), N N Sharma (23927), I Singh (23928), B D Pandey (23929), D K Mukhopadhyay (24350), S Siddique (24351), B S Yadav (24352), N Gupta (24584), R Saklani (24585), G Prabakar (24587), A Natu (24588), P Manoharan (25056), U Ghormade (25175), V K Thakur (25176), wef 16 Dec 2004.

A P Satheesh Kumar (25538), A H Ansari (25541), wef 16 Jan 2005

Flying Officer to be Substantive Flight Lieutenant

S Kumar (26389), A Ranjan (26609), V S Dangwal (26610), (Ms) Poonam Negi (26626), S B Singh (26799), D Dhadwal (27050), B L Kanth (27051), J S Parmar (27052), K S Rawat (27053), (Ms) Pushpa Thakur (27066), wef 16 Dec 2004

R K Vats (27309), wef 17 Jan 2005

ADM BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Rajnish Jha (25698), wef 19 jun 2005

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

S N Dwivedi (21878), P Gireesh (21881), P Singh (21882), K K Sharma (21883), V M Mardikar (21884), K R Srikant (21885), B Srikanth (21886), S Kannan (21887), M Bisht (21888), M Singh (21889), A Sahay (21890), A J Bhaskar (21891), S R Mahapatra (21892), S Malhotra (21893), S Saravanan (21894), S P Jakhar (21895), S S Baig (21896), S Agarwal (21897), H Nirwal (21898), C M Mishra (21899), wef 13 June 2005

EDN BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

S Jacob (21901), M Badruddin (21902), S Gaekwad (21903), S V Hegde (21904), K Yadav (21906), C S A Gupta (21907), H S Sidana (21908), S Sriram (21909), A Mittu (21910), S Chhetri (21911), R Chandra (21912), B S Gaiinda (21913), S M Sharma (21914), J Maini (21915), T K Khare (21916), B K Jacob (21917), A K Dubey (21919), wef 13 June 2005

MET BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

V S Srinivas (21494), J S Sihmar (21495), wef 13 June 2005

Wing Commander to be Substantive Gp Capts (TS)

P K Nigam (12558), Anoop Jerath (12565), I J Banga (13340), J S Gill (13557), S Ramanarayanan (13563), R M Saxena (13964), J K Kaul (13966), S V Pandey (13968), P Gurumohan (13972), H C Singhal (13974), R Dhuliya (13975), M C Joshi (14420), R S Raina (14421), R P Tripathi (14422), R P Shivhare (14424), R K Gupta (14428), C K Bhatt (14429), M S Deshpande (14430), S S Agarwal (14431), J Nirmal Doss (14860), O C Sekharam (14863), P C Dutta (14865), P Kumar (14867), S S Jarial (14868), K Rajalingam (14869), wef 16 Dec 2004

Squadron Leader to be Substantive Wing Commander

A K Srivastava (17585), M K Hota (17586), S K Babu (17588), R Samidurai (17589), I Augustine (17590), B B Pandurangi (17594), A P Serrao (17990), V C Singh (17991), T R Mohan (17992), Sanjay (18418), B S Jha (18419), R Jain (18420), N Sharma (18421), R Vishen (18422), A Bajpayee (18423), A K Goel (18424), S N Mishra (18427), K R Narayana (18428), R K Dhingra (18429), S Tyagi (18430), N K Rana (18431), S Natesan (18856), R Srivastava (18857), S K Bist (18859), J Dubey (18860), J K Sahu (18862), S Chandhok (18864), V K Choudhary (18865), Bolivar Dias (18866), A K Kulshrestha (18867), V V S Rana (18868), K Ravikiran (18869), P K Pandey (18872), S K Srivastava (18982), A Srivastava (18983), S Trivedi (18984), A K Tomar (18985), R K Mahajan (18987), N V Sankar (18988), K Prabhakar (18989), S B Singh

(18991), P Turray (19459), T P Srivastava (19460), A Pathak (19462), S Misra (19463), S Rawat (19464), P K Arora (19465), S K Sehgal (19466), S V Kute (19467), S Mishra (19987), A K Devrani (19988), L E Joseph (19989), A Mehta (20813), S Chaturvedi (20814), S S Misra (20815), K V Rama Rao (20816), wef 16 Dec 2004.

Flying Lieutenant to be Substantive Squadron Leader

S K Thakur (23716), A Apte (23717), A Singh (23930), D Kumar (24162), A Mittal (24163), (Mrs.) S Thakur (24164), wef 16 Dec 2004

Flying Officer to be Substantive Flight Lieutenant

P Singh (26079), D K patni (26209), (Mrs.) Vinila Verma (26212), (Ms) Sapna Devi (26639), (Mrs) K Neelam (26640), wef 16 Dec 2004.

ADM BRANCH

Flight Lieutenant to be Substantive Squadron Leader

(Mrs.) R P Haque (24311), (Mrs.) T Misbah (24312), K B Thakur (24330), M L Joshi (24331), T R Behra (24332), M C Sudan (24333), V Rajagopal (24334), G K Kahol (24335), R K Sharma (24336), K Singh (24337), G P Chaturvedi (24338), K S Shinde (24339), B Singh (24340), M K Nandi (24341), P S Surange (24516), A Bhardwaj (24553), Y S Panghal (24554), M Namdeo (24555), R A Kumar (24557), Shivanand (24558), M S Venkatram (24559), R Ranjan (24560), M K Mishra (24561), T R Shailesh Kumar (24562), R Samaddar (24563), G Rajnish (24565), M S Subramaniam (24566), T Srinivasulu (24567), A Mullick (24568), V Sridhar (24569), N S Raghavan (24570), S Syed Abdul Razaak (24571), S C Panda (24572), S P Singh (24574), B Singh (24575), V Ravichandran (24576), A Kumar (24577), G Srinvas (24579), L V Pralhad (24580), R C Bhati (24581), (Mrs.) R Bharadwaj (24591), S Mahajan (24592), (Ms) A Basudev (24596), (Mrs.) S K Minhas (24599), (Mrs) A Agarwal (24600), A Menon (24602), (Mrs.) M Koshal (24603), (Mrs.) B Kaur (24605), R Sharma (24606), (Ms.) V Ramachandran (24608), S Rawat (24610), R Chaudhary (24611), (Ms) S Ponnusamy (24614), S Mallik (24615), (Ms) M Devi (24618), J S Sohi (24619), (Mrs.) S Nautiyal (24621), (Mrs.) S Naidu (24622), J S Negi (24623), (Mrs.) N R Dalli (24624), B Bhadauria (24625), (Ms), D Joshi (24627), S Bhatnagar (24629), (Mrs.) J Chaudhary (24630), G N Kumar (24631), N Rawat (24632), (Mrs.) M Pradhan (24633), (Mrs.) J Rawat (24634), (Mrs.) R Pandhi (24635), S Amdekar (24636), D K Tyagi (24638), Sri Hari (24640), (Ms) M Tiwari (24642), (Mrs.) R K Singh (24645), Verma N (24908), R Singh (24926), R Dhaka (24934), J P Sebharwal (24972), R K Tiwari (24973), P Sharma (24974), S K Sinha (24975), R Singh (24976), T S Behal (24977), R S Pabla (24978), S S Mohite (24979), B V Kishore (24980), A Sharma (24981), M Pandey (24982), R Subramoney (24983), V S Salathia (24985), V S Hada (24986), S K Khanuja (24987), Sudhir Kumar (24988), D Datta (24989), G Singh (24990), P S Dhaniya (24991), K K Guliyani (24992), V S Suhag (24993), A M Venkat (24994), N J Reddy (24995),

D S Virk (24996), L K Swami (24997), D Bansal (24998), (Mrs.) Shikh Garg (25030), (Ms) Ajitha V (25031), D Veeranandhan (25052), RS Bhadauria (25053), RD Fialho (25133), J. Poosha (25152), AK Pandey (25153), H Raj (25154), G. Saxena (25155), V Kashyap (25156), NK Chhabba (25158), L Kumar (25159), A Sharma (25160), AE Thomas (25161), N Rana (25162), D Nayak (25163), M Tomar (25164), K Srinivasan (25165), S Sharma (25166), KK Khakkar (25167), AA Khan (25169), RK Reddy (25170), A Bhasin (25171), S Naitihani (25172), S Chakravarty (25173), JS Selurawat (25174), (Ms) Nidhi Sharma (25179), (Mrs) Mamta Manhas (25180), (Mrs) Rachna Purohit (25182), (Mrs) Asha Vashist (25183), (Ms) Shailja Sharma (25184), (Mrs) Sangeeta Sikri (25185), (Mrs) Sushmita Sahay (25187), (Mrs) Ruchita Sisodia (25188), (Ms) Prema Nair (25195), (Mrs) Arpita Chatterjee (25198), N Kumar (25199), JK Sharma (25201), (Ms) Sunanda Mhaske (25203), S Sharma (25204), MK Pillai (25205), (Ms) Rashmi Devakumar (25209), (Ms) Rakhi Agarwal (25215), A Sharma (25216), N Manjunath (25221), (Ms) madhusree Das (25225), wef 16 Dec 2004.

RP Rao (25532), JP Mishra (25534), PD Shukla (25535), wef 16 Jan 2005.

RJA Nasir (25365), PK Sahoo (25366), DAK Pillai (25367), JK Pandey (25368), S Tripathi (25371), A Sharma (25375), V Raghav (25377), AU Singh (25378), (Ms) Reena Gupta (25404), (Mrs) Sangeeta Kathait (25407), (Ms) Nidhi Agarwal (25409), N Kumar (25419), wef 19 Dec 2004.

TM Reddy (23619), Y Dabass (25064), wef 21 Dec 2004.

ADM BRANCH

Flying Officer to be Substantive Flight Lieutenant

PV Reddy (27087), wef 06 Jan 2005.

V Choudhary (26585), wef 14 Jan 2005.

JP Sinha (24353), R Singh (26080), SS Nain (26137), WI Singh (26345), RM Rodgers (26346), GS Cheema (26347), M Kumar (26348), Y Mohla (26349), A Kant (26350), A Sharma (26351), MSA Kumar (26352), S Sharma (26353), GP Radhakrishnan (26354), K Khanna (26355), MV Rama Murthy (26356), TS Narayanaswamy (26357), (Mrs) Vipanjit Sandhu (26365), (Ms) Sonia Raheja (26366), (Ms) Jagriti Chandna (26367), (Ms) Manju Pandey (26368), (Ms) Putta Sudha Rani (26369), (Mrs) Arundhati Kurtadikar (26370), (Mrs) Harsha Joshi (26371), (Ms) Ritushree (26372), (Mrs) Rajni Kosta (26373), (Ms) Rosy Abrol (26374), (Mrs) Pallavi Pense (26375), DK Gaur (26382), S Singh (26386), UK Sharma (26387), MS Panwar (26388), V Tiwari (26558), KB Binzu (26565), AS Sinha (26571), D Puri (26572), RS Rawat (26573), M Paliwal (26574), SS Rathi (26575), AS Thakur (26576), R Dhawan (26577), S Sridhar (26578), A Siddiqui (26579), SK Sharma (26580),

(26580), AK Chauhan (26581), VK Pandey (26582), K Elanchezian (26583), S Sunder (26584), MTB Rao (26586), KC Iyer (26587), G Srinivasu (26588), N Maithani (26589), MK Singh (26590), S Bhanotra (26591), KJ Antony (26592), J Vijay (26593), A Khanna (26594), GJ Abhishek (26595), CB Verghese (26596), R Bisht (26597), AA Bhattacharjee (26598), (Ms) P Thakur (26611), (Ms) N Kaur (26612), (Ms) Pratibha Sharma (26613), (Ms) Parul Mishra (26614), (Ms) Meenakshi Sharma (26616), (Ms) Shalini Choudhary (26617), (Ms) Sonia Rawat (26618), M Subbiah (26629), AVS Narayanan (26630), S Sivakumar (26631), M Singh (26633), AK Prasad (26634), S. Kumar (26635), SS Nair (26637), VS Chauhan (26638), V Lakhesh (26730), P Jha (26748), SJ Nair (26752), S Joshi (26753), G Cherian (26754), S Adhikari (26755), V Menon (26757), VPS Saiaria (26758), A Singh (26759), ND Gholba (26760), RS Baliarsingh (26761), L Antony (26762), PP Srivastava (26763), TP Subbiah (26764), MK Nair (26765), AK Yadav (26767), P Sharma (26768), (Mrs) priyadharsini Rajalingam (26782), (Ms) S Agarwal (26783), (Ms) C Arora (26784), (Ms) P Sharma (26785), (Ms) M Madan (26786), (Ms) N Malik (26787), (Ms) K Gunjan (26788), (Ms) M Pati (26789), S Dubey (26796), M Singh (26797), R Singh (27015), SS Bedi (27016), A Dube (27017), DS Bairwal (27018), MS Rathore (27019), P Prakash (27020), S Singh (27021), A Kumar (27022), V Ponnappa (27023), P Dwivedi (27024), AS Negi (27025), MVL Narayana (27026), M Arora (27027), V Valsalan (27028), R Choudhary (27029), A Kamboj (27031), A Raju (27032), T Sharma (27033), D Murgan (27034), I Ilankumaran (27035), S Melehisedel (27036), P Singh (27037), A Ravi Kiran (27039), S Misra (27940) (Ms) Anupama Singh (27054), (Ms) Bharti Dimri (27055), (Ms) Harveen Kaur (27056), (Ms) Geeta MR Manhas (27057), (Mrs) Gurpreet Atwal (27058), (Ms) P Sajini (27059), (Ms) L Abirami (27060), (Ms) Tapasya Sharma (27061), (Ms) Hemlata Iyer (27062), K Vinod (27068), A Shah (27069), H Singh (27070), B Singh (27071), AP Shaju (27072), S Chander (27073), AK Priyadarshi (27074), S Wazir (27075), M Kumar (27076), Vikas (27077), A Singh (27078), R Senthilnathan (27079), S Singh (27080), J Pranil (27081), S Singh (27082), DK Singh (27083), NMS Ali (27084), R Jain (27085), PK Sinha (27086), V Kapil (27088), SK Chahar (27089), S Singh (27090), P Singh (27091), K Srinivasan (27092), SH Karmarkar (27093), BP Nautiyal (27094), V Baunthiyal (27095), KA Nagarajan (27096), A Uppal (27097), M Balasubramaniam (27098), NP Uppal (27100), S Bhatt (27101), SS Chaudhary (27102), PP Kamath (27103), V Rohit (27104), M Dutta (27105), G Asthana (27106), CK Jain (27107), VRV Kumar (27108), wef. 16 Dec 2004.

SK Sharma (27303), RK Shukla (27304), PM Ilamurugu (27305), YR Yadav (27307), wef. 17 Jan 2005.

A Chaturvedi (27246), SG Kumar (27247), P Daga (27249), RK Choudhary (27250), B Mishra (27251), MSRK Nair (27254), MVS Reddy (27255), M Mayuran (27256), N Gupta (27259), S Ahmed (27260), M Sharma (27261), N Arora (27264), SVK Pillai (27265), (Ms) DB Dhasmana (27281), (Ms) RP Pillai (27282), (Ms) Deepika Nehra (27284), (Ms) Neeta Thakur (27285), (Ms) N Chithra (27288), wef. 21 Dec 2004.

LGS BRANCH

Wing Commander to be Substantive GP Capt (TS)

AK Singh (13424), VS Kalaan (13443), MK Roy (13676), PK Agnihotri (14051), RK Chaturvedi (14056), SP Malhotra (14508), SS Masuta (14517), RK Sharma (14521), MM Bajaj (14522), SK Khurana (14526), GS Makker (14527), A Shukla (14556), R Kataria (14954), VJ Narain (14956), DR Singh (14960), PK Misra (14961), Chandrashekhar (14962), VK Mehta (14965), ZA Rizvi (14968), P Chathly (14972), GM Zutshi (14975), RS Chauhan (15349), JV Singh (15350), R Kapur (15354), BMK Arora (15359), KS Malimath (15362), RK Srivastava (15364), R Bhal (15365), M Deshmukh (15367), AK Dey (15368), KK Krishnia (15425), wef. 16 Dec 2004.

R Malhotra (15551), RV Mokashi (15578), wef. 30 Dec 2004.

LGS BRANCH

Squadron Leader to be Substantive Wing Commander

CJ Singh (21709), BK Sinha (21710), wef. 01 Feb 2005.

MM Rao (16451), RK Yadav (17523), A Marwaha (17777), R Nanda (17779), PS Multani (18177), K Biswas (18178), AB Patel (18179), S Gupta (18595), CK Babu (18636), RR Gandhi (18637), RK Singh (18639), R Raturi (18642), L Johseph (18643), R Madhwal (18644), IV Krishna Rao (18645), MMD Mulla (18646), MR Mishra (18649), A Rawat (18650), S Kumar (18652), T Srinivas Rao (18653), T Srinivas (18654), B Ravikumar (19235), PSK Kumar (19236), A Badoni (19237), Santosh Kumar (19238), M Subramanian (19240), MM Binu (19241), A Singh (19242), S Dutta (19243), SK Sharma (19244), T Muthukrishnan (19245), SK Rao (19246), N Biswas (19248), R Badola (19249), D Amaresh (19375), TK Tantubay (19376), AK Pan (19377), NG Patro (19378), SK Pandey (19379), ID Mukherjee (19380), RC Tripathi (19393), JS Yadav (19384), CS Chandel (19385), D Sharma (19386), VK Singh (19387), S Sharma (19388), JP Satpathy (19389), CS Paul (19390), R Seth (19391), P Raghav (19392), L Rathinakumar (19483), JS Badhwar (19484), CM Kamath (19485), SA Jadhav (19486), A Asthana (19487), RK Bishnoi (19489), S Rawat (19490), MK Sinha (19493), N Ahtesham (19494), P Show (19495), RK Padhi (19496), A Jayantan (19497), SK Yadav (19498), A Chandra (19499), AK Pathak (19500), S Saxena (19502), A Joshi (19503), M Ravi Kumar (19504), P Kathuria (19505), BS Yadav (19506), R Parihar (19508), S Swaminathan (19509), L Mukherjee (19510), MR Sundaresh (19884), K. Bagga (19890), NK Pillai (19906), N Kishor (19935), AP Ranganathan (19936), SK Misra (19937), K Srinivasan (19938), B Chongtham (19941), PJ Jadhav (19943), S Chopra (19945), A Srivastava (19946), A Rathore (19947), AK Renick (19948), SG Murali (20079), R Kumar (20081), PS Kulasekhar (20082), a Suresh (20084), RA Kulkarni (20085), P Kumar (20086), A Chaudhary (20087), PS Rawat (20088), R Kudesia (20089), KM Rao (20090), V Sharma (20091), R Sharma (20092), SP Bhardwaj (20093), B Srinivasan (20094), A Kumar (20095), A Lahiri (20096), AP Nandakumar (20097), VS Kamat (20125), R Siddiqui (20208),

K Rastogi (20615), PVNRM Sarma (20616), N Nawani (20617), R Malik (20619), PK Gupta (20620), CS Bhatt (20621), N Cunchala (20622), V Menon (20623), R Bhandari (20624), Bhagawat (20625), M Dialani (20626), K Sharma (21350), P Marwaha (21351), AR Babu (21352), D Bedi (21353), S Rattan (21354), KM Arjun (21355), S Tomar (21356), A Tripathi (21357), SKS Gosain (21358), M Mangal (21359), R Chandra (21360), TV Reddy (21361), M Awasthi (21362), D Sharma (21363), M Mishra (21364), AK Tyagi (21629), A Pal (21630), RC Kumar (21631), V Widhani (21632), PK Awasthi (21633), H Singh (21634), AK Bishnoi (21635), PP Shenoy (21636), S Garg (21637), PP Bhaskaran (21638), SK Thathoo (21639), VK Reddy (21640), A Srivastava (21641), AK Sisodia (21642), AP Menezes (21644), S Kumara (21645), MSS Chandra Sekhar (21646), R Shankar (21647), PH Mascarenhas (21648), CVVS Rao (21649), wef. 16 Dec. 2004.

LGS BRANCH

Squadron Leader to be Substantive Wg Cdr (TS)

CK Hazarka (17776), DS Jamwal (17781), AK Rai (17786), A Pande (17789), S Manjunath (17790), M Gopal (17792), wef. 21 Dec. 2004.

LGS BRANCH

Flight Lieutenant to be Substantive Squadron Leader

R Nagarajan (22898), R Khanna (23253), P Chakraborty (23260), HS Koundal (23261), AMS Joseph (23264), A Agarwal (23528), JK Magar (23820), S Menon (23821), A Mathew (23822), SR Rao (23823), VV Singh (23825), RK Tripathi (23826), A Verghese (23827), V Dutta (23828), (Mrs) Priya Sehgal (23849), (Mrs) Kopal Gupta (23851), (Mrs) Sunita Kwartra (23852), (Mrs) Ashu Khindria (23853), AD Yadav (24178), KS Chouhan (24277), AK Narula (24278), BK Panda (24279), A Rana (24280), J Mandody (24281), R Mehta (24282), KM David (24283), A Tripathi (24284), S Jacob (24285), VS Shekhawat (24286), S Kumar (24287), V Singh (24288), EP Syam (24289), VK Karthikeyan (24290), R Mohanty (24291), DA Roy (24292), wef. 28 Feb 2005.

Flying Officer to be Substantive Flight Lieutenant

A Adarsh (27271), wef. 28 Feb 2005.

ADM BRANCH

FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

(Ms) M Choudhary (27544), (Ms) P Kumkuma (27545), (Ms) A Pathania (27546), (Ms) R Dubey (27547), (Ms) S Sighadia (27548), (Ms) N Saini (27549), (Ms) M Singh (27550), (Ms) S Mahato (27551), (Ms) B Bhattacharya (27552), (Ms) R Singh (27553), (Ms) T Rashmi (27554), (Ms) J Chaudhary (27555) wef 21 June 2005

ACCTS BRANCH

FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

(Ms) R Puri (27556), (Mrs) VD Menon (27557), (Ms) Navchetan (27558), (Ms) A Sabharwal (27559), (Ms) S Saxena (27560), (Ms) P Semwal (27561) wef 21 June 2005

EDN BRANCH

FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

(Ms) P Chopra (27562), (Mrs) M Sengar (27563), (Ms) V V Abhyankar (27564), (Ms) P Pathak (27565), (Ms) R Joshi (27566), (Ms) D Upadhyaya (27567) wef 21 June 2005

MET BRANCH

FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

(Ms) R Dimri (27192) wef 21 June 2005

ADM BRANCH

FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

K Thandapani (27501), M Gopinath (27502), S K Ojha (27503), P K Pillai (27504), R Sharma (27505), P V Ramana Rao (27506), R Sachin (27507), M P Dhand (27508), C P Gupte (27509), M Surendra (27510), B Mohanta (27511), N K Pal (27512), A Majumdar (27513), P Pathak (27514), Ajay Kumar (27515), A Shah (27516), S Saxena (27517), A Jaiswal (27518), S K Nigam (27519), A Menon (25520), GJ Singh (27521), R Arun Kumar (27522), MT Nair (27523), VV Singh (27524), Hari Om (27525), A K Tiwari (27526), A Dahiya (27527), MDRCS Menon (27528), D Dsouza (27500) wef 21 June 2005

ACCTS BRANCH

FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

S U Nair (27529), M Sood (27530), G Padma Kumar (27531), V Sarpal (27532), V Nair (27533), Sandeep (27534), VD Ingle (27535), VS Negi (27536), S Ganguly (27537), S Saxena (27538) wef 21 June 2005

EDN BRANCH

FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

P S Gujral (27539), Manoj Kumar (27540), N Pokhriyal (27541) wef 21 June 2005

MET BRANCH

FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

A N Tiwari (27542) wef 21 June 2005

ADM BRANCH

FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

H O Bhardwaj (27568) wef 21 July 2005

LGS BRANCH

FLIGHT LIEUTENANT TO BE SUBSTANTIVE SQUADRON LEADER

(Mrs) V Kukreti (24314), (Mrs) J Lakshmi (24315), (Mrs) M Mondal (24316), Ranjee (24345), R Singh (24348), DVB Mehar (25000), GC Mahapatra (25001), T K Rajendran Nair

(25002), K Sharma (25003), LN Pandey (25004), A Kumar (25006), R D Moses (25007), A S Negi (25008), A Srivastava (25009), S Jhingan (25010), R Dixit (25012), S Srivastava (25013), V Sharma (25014), N Kaushik (25015), CPV Sreejith (25016), (Ms) Swati Joshi (25034), (Mrs) Anuragini (25035), (Mrs) Himani Pande (25036), AV Mazumdar (25096), wef 16 Dec 2004

B Biswas (25379), Ramakant (25380), V Viswanathan (25381), S Yadav (25384), B Bhagwat Dilip (25385), P K Yadav (25388), P Varshney (25389), P K S Ahlawat (25390), P K Singh (25391), S K Singh (25392), A T Shaik (25393), (Mrs) Pujja Malik (25412), (Mrs) Kamna Khatri (25413), (Ms) Sumisha Pradhan (25414), A Upadhyay (25421), wef 19 Dec 2004

S Sivakumar (25382), wef 26 Dec 2004

LGS BRANCH

FLYING OFFICER TO BE SUBSTANTIVE FLIGHT LIEUTENANT

A K Sharma (26327), A Saha (26340), S Gangopadhyay (26358), PK Srivastava (26359), M S Manhas (26360), S P Singh (26361), S K M Nair (26362), K Mukherjee (26363), (Ms) Rajni Gupta (26377), (Mrs) Shanta Mishra (26378), (Ms) Amrit Kaur Chani (26379), (Ms) Anjali Dixit (26380), (Ms) Neena Bhati (26381), M K Pandey (26769), V S Choudhary (26770), S K Rai (26771), M Murali (26772), V Mankotia (26773), B V Kumar (26774), AL Kishore (26775), B R Guruprasad (26777), J Bhide (26778), MB Kushalappa (26779), (Ms) B Datta (26790), (Mrs) Payal Joshi (26791), (Ms) Monica Vashist (26792), (Ms) S Sharma (26793), (Ms) Sukhvinder Kaur Sudan (26794), (Mrs) Swati Srivastav (26795), wef 16 Dec 2004

D Chaudhary (27266), D Ganapati (27267), A K Sharma (27268), R R Mohindru (27270), DK Tiwari (27273), (Ms) Anuradha Thakur (27289), (Ms) Varsha Saxena (27290), (Ms) Gincy Thomas (27292), (Ms) Arti Bhaduarua (27293), wef 21 Dec 2004

T R Sharma (27274), wef 21 Feb 2005

ADM BRANCH

FLT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR

(Ms) Nirmala Tyagi (25692), (Ms) Shakuntala Borah (25693), (Ms) Seema Nandakumar (25696), (Mrs) Anjali Iyer (25694), (Ms) Susmita Mohapatra (25695) wef 19 June 2005

MET BRANCH

FLT LT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR

(Mrs) Abha Tewary (25275), (Ms) Seema Dahiya (25276) wef 19 June 2005

ADM BRANCH

FLT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR

Manpreet Singh Wadhawan (25671), M Yagnaraman (25672), Sayed Abid Ali (25674), Rakesh Kumar Rana

(25675), Rohit Dahiya (25677), Srinivasan V (25678), Atul Upreti (25673), Pankaj Vatsyayan (25676), Valluru Syam Prasad (25679), Vinayak Sharma (25680), Joju P D (25681), Rajiv Puri (25682), Arun Mishra Mishra (25683), Asheesh Pandit (25684), Hitesh Panwar (25685) wef 19 June 2005

EDN BRANCH

FLT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR

D K Kaushik (25686), R S Dominic (25687), Kamal Vivek Tyagi (25688) wef 19 June 2005

Ram Kishan Yadav (25699), wef 19 July 2005

ADM BRANCH

FLT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR

Sathish Gopalan Nair (25226), Shantanu (25228) wef 12 April 2005

FLIGHT LIEUTENANT TO BE SUBSTANTIVE SQUADRON LEADER

w.e.f. 03 Jan 2005

CD Dogra (23237), T Patankar (23241), S Singh (23249), S S Panda (23251), A Dayal (23252), (Mrs) Rachna Sharma (23288), (Mrs) Ragashree Dineshan Nair (23301), GP Chaturvedi (23496), B S Sisodia (23497), P N Singh (23504), S T Punathil (23596), S H Bandari (23601), R Janardhanan (23603), R Sharma (23607), T Sanil (23609), T S Khan (23614), S R Tripathy (23622), G N V V Anand (23626), B Singh (23778), A Shrivastav (23794), V Singh (23795), S Girish (23802), V Venkata Raman (23803), Y Subramaniam (23804), GS Basson (23805), M V Rainesh (23806), R S Tamme (23807), T Prasad (23808), S Stephen (23810), IM Atri (23812), R K Nanda (23813), S Patil (23814), M S Mathew (23815), R K Saini (23816), P Singh (23817), M K Pathak (23818), (Mrs) Jyoti Mehta (23844), (Mrs) Rumi Choudhary (23846), (Mrs) B Bondyapadhyay (23847), (Mrs) Taruna Singh (23848), C B Bhole (23915), C Siddan (23917), S K Nandy (23918), J Pandian (23919), H G Singh (23920), R R Shukla (23921), P K Jena (23922), B K Biswas (23923), (Mrs) S Chouhan (23935), (Mrs) Sarada Sinha (23937), (Mrs) N Gayathri (23939), (Mrs) Madhur Handa (23940), (Mrs) Rumi Kushwaha (23941), (Mrs) Navdeep Parmar (23942), (Ms) Mulasi Prapati (23943), (Mrs) Meenakshi Rai (23944), (Mrs) Rekha Sekhawat (23951), (Ms) Renu Bishen (23953), A P Rajesh (23956), (Mrs) Nitu Thapliyal (23958), B S Nair (23959), (Mrs) V M Theogarajan (23961), (Ms) C Jasmine (23964), A Sharma (23965), D S Negi (23969), (Mrs) Latha Arumugam (23970), M Trikha (23971), T S Sharma (24063), P C Kalia (24065), S K Verma (24066), C P Pandey (24067), J A Porselvam (24068), T Desai (24069), D N Tewari (24070), N K Marasur (24071), S K Pandey (24072), S S Budhwar (24073), V V K Rao (24074), D K Choudhary (24075), S Kumar (24076), Y S Prasad (24078), B Sukla (24079), K Kalyanaraman (24080), Jaikishnan (24081), P K Prusty (24082), J Chacko (24083), G Kaushish (24084), J K Chauhan (24085), S P S Setia (24086), D Singh (24087), DB More

(24088), S N Ahamed (24089), S KulKari (24090), B Koshy (24091), V V Paul (24092), M Imran Khan (24093), S Maurya (24094), Sharanappa (24096), N Kukreti (24098), B H Kumar (24099), A Bajpai (24101), P Srikanth (24102), S S Bhonsle (24103), S Bhattacharya (24104), (Mrs) M Thapliyal (24111), (Mrs) S Dhar (24112), (Mrs) N Singh (24113), (Mrs) U Shaligram (24114), (Mrs) M Thakur (24115), (Mrs) B Mehra (24116), A V Pethia (24197), G P Srivastav (24257), R K Khare (24258), H P Vaswan (24259), S Chandra (24261), N Singh (24262), A A Maindargi (24263), S K Singh (24264), B S Randhawa (24265), N S Rao (24266), M Viziakumar (24267), S Bindra (24268), G R Vijay (24269), P Harish (24270), V P Singh (24271), S Patnaik (24272), K Rajiv (24273), G Jithendran (24274), (Ms) S Rawat (24308).

SQUADRON LEADER TO BE SUBSTANTIVE WING COMMANDER

S Kumar (20572), P N S Nair (20579), A Kapoor (20580), B J Mammen (20581), R Muthuvel (25082), A Kapur (20583), N S Bajwa (20584), S R Sayil (20585), B K Tiwari (20587), K P Solanki (20588), J Singh (20589), N K Singh (20591), U Manoj (20592), AG Sonna (20596), N Nagrajan (20597), S K Singh (20598), B S Bajwa (20599), S Dhaka (20600), M P Samson (20601), M K Sharma (20602), M verghese (20603), MB Kumar (20605), A Kapur (20606), R S Sheoran (20609), V Banerjee (20610), P Mishra (20611), M Saxena (20612), RG Nakil (20614), R Sharma (20769), S K Manoharan (21302), G S Sidhu (21304), V K Dixit (21306), H P Singh (21307), S Kumar (21308), K R Sriraj (21309), H S Chaudhry (21310), W Joseph (21311), N S Sangari (21312), ARN Sharma (21313), S K Nath (21315), R S Chandawat (21316), V Ahuja (21317), S Bishnoi (21318), V K Mohan (21319), V Tripathi (21320), J Mathew (21321), A A Amrite (21322), P P Debnath (21323), B K Sharma (21324), I Nandkumar (21325), K Ravinder (21326), V Sharma (21328), D Pathak (21330), R Gupta (21331), K J Joseph (21332), A Khanna (21333), H E Nadar (21334), S K Sukumaran (21335), N Mishra (21338), K Gopal (21339), R Prasad (21340), R Singh (21341), G Correya (21342), K V Rao (21343), S Dhawan (21344), D Sharma (21346), S V Bhambani (21349), S Sajeev (21595), D S Kahlon (21603), T N Sunil (21604), V Dhammi (21605), R Sharma (21607), P K Bastia (21608), J K Singh (21609), S Velayudhan (21610), S Philip (21611), R C Tamang (21612), K Lalitendra (21614), A Kapoor (21615), A Choudhary (21617), E G A P Rao (21618), R Tripathi (21619), J J Singh (21620), S M Tangri (21622), R K Sharma (21623), N Behera (21624), P Chatterjee (21625), S K Singh (21626), Y Sharma (21627), wef 16 Dec 2004

ADM BRANCH

SQUADRON LEADER TO BE SUBSTANTIVE WG CDR (TS)

T Sajan (17750), K Manoharan (17751), V Venkataram (17754), A Kumar (17755), S C Adawatkar (17765), M Nithyanandan (17767), A R Sashidhar (17771), wef 21 Dec 2004

ADM BRANCH

FLIGHT LIEUTENANT TO BE SUBSTANTIVE
SQUADRON LEADER

S K Chauhan (25193), S Iyer (25197), T Chaudhary (25206), S P Gidda (25207), M Durai Raj (25208), A K Nair (25210), A K Malik (25211), P Rajesh (25212), A Pillai (25223), wef 02 Apr 2005

P Gokhale (25101),

SQUADRON LEADER TO BE SUBSTANTIVE WING
COMMANDER

S Ranganani (18155), RD Musabi (18158), V Subbarao (18160), AK Mitra (18292), S S Sahunkhe (18302), S Dubey (18309), A Mukherjee (18310), D B Patil (18312), RDS Rawat (18313), T P Vyas (18315), P Parik (18317), S K Prakash (18318), A K Bhatnagar (18319), P Anand (18320), S Chandel (18321), R Ganesh (18322), D Singh (18323), P K Ghosh (18324), S K Dhawan (18325), R Srinivasan (18327), B Singh (18328), M Wasdev (18330), S Sandhwar (18331), V K Kulshrestha (18333), A Rai (18334), G Joseph (18336), E R Rajappan (18602), G Hazra (18603), S Sachdeva (18604), A Goel (18605), R K Saini (18606), A S Karkare (18607), S R Menon (18608), J S Boparai (18610), R K Misra (18611), S P Sharma (18613), D K Pandey (18614), A Singha (18615), A Ghosh (18616), P S Rath (18619), A Pandey (18620), V S Radhakrishnan (18621), M Sunamudi (18623), JPS Jassal (18625), R K Arora (18626), S S Thakur (18628), B Nag (18629), R J Oulkar (18630), A Kumar (18631), A Chaturvedi (18635), Jose Mathai (18830), MK Sharma (18873), U K Gambhir (18875), P J Walia (18876), A K Arora (18878), S Srivastava (18879), V K Karandikar (18880), T Thomas (18881), D Dutta Roy (18882), P S Chakrabarty (18883), N Ghosh (18885), P Jain (18888), S Pati (18889), S Puri (18891), R K Anand (18892), S Mediratta (18893), S Sharma (18894), R Kapur (18896), V Dubey (18897), B Kaushal (18898), JPS Chauhan (18899), B Kumar (18900), M Nasir (18901), R P Singh (18902), A Tyagi (18903), P Shukla (18904), S Kumar (19169), M Sharma (19221), P S Karkare (19222), D C Pandey (19223), R Singh (19224), A S Deshpande (19226), M Mujeeb (19228), S K Mishra (19229), P S Kaushik (19230), M Kumar (19231), V Verma (19232), A K Nair (19234), M K Sanyal (19468), P A Naidu (19469), R Moitra (19471), R P Singh (19474), S Singh (19475), R K Dhir (19476), C K Srinarayan (19478), S Sreekanth (19479), A Vasisht (19481), M Gandhi (19482), N Pant (19918), AV Muthal (19920), S Bharat (19921), R Verma (19922), N A Alexander (19924), N C Srivastava (19925), N Sivakumar (19926), V S Hardas (19927), J B Rane (19928), R Ranjan (19929), S Misra (19930), V Singh (19931), A Shukla (19932), Y Venugopal (20054), SA Varghese (20055), R Chadha (20058), S Balachandran (20060), TN Pandey (20062), R Khera (20063), N Venkatesh (20065), S Murali (20066), BR Dessa (20067), N Paranan (20068), M Shrivastava (20069), JS Gill (20070), A Kumar (20071), KD Beri (20072), P Khare (20073), G Walia (20074), M K Mohandas (20075), PSB Rao (20078), Av Aglawe (20153),

D Sinha (20161), J S Bhalla (20186), R N Magadum (20187), R V Ramkishore (20188), M Arivazhagan (20189), K N Yadav (20190), S Kaul (20191), M V N Sai (20192), B K Sharma (20193), J Venkatesh (20194), C Sreenivas (20196), C Banerjee (20197), N Vijaykumar (20198), K Hurshan (20199), R K Chhabra (20201), S K Sahoo (20202), M V R Vikraman (20203), M S Jayasimha (20204), S Sivakumar (20205), R K S Sisodia (20206),

F (N) BRANCH

FLYING OFFICER TO BE SUBSTANTIVE FLIGHT
LIEUTENANT

S Amrutar (26130), A Pandey (26333), Z Thomas (26334), S Singh (26335), J Raman (26336), N Arun Kumar (26337), S Ghildiyai (26338), NKP Bhosale (26339), M R Mishra (26341), B K Chakravarthy (26342), G Dattagupta (26343), A Chauhan (26344), D Bhardwaj (26563), S B Sharma (26564), P K Rai (26566), A Pathak (26567), A K Sood (26568), S Sharma (26569), V Anil Kumar (26570), A Umar (26744), V Umrao (26745), R Sagar (26746), K S Sawhney (26747), N Chouhan (26749), D S Rajput (26750), B Saikia (26751), M Kulshreshtha (27009), A Shivkumar (27010), P P Borah (27011), V K Panjiyar (27012), R Kumar (27013), A Chodia (27014), wef 16 Dec 2004

S K Kakunje (27233), V Joshi (27234), M Sharma (27236), R Roy (27237), R Sangwan (27239), wef 21 Dec 2004

WING COMMANDER TO BE SUBSTANTIVE GP CAPT
(TS)

K S Sekhon (15178), wef 16 Dec 2004

F (N) BRANCH

SQUADRON LEADER TO BE SUBSTANTIVE WING
COMMANDER

S Raj Kumar (20566), K Singh (20567), U K Jha (20568), S V Kate (20569), S Srivastava (20570), D P Singh (20573), K Sinha (20802), R K Singh (20803), S K Mathur (20804), L K Jain (21036), R N Chakraborty (21037), V Aggarwal (21038), R S Bhatia (21039), R M Kumarasamy (21040), D Suri (21041), S K Singh (21042), P Sarvanan (21043), A Banerjee (21044), N Harikrishnan (21045), V Chandra (21046), V Krishnappa (21049), K R Chandra (21283), S Murli (21284), V Ravi (21285), A P Kashyap (21286), R Sahoo (21287), S Thomas (21288), D Mitra (21289), N S Dhamne (21291), J P Nath (21292), V K Aggarwal (21293), V Nigam (21294), D Chakravarty (21295), T S S Krishnan (21296), S Dixit (21297), K A F Swittens (21298), M K Kulkarni (21299), P Atrerya (21300), S Khan (21581), V Rajagopalan (21582), S B Arun Kumar (21584), S K Gupta (21585), S K Paul (21586), S N Prasad (21588), R Kiran (21589), N P Praveen (21590), R K Snehi (21591), R Panwar (21592), Y M Nadkarni (21593), V S Rana (21594), S K Singh (21597), V K Jain (21598), A K Jha (21600), S S Jadav (21601), D Ahluwalia (21602), wef 16 Dec 2004

F (N) BRANCH

FLIGHT LIEUTENANT TO BE SUBSTANTIVE
SQUADRON LEADER

S K Gaur (23230), H S Sasson (23579), R Yadav (24061), K Kala (24246), P Dharwal (24247), P Venugopal (24248), R K Biswas (24249), P Singh (24250), P V Deshpande (24251), P Davis (24252), R Ghosh (24253), H Dua (24254), A Sinha (24255), A A Kelkar (24256), S Biswas (24541), S Pillai (24542), M Jeyakumar (24543), A K Singh (24544), A M Rane (24545), S Pattnaik (24547), P L Vaidya (24548), C B Dandekar (24549), N V Palwe (24551), S Kumar (24552), A K Bahuguna (24961), J Kumar (24962), R M Nair (24963), D K Sahani (24964), V Gupta (24965), V Agnihotri (24968), R Singh (24969), M Shukla (24970), K S Chauhan (24971), V K Tripathi (25142), A Khanna (25143), A Shrivastava (25144), S Kapoor (25145), M K Srivastav (25146), G Sud (25147), P K Mishra (25148), A Tiwari (25149), P K Mishra (25151), wef 16 Dec 2004

D Maheshwari (25354), J S Srechari (25356), R Rakesh (25357), A K Dash (25360), A Jain (25361), wef 19 Dec 2004

S SRIVASTAV
Wg Cdr
JDPO-3(D)

AIR BRANCH

No. 392, Dated 5 July 2006—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

INDIAN AIR FORCE

AE BRANCH

TO BE SUBSTANTIVE AIR VICE MARSHAL

R YADAV (12809) AE(M) 29-12-05
13-06-05

(To be counted for the purpose of seniority without any effect on pay and allowanccs)

(His name will appear between AVM KM Ramasundra (12833) AE(L) and AVM RS Sandhu (13174) AE(M) in the combined gradation list)

K V SHANKAR
Jt Dir of Personnel (Officers) -PO-2(B)